

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 35/484**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3406	8.64	52.17	11.75	0.5296
2	3451	8.72	60.36	11.40	0.5999
3	3429	8.34	57.89	11.73	0.5663
4	3438	8.36	44.34	12.63	0.4682
5	3464	7.02	48.85	13.74	0.4710
6	3459	9.3	56.79	14.35	0.7580
7	3460	4.29	49.00	14.51	0.3050
8	3404	4.25	56.43	12.74	0.3056
9	3491	8.41	50.45	15.36	0.6518
10	3415	7.14	43.48	17.34	0.5384
11	3490	9.05	54.28	14.19	0.6969
12	3408	7.51	62.10	10.29	0.4799
13	3472	8.1	58.37	10.90	0.5152
14	3477	7.22	65.32	12.45	0.5870
15	3486	6.79	44.74	12.47	0.3789
16	3419	7.19	59.56	12.84	0.5500
17	3416	8.87	58.10	13.06	0.6732
18	3473	8.26	51.61	12.15	0.5179
19	3443	6.9	44.80	13.06	0.4037
20	3413	4.48	55.57	13.05	0.3248
21	3456	8.79	56.66	11.98	0.5968
22	3424	6.38	44.42	13.03	0.3694
23	3462	7.38	59.24	11.46	0.5011
24	3497	8.57	55.89	10.84	0.5193
25	3430	8.2	57.85	11.69	0.5543
26	3454	8.5	57.70	10.19	0.4998
27	3445	7.57	49.70	9.54	0.3588
28	3467	7.21	52.03	10.94	0.4102
29	3426	7.2	56.99	12.88	0.5285
30	3434	4.3	52.06	9.43	0.2111
31	3433	4.23	59.78	12.58	0.3181
32	3468	7.43	50.25	12.80	0.4777
33	3470	7.34	56.98	11.14	0.4661
34	3458	6.53	57.09	10.61	0.3957
35	3455	7.31	58.28	13.49	0.5746
36	3495	7.24	59.74	13.53	0.5850
37	3480	7.37	54.97	11.32	0.4584
38	3409	7.38	55.07	13.84	0.5624
39	3475	6.66	50.85	11.98	0.4056
40	3469	7.19	61.28	14.52	0.6399
41	3476	7.39	56.54	13.81	0.5772
42	3500	7.87	66.82	13.66	0.7185

43	3405	7.11	56.75	10.91	0.4401
44	3417	4.55	63.67	11.98	0.3472
45	3439	7.96	52.47	9.57	0.3996
46	3421	7.17	57.45	11.47	0.4725
47	3402	7.6	55.51	11.28	0.4758
48	3431	7.03	65.52	13.61	0.6271
49	3423	4.36	66.28	12.40	0.3584
50	3463	7.26	54.62	12.36	0.4900
51	3441	7.33	47.16	12.81	0.4427
52	3482	4.34	57.76	13.35	0.3346
53	3447	7.22	51.00	10.71	0.3942
54	3484	7.43	48.92	13.25	0.4815
55	3425	9.01	53.97	12.67	0.6163
56	3496	7.55	59.24	12.58	0.5625
57	3411	7.28	52.43	9.99	0.3815
58	3474	7.74	58.89	13.04	0.5944
59	3471	6.92	49.53	11.77	0.4034
60	3422	4.51	58.59	10.70	0.2828
61	3479	7.24	55.54	11.83	0.4757
62	3465	9.09	61.77	12.24	0.6872
63	3499	8.88	54.83	11.51	0.5603
64	3483	4.4	71.59	11.12	0.3502
65	3449	7.34	44.29	11.20	0.3641
66	3427	7.14	58.68	12.76	0.5348
67	3478	4.23	51.48	12.94	0.2817
68	3420	8.22	51.23	11.05	0.4653
69	3498	8.66	64.58	11.94	0.6677
70	3446	7.5	55.44	11.54	0.4800
71	3428	7.06	61.21	12.86	0.5556
72	3412	7.41	54.31	13.88	0.5587
73	3444	6.64	50.11	11.71	0.3898
74	3493	6.97	59.79	14.28	0.5952
75	3453	9.16	61.37	11.55	0.6494
76	3448	8.35	45.72	16.03	0.6121
77	3440	8.05	53.82	12.93	0.5603
78	3452	8.83	55.29	13.96	0.6817
79	3487	9.03	51.86	15.95	0.7468
80	3432	7.16	61.22	13.72	0.6014
81	3442	8.41	42.68	15.79	0.5668
82	3494	3.24	54.19	15.37	0.2699
83	3488	7.42	55.03	15.85	0.6470
84	3435	7.85	37.55	14.67	0.4325
85	3457	7.31	44.70	15.95	0.5212
86	3485	7.09	62.66	13.04	0.5793
87	3401	6.82	41.05	12.40	0.3471
88	3403	7.14	54.15	11.76	0.4548
89	3418	4.27	61.67	11.30	0.2976

90	3414	7.45	51.36	13.14	0.5029
91	3481	8.18	57.58	12.97	0.6110
92	3437	4.32	50.52	14.45	0.3154
93	3407	4.5	60.31	12.87	0.3492
94	3461	6.94	50.21	14.18	0.4941
95	3489	4.38	61.99	14.52	0.3942
96	3410	8.18	63.20	13.73	0.7100
97	3492	6.93	53.56	13.89	0.5156
98	3450	4.53	55.32	13.65	0.3420
99	3466	7.1	52.83	14.06	0.5275
100	3436	7.36	44.12	15.50	0.5034

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 36/485

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3559	4.49	60.42	6.69	0.1814
2	3580	3.22	57.95	13.15	0.2454
3	3518	4.5	54.12	11.09	0.2700
4	3547	4.38	71.96	12.03	0.3793
5	3591	3.63	54.76	12.93	0.2570
6	3557	4.24	61.15	10.01	0.2595
7	3532	7.66	52.75	12.28	0.4964
8	3530	7.45	48.25	12.27	0.4410
9	3539	7.35	58.38	10.26	0.4403
10	3575	3.88	60.09	12.63	0.2945
11	3538	7.56	62.44	11.15	0.5262
12	3503	8.15	61.14	12.48	0.6218
13	3511	7	52.23	10.01	0.3661
14	3520	7.24	53.92	11.26	0.4395
15	3570	8.27	52.63	13.26	0.5772
16	3533	8.29	45.06	15.49	0.5786
17	3595	8.27	68.52	12.58	0.7129
18	3598	8.7	56.81	13.96	0.6899
19	3526	7.93	46.42	15.40	0.5670
20	3546	8.72	58.99	12.43	0.6392
21	3536	8.64	58.32	12.55	0.6324
22	3561	8.25	47.19	14.16	0.5511
23	3510	8.33	46.96	14.12	0.5523
24	3529	7.5	56.48	13.39	0.5670
25	3555	8.88	48.02	13.99	0.5967
26	3565	7.78	51.51	15.40	0.6170
27	3554	7.94	48.10	14.32	0.5471
28	3515	8.93	44.73	17.26	0.6894
29	3600	4.42	44.40	15.09	0.2961
30	3527	8.75	52.88	13.73	0.6353
31	3550	4.21	50.83	11.53	0.2467
32	3572	6.88	56.45	11.78	0.4575
33	3563	6.93	53.15	14.41	0.5308
34	3577	6.62	56.61	15.00	0.5620
35	3589	3.6	64.26	13.29	0.3074
36	3521	7.24	52.64	11.13	0.4243

37	3542	8.68	59.83	10.45	0.5425
38	3514	7.39	49.34	12.77	0.4656
39	3599	8.33	44.85	10.41	0.3890
40	3509	8.27	46.91	13.92	0.5400
41	3512	7.1	52.50	11.26	0.4196
42	3597	6.63	39.31	9.97	0.2599
43	3571	7.78	46.31	14.58	0.5252
44	3531	8.51	63.19	13.42	0.7216
45	3593	9.23	53.24	13.24	0.6507
46	3569	3.27	62.49	13.70	0.2799
47	3545	8.54	64.43	12.21	0.6721
48	3517	7.25	48.28	11.54	0.4038
49	3566	5.88	50.16	14.29	0.4216
50	3573	3.56	58.10	12.94	0.2677
51	3544	8.71	55.70	13.00	0.6306
52	3540	7.31	58.07	11.73	0.4978
53	3549	6.66	43.03	12.01	0.3443
54	3537	8.56	61.93	12.05	0.6386
55	3502	8.5	63.15	12.62	0.6775
56	3558	4.13	56.67	11.21	0.2623
57	3564	3.7	53.83	14.16	0.2819
58	3525	4.22	52.60	13.75	0.3051
59	3576	6.97	62.47	12.42	0.5409
60	3516	7.34	55.30	12.77	0.5182
61	3535	4.32	62.87	12.58	0.3417
62	3582	7.1	63.85	12.75	0.5779
63	3560	6.86	47.21	13.26	0.4294
64	3578	7.61	51.77	12.03	0.4741
65	3586	3.43	56.47	14.33	0.2775
66	3592	6.99	60.37	13.05	0.5508
67	3541	3.48	60.13	13.72	0.2871
68	3551	4.48	48.11	14.97	0.3226
69	3501	7.06	60.91	11.64	0.5006
70	3587	7.13	60.78	12.11	0.5248
71	3581	6.28	54.27	15.83	0.5395
72	3508	3.98	40.00	16.92	0.2694
73	3507	8.48	57.95	14.15	0.6954
74	3523	7.38	45.01	16.37	0.5439
75	3594	3.52	56.22	15.17	0.3003
76	3504	7.35	59.82	15.80	0.6946
77	3588	6.67	50.88	15.86	0.5383
78	3574	6.32	52.91	10.91	0.3647
79	3596	3.65	58.84	15.36	0.3300
80	3562	7.21	46.35	16.94	0.5660
81	3585	6.83	61.00	13.20	0.5498
82	3584	3.55	57.76	11.36	0.2329
83	3548	4.21	51.16	13.15	0.2833
84	3583	3.46	54.66	14.56	0.2754
85	3556	4.24	56.03	11.32	0.2688
86	3506	7.12	50.58	13.40	0.4827

87	3553	7.65	43.41	12.83	0.4261
88	3519	7.32	51.08	13.55	0.5065
89	3505	8.56	57.86	12.95	0.6411
90	3524	7.64	48.57	12.29	0.4561
91	3513	9.1	52.45	13.71	0.6543
92	3568	6.66	60.48	12.33	0.4968
93	3522	4.05	52.48	12.35	0.2624
94	3543	7.53	60.73	13.78	0.6303
95	3528	8.4	52.68	14.58	0.6451
96	3552	6	46.08	15.89	0.4392
97	3567	6.97	51.63	14.80	0.5325
98	3579	6.8	55.07	14.15	0.5297
99	3534	4.51	57.11	14.73	0.3793
100	3590	3.2	64.52	14.65	0.3024

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 40/495

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3913	4.72	59.08	11.17	0.3115
2	3985	4.31	56.77	11.03	0.2698
3	3902	4.05	69.70	12.12	0.3422
4	3916	4.32	57.11	12.12	0.2989
5	3973	2.06	59.54	11.50	0.1411
6	3944	6.96	55.91	13.24	0.5150
7	3940	4.73	61.78	12.35	0.3609
8	3950	6.75	56.43	11.06	0.4212
9	3906	4.3	57.44	10.32	0.2550
10	3942	4.12	56.84	13.67	0.3201
11	3943	6.88	53.46	12.63	0.4644
12	3975	4.3	61.70	12.19	0.3234
13	3939	4.59	64.01	12.00	0.3525
14	3962	6.89	54.00	10.69	0.3976
15	3952	4.26	57.44	11.98	0.2931
16	3907	4.07	47.28	13.39	0.2576
17	3948	6.95	60.46	12.26	0.5150
18	3954	6.99	55.39	11.83	0.4578
19	3998	2.73	63.20	13.61	0.2348
20	3920	4.25	56.25	10.76	0.2571
21	3988	3.27	67.61	14.13	0.3123
22	3978	3.52	57.75	11.64	0.2365
23	3904	6.9	41.05	12.76	0.3616
24	3947	7.04	56.26	11.68	0.4625
25	3994	4.28	61.39	13.62	0.3578
26	3908	7.01	52.43	11.08	0.4073
27	3958	7.05	60.70	14.83	0.6345
28	4000	7.49	73.61	11.85	0.6531
29	3924	4.61	65.50	12.75	0.3849
30	3946	8.58	58.62	10.92	0.5491
31	3934	4.19	56.24	9.60	0.2263
32	3966	6.84	57.34	10.83	0.4248
33	3910	7.02	48.67	11.30	0.3861

34	3989	6.54	56.71	14.48	0.5369
35	3976	7.02	54.49	13.05	0.4991
36	3932	4.13	52.91	10.81	0.2362
37	3955	7.08	60.57	13.31	0.5706
38	3945	2.93	51.47	13.46	0.2030
39	3919	4.78	60.01	12.06	0.3461
40	3969	6.86	46.62	11.24	0.3595
41	3967	7.28	66.37	11.80	0.5700
42	3997	3.3	72.80	12.20	0.2930
43	3972	3.74	55.20	12.99	0.2682
44	3993	4.18	66.73	11.48	0.3202
45	3901	4.22	64.77	10.34	0.2827
46	3986	4.24	50.45	12.45	0.2663
47	3953	4.02	59.04	10.79	0.2561
48	3990	4.29	56.43	11.25	0.2724
49	3983	4.27	58.67	12.65	0.3168
50	3949	6.63	59.83	13.94	0.5529
51	3960	4.13	67.82	13.09	0.3667
52	3961	3.86	50.16	11.00	0.2131
53	3922	7.19	55.97	12.99	0.5227
54	3929	4.19	58.39	10.02	0.2451
55	3991	7.73	65.01	12.69	0.6377
56	3979	8.63	54.73	11.40	0.5385
57	3981	6.63	62.33	13.43	0.5549
58	3909	7.49	50.81	10.25	0.3902
59	3917	7.11	56.24	13.50	0.5396
60	3987	6.99	55.01	11.85	0.4557
61	3937	7.54	66.45	12.52	0.6273
62	3933	4.34	57.02	12.43	0.3077
63	3977	6.27	53.45	11.60	0.3887
64	3996	8.6	67.17	13.01	0.7516
65	3992	4.42	65.51	14.84	0.4296
66	3927	4.4	51.78	14.85	0.3384
67	3931	4.57	57.50	14.26	0.3747
68	3925	4.36	44.80	15.38	0.3004
69	3912	4.35	51.86	14.94	0.3371
70	3999	4.1	64.63	12.83	0.3399
71	3980	3.83	52.95	14.05	0.2850
72	3941	4.13	50.52	14.47	0.3019
73	3970	4	54.32	13.40	0.2912
74	3957	4.29	58.20	13.80	0.3445
75	3928	6.88	56.10	10.89	0.4204
76	3911	6.99	50.06	11.43	0.3998
77	3914	8.31	53.38	14.42	0.6399
78	3923	3.86	50.17	11.54	0.2235
79	3903	4.28	73.29	10.04	0.3150
80	3968	8.48	47.24	13.44	0.5385
81	3971	6.13	53.51	12.11	0.3972
82	3930	7.66	64.88	10.74	0.5339
83	3935	7.2	64.54	11.76	0.5465

84	3915	7.38	59.89	12.06	0.5328
85	3995	4.09	66.57	13.23	0.3603
86	3982	3.59	52.80	15.70	0.2976
87	3951	4.05	45.89	16.32	0.3033
88	3959	6.93	63.34	14.10	0.6188
89	3963	6.96	46.21	15.86	0.5102
90	3926	9.23	64.89	12.88	0.7716
91	3938	4.29	53.99	16.93	0.3921
92	3984	7.18	55.58	13.96	0.5572
93	3918	9.01	48.47	16.24	0.7091
94	3965	7.39	61.25	14.12	0.6392
95	3964	7.43	59.13	14.09	0.6189
96	3905	6.88	53.47	11.41	0.4197
97	3974	6.85	54.87	14.49	0.5446
98	3956	7.38	53.06	12.99	0.5085
99	3921	4.42	56.42	13.84	0.3452
100	3936	7.47	54.49	14.35	0.5842

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 41/496

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4019	6.27	49.85	9.95	0.3110
2	4029	6.18	44.03	11.45	0.3115
3	4085	4.73	63.82	11.28	0.3406
4	4061	3.57	62.71	10.03	0.2246
5	4013	4.59	66.68	9.48	0.2901
6	4062	3.36	59.91	11.77	0.2369
7	4064	4.08	59.25	12.20	0.2950
8	4035	4.28	62.88	11.08	0.2983
9	4007	6.62	49.10	10.41	0.3383
10	4014	3.78	34.58	14.17	0.1852
11	4023	6.98	52.15	13.84	0.5040
12	4034	7.8	51.30	15.07	0.6029
13	4008	7.66	56.63	13.01	0.5645
14	4069	7.35	52.16	13.54	0.5189
15	4066	7.25	47.04	13.37	0.4560
16	4033	6.63	43.63	15.79	0.4568
17	4011	4.54	43.43	16.67	0.3287
18	4038	4.25	48.84	14.93	0.3098
19	4017	4.49	44.21	15.74	0.3125
20	4027	7.44	51.14	13.47	0.5126
21	4012	7.33	57.33	12.30	0.5168
22	4002	7.33	60.80	9.70	0.4325
23	4078	7.41	61.07	13.67	0.6187
24	4080	9.38	64.75	11.66	0.7082
25	4094	7.68	64.69	13.25	0.6582
26	4096	7.19	61.71	11.78	0.5227
27	4056	6.86	52.86	12.33	0.4473
28	4059	6.9	59.15	10.72	0.4375
29	4074	7.52	67.88	11.49	0.5866
30	4010	7.04	54.25	13.24	0.5055

31	4022	7.17	50.68	10.04	0.3650
32	4050	6.51	52.60	11.83	0.4049
33	4089	4.38	62.43	11.81	0.3228
34	4047	4.28	57.83	11.50	0.2846
35	4100	3.79	68.93	13.33	0.3483
36	4095	7.61	65.56	10.89	0.5434
37	4063	7.21	58.59	11.13	0.4701
38	4024	6.82	50.56	10.40	0.3587
39	4057	6.43	57.24	11.90	0.4379
40	4044	6.59	46.54	9.95	0.3051
41	4073	7.59	60.85	11.73	0.5419
42	4016	7.09	53.42	10.24	0.3878
43	4053	8.45	57.32	11.60	0.5619
44	4026	7.27	57.63	13.33	0.5583
45	4043	7.18	56.50	11.96	0.4854
46	4004	6.58	54.30	11.10	0.3968
47	4054	6.97	51.34	9.95	0.3562
48	4099	4.53	64.43	11.42	0.3334
49	4075	4.59	62.29	13.10	0.3745
50	4052	8.59	51.60	10.97	0.4862
51	4042	6.67	54.51	11.12	0.4042
52	4018	4.1	42.50	11.65	0.2029
53	4070	4.12	54.75	11.85	0.2674
54	4046	4.24	59.10	12.27	0.3074
55	4097	8.16	63.00	13.32	0.6846
56	4060	6.91	61.65	12.13	0.5169
57	4045	4.01	54.34	12.57	0.2739
58	4037	6.75	50.31	10.36	0.3517
59	4090	3.82	59.05	11.36	0.2563
60	4001	6.62	48.01	9.48	0.3012
61	4082	7.39	64.20	12.73	0.6038
62	4093	8.47	72.84	12.22	0.7538
63	4030	8.89	51.97	10.01	0.4623
64	4081	7.58	48.42	12.64	0.4639
65	4049	6.42	51.00	13.71	0.4488
66	4092	7.43	62.88	11.58	0.5409
67	4079	8.64	58.73	10.56	0.5357
68	4031	7.41	56.44	12.90	0.5394
69	4088	7.62	65.92	12.67	0.6363
70	4048	7.67	50.71	11.93	0.4640
71	4065	8.46	61.80	12.10	0.6328
72	4009	4.17	55.99	13.40	0.3128
73	4021	6.69	45.43	12.94	0.3934
74	4032	7.26	58.20	12.35	0.5220
75	4036	8.69	59.49	11.82	0.6109
76	4098	8.92	55.85	16.17	0.8055
77	4055	6.99	48.33	12.66	0.4278
78	4020	8.53	43.00	16.19	0.5937
79	4005	7.37	53.39	15.02	0.5911
80	4086	9.15	56.88	14.15	0.7366

81	4071	7.47	57.90	14.53	0.6282
82	4087	7.16	60.36	14.28	0.6172
83	4077	7.1	56.97	13.62	0.5510
84	4039	8.8	44.97	16.46	0.6512
85	4084	7.7	64.69	13.84	0.6891
86	4051	7.23	60.70	12.64	0.5545
87	4083	7.4	63.16	11.87	0.5550
88	4003	6.83	53.12	11.94	0.4330
89	4041	8.94	48.62	11.17	0.4854
90	4067	7.36	58.96	12.86	0.5579
91	4028	6.2	45.83	14.42	0.4098
92	4025	7.25	44.02	10.84	0.3458
93	4058	7.2	52.12	13.99	0.5249
94	4072	8.69	57.84	10.91	0.5483
95	4068	7.68	64.17	10.97	0.5407
96	4076	7.36	61.13	13.84	0.6227
97	4015	7.16	43.25	15.33	0.4747
98	4091	8.09	63.91	13.69	0.7079
99	4006	4.27	48.70	14.97	0.3113
100	4040	7.24	54.18	13.53	0.5307

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 44/499

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4306	4.5	65.15	10.50	0.3078
2	4325	7.37	68.49	12.29	0.6206
3	4324	4.27	71.10	11.63	0.3531
4	4310	7.04	67.32	11.71	0.5548
5	4304	4.29	69.15	11.21	0.3325
6	4316	4.21	47.86	13.85	0.2791
7	4326	4.18	67.53	11.58	0.3269
8	4303	4.41	63.48	10.68	0.2990
9	4312	4.23	68.15	10.62	0.3063
10	4315	4.37	64.31	12.66	0.3557
11	4302	7.19	59.58	14.45	0.6191
12	4322	7.15	67.12	14.23	0.6828
13	4305	4.22	62.94	13.52	0.3591
14	4314	4.15	55.89	12.85	0.2980
15	4323	4	69.12	13.63	0.3768
16	4321	4.21	60.50	14.36	0.3658
17	4320	4.31	60.74	14.47	0.3788
18	4311	4.3	61.63	13.91	0.3685
19	4308	4.41	53.43	14.13	0.3330
20	4317	3.89	66.60	11.98	0.3104
21	4307	7.2	60.00	11.92	0.5148
22	4318	7.14	69.05	12.69	0.6255
23	4319	4.28	68.17	11.78	0.3437
24	4313	4.33	70.28	11.24	0.3421
25	4301	7.07	67.74	13.09	0.6271
26	4309	4.18	61.47	12.22	0.3139

Date: 03.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 21/270**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2004	4.57	56.06	14.75	0.3779
2	2007	7.48	57.83	13.92	0.6021
3	2023	4.72	61.60	14.84	0.4314
4	2032	4.75	55.43	12.59	0.3315
5	2043	7.72	58.72	12.28	0.5566
6	2019	4.86	61.02	13.98	0.4146
7	2068	4.85	54.05	12.28	0.3220
8	2080	7.53	53.43	11.94	0.4804
9	2058	4.67	53.24	13.73	0.3414
10	2095	7.54	59.12	13.97	0.6228
11	2059	9.46	52.05	14.70	0.7237
12	2011	9.08	54.34	14.70	0.7255
13	2025	4.4	54.22	14.00	0.3340
14	2020	7.25	60.87	14.36	0.6336
15	2082	4.35	50.66	15.36	0.3384
16	2010	8.62	49.55	13.38	0.5715
17	2049	9.41	47.59	16.07	0.7199
18	2063	8.06	50.83	13.69	0.5610
19	2071	9.31	59.61	13.99	0.7765
20	2031	9.69	47.37	12.71	0.5833
21	2012	7.54	62.93	12.87	0.6107
22	2054	7.56	53.25	11.15	0.4491
23	2099	7.62	65.96	12.96	0.6515
24	2028	7.6	60.34	13.39	0.6141
25	2072	7.74	57.86	12.29	0.5503
26	2006	4.32	56.27	14.13	0.3434
27	2098	4.53	60.93	12.77	0.3524
28	2069	4.79	62.44	12.73	0.3808
29	2088	7.59	53.05	12.46	0.5017
30	2092	4.46	64.95	14.47	0.4192
31	2041	4.8	60.54	14.11	0.4099
32	2047	9.14	58.33	12.14	0.6471
33	2017	7.53	60.98	13.73	0.6303
34	2036	9.6	46.92	12.92	0.5818
35	2051	9.17	58.58	13.81	0.7419
36	2057	4.83	59.51	12.22	0.3511
37	2018	4.55	54.97	13.83	0.3458
38	2039	4.9	57.43	11.34	0.3190
39	2100	7.26	55.61	14.26	0.5757
40	2053	9.56	55.48	13.99	0.7419
41	2090	7.55	54.51	15.34	0.6312
42	2016	7.44	48.69	15.69	0.5684

43	2089	4.33	49.23	15.44	0.3291
44	2015	4.36	59.74	14.61	0.3806
45	2030	8	52.16	12.71	0.5304
46	2002	4.47	50.93	14.47	0.3294
47	2079	4.76	49.82	13.83	0.3280
48	2029	4.53	60.43	13.92	0.3810
49	2087	4.47	55.53	14.84	0.3683
50	2009	7.38	55.83	15.17	0.6251
51	2077	4.46	57.38	12.48	0.3193
52	2033	4.54	52.26	13.28	0.3151
53	2064	5	63.24	13.22	0.4180
54	2073	4.73	62.71	13.16	0.3902
55	2078	4.6	55.99	14.75	0.3800
56	2042	7.83	59.14	12.17	0.5638
57	2076	7.74	54.02	13.55	0.5666
58	2096	7.03	65.76	14.64	0.6770
59	2074	4.85	62.89	12.24	0.3734
60	2005	7.32	55.02	14.43	0.5812
61	2093	4.36	56.47	13.90	0.3423
62	2035	4.76	53.24	13.04	0.3303
63	2067	7.62	54.73	12.97	0.5410
64	2055	4.65	50.13	13.94	0.3250
65	2027	3.85	59.87	14.41	0.3323
66	2045	7.72	50.80	12.95	0.5080
67	2065	4.74	50.61	13.67	0.3280
68	2040	7.57	46.00	14.57	0.5072
69	2022	4.23	57.50	13.50	0.3282
70	2084	5.23	58.83	14.30	0.4398
71	2061	4.55	60.67	11.75	0.3244
72	2091	7.56	59.80	13.55	0.6124
73	2081	4.18	57.01	12.98	0.3093
74	2085	7.45	58.27	13.61	0.5908
75	2097	4.49	64.89	12.33	0.3592
76	2008	7.47	56.07	14.46	0.6058
77	2086	7.16	56.91	13.81	0.5628
78	2050	4.96	59.31	12.41	0.3651
79	2001	4.33	56.94	13.19	0.3252
80	2013	7.33	51.57	14.19	0.5366
81	2044	7.85	51.47	15.04	0.6076
82	2062	7.8	56.71	14.30	0.6326
83	2048	4.7	45.92	14.68	0.3168
84	2070	4.5	46.29	13.11	0.2732
85	2056	4.6	53.10	12.56	0.3068
86	2038	7.65	39.48	16.16	0.4881
87	2094	7.46	57.24	15.76	0.6729
88	2060	7.54	53.72	14.54	0.5889
89	2037	4.9	53.49	13.39	0.3508

90	2083	4.32	49.56	15.76	0.3374
91	2026	9.06	59.32	13.92	0.7484
92	2052	9.89	56.30	13.25	0.7378
93	2075	9.22	61.25	13.52	0.7634
94	2014	9.06	57.29	12.97	0.6732
95	2066	9.71	62.44	11.85	0.7185
96	2034	8.6	48.99	11.66	0.4911
97	2024	9.27	60.31	14.72	0.8232
98	2046	10.01	58.43	12.78	0.7477
99	2021	8.5	58.40	13.75	0.6826
100	2003	9.83	56.17	14.31	0.7903

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 28/366

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2719	4.66	55.42	12.63	0.3262
2	2772	7.37	57.40	13.85	0.5859
3	2762	4.69	45.60	12.79	0.2734
4	2791	4.61	58.96	13.09	0.3559
5	2703	4.74	55.39	13.54	0.3555
6	2788	4.47	59.99	14.00	0.3755
7	2733	4.62	53.77	11.81	0.2934
8	2747	8.21	50.17	11.90	0.4901
9	2785	4.59	48.41	13.26	0.2947
10	2710	4.72	60.11	13.99	0.3970
11	2746	7.99	50.89	14.54	0.5913
12	2748	4.81	53.85	13.93	0.3607
13	2769	4.4	51.23	15.65	0.3529
14	2799	4.86	58.04	13.68	0.3859
15	2743	7.86	51.57	12.99	0.5266
16	2731	7.58	60.30	14.63	0.6686
17	2704	4.78	56.91	13.55	0.3685
18	2758	4.8	47.14	14.30	0.3235
19	2708	4.76	49.43	14.79	0.3480
20	2715	7.73	61.85	14.18	0.6779
21	2732	4.87	64.61	11.76	0.3701
22	2780	7.49	64.61	13.85	0.6704
23	2763	4.63	52.97	11.78	0.2889
24	2771	7.58	62.05	13.22	0.6216
25	2789	4.83	55.39	13.74	0.3676
26	2800	4.66	57.84	12.09	0.3257
27	2757	8.27	51.14	14.65	0.6194
28	2796	4.54	58.44	12.82	0.3400
29	2745	4.87	58.68	12.47	0.3565
30	2790	4.55	59.49	11.93	0.3231
31	2729	7.52	58.78	14.15	0.6257
32	2767	9.17	46.29	12.66	0.5374
33	2711	9.07	59.00	14.02	0.7501

34	2784	4.49	54.79	13.45	0.3309
35	2756	7.58	51.35	14.22	0.5533
36	2714	7.86	63.90	12.86	0.6461
37	2723	4.64	54.13	13.56	0.3406
38	2705	4.75	52.65	12.17	0.3045
39	2737	7.97	49.94	14.78	0.5882
40	2727	4.58	59.21	13.34	0.3618
41	2759	4.95	50.01	14.20	0.3514
42	2701	4.51	58.33	13.87	0.3649
43	2781	4.64	50.35	15.61	0.3647
44	2709	4.83	51.99	13.96	0.3507
45	2744	7.93	51.95	14.09	0.5805
46	2750	4.58	50.20	14.78	0.3398
47	2775	4.64	56.52	15.75	0.4130
48	2770	4.72	55.95	14.05	0.3710
49	2728	7.96	57.25	13.31	0.6066
50	2718	4.66	55.36	13.91	0.3588
51	2766	4.87	57.39	13.10	0.3662
52	2712	7.91	56.25	11.77	0.5236
53	2713	7.74	58.40	13.30	0.6014
54	2741	7.74	61.52	13.77	0.6556
55	2760	4.3	36.94	14.62	0.2322
56	2764	4.63	51.65	13.63	0.3260
57	2782	4.62	55.43	13.26	0.3396
58	2774	4.58	55.26	13.72	0.3472
59	2730	7.62	56.18	13.24	0.5669
60	2742	7.88	59.00	13.61	0.6328
61	2787	4.44	42.62	14.73	0.2788
62	2724	4.55	52.36	13.20	0.3144
63	2726	4.48	54.75	13.74	0.3369
64	2778	4.54	59.77	14.64	0.3972
65	2783	4.76	59.73	14.73	0.4189
66	2722	7.64	53.84	14.54	0.5982
67	2779	4.92	51.94	14.65	0.3744
68	2768	4.74	57.66	13.87	0.3792
69	2749	4.73	50.49	13.05	0.3117
70	2752	4.56	52.52	13.37	0.3201
71	2721	4.46	59.61	14.26	0.3791
72	2761	4.71	54.91	12.84	0.3321
73	2793	4.64	57.19	11.80	0.3132
74	2735	4.58	58.99	13.53	0.3655
75	2798	4.77	57.92	12.67	0.3501
76	2777	4.86	61.64	14.55	0.4359
77	2706	4.85	61.94	11.03	0.3313
78	2736	7.96	60.47	12.22	0.5882
79	2738	4.34	44.11	12.92	0.2474
80	2753	3.95	51.40	13.02	0.2643

81	2702	5.03	42.95	12.55	0.2711
82	2755	4.58	42.05	15.58	0.3000
83	2773	4.88	45.60	14.47	0.3221
84	2734	4.54	46.04	14.86	0.3105
85	2725	4.53	44.63	13.35	0.2700
86	2720	4.56	56.62	13.97	0.3607
87	2740	7.57	57.15	14.30	0.6185
88	2716	7.64	58.69	14.06	0.6303
89	2717	4.5	50.92	15.49	0.3550
90	2765	4.47	47.25	13.23	0.2794
91	2786	9.12	52.07	11.45	0.5436
92	2739	8.84	54.59	14.03	0.6771
93	2754	9.51	45.34	13.10	0.5649
94	2794	9.07	53.56	13.29	0.6458
95	2795	9.56	57.11	12.76	0.6969
96	2792	8.96	53.10	11.73	0.5582
97	2797	9.11	61.17	11.54	0.6432
98	2751	4.83	54.58	12.48	0.3289
99	2776	4.7	58.08	14.07	0.3840
100	2707	9.19	54.84	13.13	0.6617

Date: 02.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 15/152**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1416	7.61	46.12	16.54	0.5806
2	1474	8.21	55.92	15.92	0.7307
3	1482	8.13	59.90	15.53	0.7561
4	1401	4.53	39.80	15.28	0.2754
5	1465	4.8	54.02	14.99	0.3888
6	1429	4.57	54.23	15.91	0.3944
7	1473	8.06	56.02	14.21	0.6416
8	1409	7.48	46.48	16.29	0.5662
9	1478	7.93	55.77	14.60	0.6455
10	1420	4.87	46.85	16.33	0.3726
11	1418	4.66	53.22	13.75	0.3411
12	1483	7.79	62.89	12.35	0.6053
13	1422	3.77	60.25	12.83	0.2914
14	1461	4.07	49.42	11.66	0.2344
15	1498	4.92	57.57	15.60	0.4418
16	1467	7.72	55.32	12.13	0.5180
17	1453	4.65	59.95	13.18	0.3673
18	1444	4.55	52.59	11.50	0.2753
19	1430	4.81	61.75	13.00	0.3862
20	1472	5.06	60.92	13.74	0.4235
21	1493	5.29	64.92	12.17	0.4179
22	1462	7.51	49.87	11.61	0.4348
23	1413	9.02	55.83	12.95	0.6521
24	1405	8.91	55.22	11.23	0.5524
25	1469	9.35	59.88	14.01	0.7845
26	1500	9.85	61.91	13.89	0.8471
27	1445	7.72	63.27	11.77	0.5751
28	1471	4.96	62.12	14.18	0.4370
29	1442	7.65	61.76	12.32	0.5822
30	1470	4.93	63.38	13.32	0.4161
31	1432	9.22	53.65	14.80	0.7321
32	1492	8.01	67.06	14.09	0.7569
33	1459	4.52	51.53	11.92	0.2775
34	1454	7.76	63.97	11.49	0.5704
35	1424	4.54	56.85	12.91	0.3332
36	1456	4.62	38.70	12.89	0.2305
37	1443	4.61	55.49	11.70	0.2992
38	1450	7.76	63.67	13.46	0.6650
39	1408	4.54	59.02	10.69	0.2865
40	1419	4.58	57.08	14.07	0.3678
41	1441	4.72	60.29	13.29	0.3781
42	1477	8.14	64.77	14.28	0.7530

43	1463	7.53	49.84	13.32	0.5000
44	1488	8.02	61.81	13.93	0.6905
45	1447	4.62	63.88	13.04	0.3848
46	1414	4.59	55.07	13.78	0.3484
47	1460	8.51	48.92	13.25	0.5514
48	1464	4.44	55.96	14.08	0.3499
49	1404	7.75	41.29	12.76	0.4084
50	1491	7.95	57.13	13.06	0.5931
51	1496	7.79	51.83	13.22	0.5336
52	1415	4.7	46.52	13.65	0.2984
53	1448	4.81	56.65	12.52	0.3410
54	1458	7.34	45.27	12.92	0.4294
55	1485	7.93	59.79	12.69	0.6019
56	1403	8.36	47.02	13.59	0.5342
57	1468	4.84	50.50	13.72	0.3354
58	1431	4.46	53.30	14.15	0.3363
59	1487	8.12	60.54	12.52	0.6155
60	1427	3.94	59.82	13.37	0.3152
61	1411	4.47	51.21	13.14	0.3008
62	1406	3.74	43.56	14.19	0.2311
63	1481	7.3	56.30	14.09	0.5789
64	1484	5.21	58.25	12.39	0.3762
65	1412	3.87	52.79	15.46	0.3158
66	1497	11.08	55.97	13.29	0.8244
67	1446	9.18	52.70	14.38	0.6958
68	1451	9.04	61.05	13.14	0.7250
69	1434	4.74	49.76	14.53	0.3427
70	1489	7.98	56.26	13.86	0.6224
71	1417	4.52	60.69	12.77	0.3503
72	1479	5.04	65.63	13.91	0.4602
73	1475	7.97	63.49	15.14	0.7659
74	1480	5.01	60.34	13.64	0.4123
75	1421	7.45	57.85	12.93	0.5573
76	1466	7.69	52.68	13.02	0.5275
77	1449	7.67	57.10	13.99	0.6128
78	1495	7.92	60.49	16.33	0.7825
79	1433	7.61	54.60	11.87	0.4931
80	1435	4.71	57.36	12.34	0.3335
81	1407	7.56	40.98	12.18	0.3772
82	1428	9.05	54.89	14.36	0.7131
83	1455	7.5	41.70	13.84	0.4328
84	1490	5.36	51.23	14.48	0.3977
85	1438	4.63	49.98	15.03	0.3477
86	1425	7.63	56.31	14.12	0.6066
87	1452	4.6	53.55	13.58	0.3344
88	1486	5.34	57.92	14.59	0.4512
89	1410	4.76	52.17	14.11	0.3503

90	1476	8.12	60.05	13.31	0.6488
91	1436	7.9	49.42	13.40	0.5230
92	1440	7.58	53.70	12.05	0.4904
93	1494	7.85	62.02	14.70	0.7159
94	1457	6.64	31.87	12.65	0.2676
95	1423	3.82	56.22	13.96	0.2999
96	1499	5.8	64.46	13.39	0.5005
97	1426	4.53	57.25	13.66	0.3542
98	1439	7.81	55.33	12.58	0.5436
99	1402	7.57	38.05	13.93	0.4012
100	1437	4.72	60.49	13.74	0.3922

Date: 01.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 03/34**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	268	7.75	52.40	14.12	0.5735
2	267	4.68	50.11	16.24	0.3810
3	213	7.8	46.86	14.85	0.5429
4	276	4.47	47.10	15.61	0.3285
5	288	4.67	58.40	14.47	0.3946
6	286	4.53	46.36	14.73	0.3094
7	252	4.8	44.59	15.65	0.3350
8	221	4.79	51.40	14.71	0.3621
9	234	4.51	49.53	15.06	0.3364
10	237	4.69	57.95	14.77	0.4015
11	223	7.72	65.79	14.26	0.7241
12	283	4.7	64.42	11.61	0.3516
13	209	7.31	60.19	14.69	0.6462
14	257	4.65	59.12	13.19	0.3627
15	249	4.47	65.98	15.08	0.4448
16	292	4.6	69.59	12.93	0.4140
17	262	4.19	57.96	12.27	0.2979
18	215	7.85	63.57	13.87	0.6924
19	207	7.49	66.69	14.42	0.7205
20	201	7.74	62.85	12.39	0.6029
21	284	4.71	51.31	14.15	0.3419
22	217	4.84	56.73	13.33	0.3659
23	220	4.76	52.77	15.27	0.3837
24	251	4.44	62.70	13.03	0.3627
25	279	4.63	60.25	13.94	0.3889
26	261	4.67	48.06	15.42	0.3460
27	206	4.52	64.55	14.08	0.4109
28	269	4.71	52.93	11.28	0.2812
29	210	4.54	55.27	15.25	0.3827
30	243	7.65	57.67	14.32	0.6319
31	294	4.74	54.03	13.66	0.3498
32	219	7.99	53.72	15.36	0.6592
33	218	8.04	56.07	14.09	0.6352
34	245	7.63	58.45	14.80	0.6600
35	242	4.62	57.63	16.71	0.4449
36	238	7.73	54.84	15.96	0.6764
37	226	4.53	54.27	15.15	0.3724
38	231	4.66	55.14	16.29	0.4185
39	253	7.57	49.49	14.79	0.5541
40	250	7.57	56.66	14.37	0.6162
41	277	9.44	58.59	12.02	0.6646
42	233	9.23	60.28	15.13	0.8418

43	291	9.41	56.67	12.25	0.6531
44	254	9.59	57.23	12.51	0.6866
45	232	9.17	61.82	12.88	0.7299
46	202	9.14	61.25	14.87	0.8327
47	280	8.9	62.47	12.71	0.7067
48	266	9.07	57.76	12.59	0.6594
49	211	9.36	59.91	13.25	0.7432
50	299	9.45	57.89	13.08	0.7154
51	208	9.48	65.02	13.61	0.8390
52	293	7.88	56.23	12.36	0.5477
53	281	4.62	59.09	11.93	0.3257
54	244	4.7	61.38	14.71	0.4244
55	216	4.39	53.14	14.68	0.3424
56	259	7.67	58.16	11.52	0.5139
57	274	4.79	52.98	14.38	0.3650
58	212	4.7	58.05	13.83	0.3774
59	247	8.06	60.04	13.56	0.6561
60	225	3.81	57.97	14.32	0.3162
61	275	8.2	41.51	14.38	0.4895
62	273	7.74	49.91	15.49	0.5983
63	298	7.95	55.63	13.03	0.5764
64	230	8.88	50.83	15.40	0.6953
65	297	7.99	47.10	14.33	0.5393
66	271	9.61	57.39	14.55	0.8024
67	282	8.86	55.71	14.36	0.7088
68	236	8.84	51.93	15.87	0.7284
69	255	7.9	56.89	14.73	0.6620
70	222	8.97	56.02	15.39	0.7732
71	295	7.61	52.79	12.99	0.5220
72	240	4.54	56.09	14.05	0.3578
73	285	7.58	57.37	12.71	0.5526
74	256	7.44	50.48	14.08	0.5290
75	246	4.53	61.47	14.97	0.4168
76	260	4.69	52.00	13.88	0.3386
77	241	4.66	53.92	13.07	0.3285
78	270	7.58	51.57	13.28	0.5192
79	263	4.66	52.51	13.39	0.3276
80	289	4.85	56.66	13.36	0.3671
81	265	4.75	52.94	12.35	0.3106
82	204	7.75	63.52	13.00	0.6402
83	224	4.79	64.58	14.45	0.4469
84	300	7.84	58.22	11.80	0.5386
85	258	4.63	58.61	12.52	0.3398
86	227	4.81	63.00	13.08	0.3963
87	205	4.8	64.62	13.83	0.4291
88	203	4.65	59.66	14.08	0.3906
89	272	7.45	58.32	11.20	0.4865

90	228	4.45	60.05	14.84	0.3965
91	239	4.41	56.92	13.00	0.3263
92	296	4.81	60.58	13.01	0.3790
93	248	4.63	67.11	13.78	0.4283
94	235	4.57	57.50	13.32	0.3501
95	278	5.93	62.37	12.71	0.4702
96	287	7.56	63.99	11.30	0.5466
97	290	4.8	58.40	10.45	0.2928
98	264	4.63	56.45	12.51	0.3269
99	214	4.6	56.89	12.37	0.3238
100	229	7.66	63.00	13.06	0.6304

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 11/97

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1068	7.6	51.09	14.37	0.5578
2	1069	4.64	51.86	13.65	0.3285
3	1078	7.69	48.58	13.71	0.5122
4	1083	4.63	56.61	14.22	0.3727
5	1059	7.54	51.88	15.69	0.6138
6	1008	4.54	45.94	15.54	0.3242
7	1077	7.6	48.51	17.32	0.6384
8	1073	7.77	43.83	14.42	0.4911
9	1047	4.85	55.75	13.94	0.3768
10	1048	4.79	60.24	13.50	0.3894
11	1051	7.98	64.64	13.35	0.6887
12	1028	4.65	62.40	13.67	0.3966
13	1089	7.6	58.95	15.50	0.6946
14	1036	9.61	58.20	13.83	0.7736
15	1011	9.24	57.99	13.64	0.7309
16	1063	7.66	67.24	14.35	0.7392
17	1035	7.73	59.66	13.41	0.6184
18	1056	7.8	65.32	14.50	0.7387
19	1041	4.59	62.10	15.68	0.4471
20	1049	4.62	66.82	13.05	0.4029
21	1046	4.65	47.62	15.43	0.3418
22	1032	8.18	54.27	13.32	0.5914
23	1004	10.95	48.94	14.67	0.7862
24	1009	8.73	53.31	15.10	0.7028
25	1015	9.08	54.61	14.05	0.6964
26	1018	7.8	50.38	13.78	0.5413
27	1001	8.89	49.94	13.60	0.6036
28	1029	9.82	51.25	13.91	0.7002
29	1093	4.61	54.53	13.02	0.3273
30	1052	7.82	46.01	15.65	0.5630
31	1017	9.2	47.98	17.19	0.7590
32	1074	8.95	47.11	16.83	0.7097
33	1043	9.48	49.73	15.40	0.7262
34	1025	9.53	53.60	13.02	0.6652
35	1039	10	51.72	15.10	0.7810
36	1040	9.23	44.00	16.73	0.6793

37	1003	8.88	61.04	13.01	0.7051
38	1005	8.82	48.42	16.52	0.7056
39	1031	9.41	54.30	15.76	0.8055
40	1085	7.63	53.36	14.69	0.5982
41	1054	4.62	60.90	13.73	0.3862
42	1020	4.65	53.30	13.53	0.3353
43	1033	7.31	62.53	13.32	0.6089
44	1095	4.82	54.15	13.30	0.3470
45	1079	7.53	57.51	13.27	0.5745
46	1023	4.63	58.45	13.22	0.3579
47	1082	7.53	55.73	12.88	0.5407
48	1081	7.7	53.04	13.54	0.5529
49	1027	7.67	56.09	9.56	0.4111
50	1034	4.83	55.80	13.87	0.3738
51	1066	9.57	54.07	13.67	0.7072
52	1099	8.99	60.67	13.53	0.7381
53	1090	8.78	52.53	13.21	0.6093
54	1045	4.58	58.73	12.34	0.3321
55	1071	7.58	52.97	14.27	0.5730
56	1006	7.2	62.73	14.30	0.6458
57	1080	7.65	51.57	13.22	0.5217
58	1070	7.04	46.71	15.95	0.5245
59	1064	4.73	52.35	13.47	0.3335
60	1061	4.54	62.42	13.30	0.3768
61	1002	7.15	53.23	15.91	0.6056
62	1055	4.67	55.47	14.84	0.3843
63	1026	7.49	51.16	14.74	0.5647
64	1072	7.6	59.46	14.38	0.6498
65	1087	4.76	49.68	16.93	0.4003
66	1065	4.85	54.80	14.85	0.3948
67	1044	6.64	52.46	15.82	0.5511
68	1094	7.74	50.98	15.22	0.6006
69	1012	4.85	52.50	14.23	0.3623
70	1007	7.27	52.66	16.48	0.6310
71	1100	4.85	53.70	13.82	0.3599
72	1084	4.79	49.52	13.79	0.3272
73	1050	4.84	57.33	14.55	0.4037
74	1091	7.29	50.47	15.34	0.5642
75	1096	7.71	54.83	15.03	0.6353
76	1038	7.55	54.09	13.90	0.5678
77	1088	7.93	45.38	14.35	0.5162
78	1098	4.36	60.35	12.78	0.3362
79	1021	7.35	55.93	13.25	0.5446
80	1016	7.6	55.12	12.57	0.5267
81	1086	7.73	54.90	11.38	0.4831
82	1097	7.6	57.82	11.80	0.5183
83	1019	9.6	57.22	12.25	0.6730
84	1062	9.25	61.65	12.25	0.6984
85	1010	9.13	57.99	13.40	0.7094
86	1067	9.13	61.81	14.90	0.8409

87	1092	8.93	57.69	13.21	0.6805
88	1022	9.16	53.07	13.04	0.6339
89	1037	4.77	60.28	13.04	0.3749
90	1013	4.89	61.44	12.99	0.3902
91	1057	7.55	55.89	11.77	0.4968
92	1030	4.55	55.59	11.84	0.2994
93	1058	4.78	62.16	12.27	0.3647
94	1076	4.69	51.23	13.41	0.3222
95	1053	4.6	58.91	13.51	0.3662
96	1042	7.55	56.46	11.85	0.5051
97	1075	4.81	53.26	12.58	0.3223
98	1060	4.88	62.53	13.11	0.4002
99	1014	7.67	54.65	11.78	0.4939
100	1024	7.72	58.93	12.76	0.5805

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 12/98

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1174	4.78	43.88	14.02	0.2940
2	1104	8.02	46.25	14.66	0.5438
3	1158	5.03	49.18	11.81	0.2922
4	1101	7.68	54.28	14.70	0.6129
5	1133	4.33	46.81	15.17	0.3074
6	1192	7.63	50.22	13.80	0.5288
7	1178	8.04	49.13	13.82	0.5459
8	1103	7.41	47.40	14.28	0.5017
9	1145	7.72	53.08	13.90	0.5697
10	1143	9.85	44.36	15.87	0.6934
11	1125	7.25	54.53	14.03	0.5546
12	1165	4.6	60.42	14.38	0.3997
13	1153	7.95	66.14	12.84	0.6750
14	1130	4.51	58.28	15.87	0.4172
15	1187	5.11	58.72	12.69	0.3807
16	1132	4.65	64.33	13.97	0.4180
17	1167	7.63	65.46	13.50	0.6745
18	1193	7.97	61.34	14.93	0.7301
19	1159	4.76	56.72	13.59	0.3670
20	1107	7.53	63.51	14.88	0.7116
21	1161	4.79	56.85	13.90	0.3784
22	1197	8.23	49.33	13.58	0.5514
23	1117	8.91	41.07	15.34	0.5613
24	1105	8.94	50.56	15.01	0.6785
25	1169	7.43	48.87	13.63	0.4948
26	1126	4.46	48.44	15.38	0.3323
27	1131	5.06	50.09	15.29	0.3876
28	1190	8.01	52.74	14.41	0.6088
29	1134	4.18	58.51	14.68	0.3591
30	1136	4.46	57.05	15.30	0.3894
31	1151	4.84	51.51	14.60	0.3640
32	1149	4.93	50.18	13.75	0.3402
33	1166	9.34	61.60	14.17	0.8154

34	1147	9.49	55.32	14.39	0.7554
35	1146	10.07	50.09	13.70	0.6908
36	1164	10.11	49.23	15.07	0.7502
37	1168	4.89	57.08	13.79	0.3848
38	1181	4.58	55.00	16.98	0.4278
39	1109	4.47	48.83	16.69	0.3643
40	1170	4.92	58.32	15.00	0.4305
41	1188	4.53	64.88	12.39	0.3642
42	1102	9.21	59.29	13.53	0.7386
43	1195	9.65	53.30	10.77	0.5539
44	1183	4.81	59.77	12.35	0.3550
45	1182	7.89	47.76	13.57	0.5113
46	1141	9.79	50.44	12.89	0.6363
47	1200	7.7	60.08	12.03	0.5567
48	1127	4.38	64.79	13.58	0.3854
49	1176	4.82	58.88	13.23	0.3755
50	1171	4.72	54.87	12.76	0.3304
51	1179	8.13	56.37	12.13	0.5561
52	1137	4.73	61.57	12.36	0.3600
53	1119	7.53	47.38	13.78	0.4917
54	1160	4.71	55.31	13.52	0.3523
55	1118	7.52	50.37	14.57	0.5520
56	1121	7.03	50.83	14.38	0.5139
57	1139	4.49	60.15	15.73	0.4248
58	1196	7.46	55.95	12.03	0.5021
59	1123	4.69	55.49	13.32	0.3466
60	1184	4.87	57.95	12.70	0.3584
61	1194	9.65	47.32	14.14	0.6456
62	1112	7.33	41.08	17.67	0.5322
63	1154	9.22	50.20	14.60	0.6758
64	1173	7.65	43.88	16.70	0.5607
65	1120	4.54	45.68	16.42	0.3405
66	1113	7.37	46.91	16.29	0.5631
67	1199	4.85	53.30	13.30	0.3439
68	1180	9.51	49.26	14.72	0.6895
69	1116	9.36	43.87	17.23	0.7076
70	1114	4.33	41.47	16.73	0.3005
71	1186	7.44	51.61	13.95	0.5357
72	1148	5.04	47.86	12.01	0.2898
73	1191	7.94	56.26	13.72	0.6130
74	1156	4.79	50.95	14.17	0.3458
75	1115	4.64	46.77	15.59	0.3383
76	1108	7.49	45.02	15.88	0.5355
77	1162	4.89	56.40	12.11	0.3340
78	1185	4.41	52.46	13.95	0.3228
79	1150	7.78	53.03	13.58	0.5602
80	1157	4.85	49.57	14.59	0.3507
81	1128	7.63	48.85	12.16	0.4532
82	1172	5.24	58.57	10.77	0.3306
83	1177	8.17	54.85	12.82	0.5744

84	1124	4.17	46.42	13.49	0.2610
85	1144	7.59	51.93	9.30	0.3666
86	1163	4.81	55.52	11.26	0.3006
87	1135	7.43	59.64	14.24	0.6308
88	1140	8.79	50.83	13.10	0.5854
89	1106	3.9	57.99	14.92	0.3374
90	1198	4.82	57.80	13.51	0.3764
91	1152	9.78	52.06	11.68	0.5946
92	1111	9.3	46.67	13.63	0.5915
93	1189	4.96	52.59	13.01	0.3393
94	1175	5.04	56.82	11.18	0.3200
95	1122	7.57	53.89	10.80	0.4406
96	1138	7.94	66.16	13.04	0.6852
97	1129	7.85	58.54	12.47	0.5731
98	1155	4.57	50.84	12.67	0.2943
99	1110	7.41	37.71	13.71	0.3831
100	1142	4.61	49.64	13.13	0.3006

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 26/364

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2574	7.51	51.27	15.29	0.5888
2	2547	4.44	52.72	14.26	0.3339
3	2551	4.37	53.38	15.49	0.3614
4	2591	8.08	42.56	14.22	0.4888
5	2575	4.82	47.44	14.06	0.3215
6	2589	4.71	38.67	14.17	0.2581
7	2515	4.5	48.25	13.47	0.2925
8	2516	7.43	42.47	14.36	0.4532
9	2581	7.96	47.63	14.21	0.5389
10	2562	4.73	57.65	13.18	0.3595
11	2521	4.4	63.39	12.78	0.3564
12	2594	4.96	58.66	13.62	0.3963
13	2576	8	61.55	13.10	0.6448
14	2511	4.36	67.48	14.80	0.4356
15	2592	4.78	61.81	14.33	0.4235
16	2571	4.48	68.35	13.15	0.4028
17	2520	4.47	60.98	15.09	0.4112
18	2572	7.44	58.67	14.44	0.6302
19	2546	4.65	62.74	14.15	0.4129
20	2599	4.75	57.07	13.00	0.3525
21	2579	4.82	55.69	12.68	0.3403
22	2526	4.79	59.27	14.39	0.4086
23	2534	7.62	62.15	15.14	0.7170
24	2530	7.43	58.28	14.48	0.6271
25	2556	4.54	60.24	12.33	0.3373
26	2566	4.41	60.92	14.51	0.3898
27	2536	7.68	53.00	15.36	0.6252
28	2582	5.01	54.77	13.18	0.3617
29	2598	4.94	50.75	14.19	0.3557
30	2535	7.49	63.89	15.54	0.7438

31	2517	7.8	62.06	12.81	0.6201
32	2548	7.51	51.51	12.97	0.5017
33	2563	8.51	53.41	14.15	0.6434
34	2533	7.21	51.37	16.00	0.5927
35	2503	7.88	49.34	15.63	0.6075
36	2573	7.8	59.65	14.20	0.6607
37	2539	7.75	51.81	15.06	0.6045
38	2532	7.42	57.24	15.39	0.6537
39	2512	9.09	53.91	14.65	0.7181
40	2550	9.07	45.74	16.55	0.6866
41	2540	4.44	60.17	14.69	0.3925
42	2525	4.58	56.91	12.72	0.3316
43	2524	7.73	62.55	13.45	0.6501
44	2504	4.78	64.53	13.89	0.4283
45	2545	5.12	60.16	13.58	0.4183
46	2557	4.35	62.73	12.55	0.3423
47	2577	4.68	61.11	10.65	0.3047
48	2568	4.57	63.53	14.01	0.4067
49	2587	7.64	57.40	11.24	0.4928
50	2519	4.3	68.12	13.62	0.3990
51	2538	4.35	61.51	12.92	0.3458
52	2560	7.55	56.28	12.42	0.5277
53	2578	4.96	58.52	13.40	0.3889
54	2600	5.01	52.68	12.21	0.3221
55	2564	4.47	65.07	12.74	0.3706
56	2505	4.71	60.93	13.54	0.3886
57	2555	4.81	64.93	13.34	0.4165
58	2590	7.55	53.58	12.21	0.4938
59	2542	4.64	60.81	12.65	0.3568
60	2510	7.56	55.32	14.44	0.6040
61	2523	4.37	47.31	15.37	0.3177
62	2544	4.58	50.34	14.62	0.3371
63	2502	7.53	51.75	15.30	0.5964
64	2565	4.53	57.54	14.69	0.3828
65	2513	7.67	56.35	13.63	0.5891
66	2554	3.85	56.32	15.96	0.3461
67	2558	7.61	56.66	12.85	0.5540
68	2543	4.51	51.62	15.42	0.3590
69	2583	4.95	53.54	13.17	0.3490
70	2595	4.93	52.87	14.17	0.3693
71	2584	4.81	54.98	13.11	0.3468
72	2552	4.4	62.12	14.04	0.3837
73	2541	4.48	56.35	14.16	0.3575
74	2506	4.46	58.73	14.88	0.3898
75	2509	4.75	60.87	13.85	0.4004
76	2597	4.85	46.50	13.51	0.3046
77	2537	7.4	54.18	14.54	0.5831
78	2531	7.37	58.66	15.87	0.6861
79	2553	7.9	54.84	14.57	0.6312
80	2580	4.73	47.90	13.80	0.3127

81	2514	7.52	67.05	13.87	0.6994
82	2559	7.98	53.38	13.32	0.5674
83	2593	4.66	54.92	12.20	0.3122
84	2585	7.92	59.61	13.84	0.6534
85	2507	4.31	61.59	13.31	0.3534
86	2586	8.18	54.86	13.20	0.5922
87	2518	4.67	60.77	12.67	0.3596
88	2570	4.43	56.08	13.00	0.3229
89	2567	7.45	63.16	14.65	0.6891
90	2561	4.35	64.33	14.08	0.3941
91	2549	4.67	62.00	13.69	0.3965
92	2508	4.52	55.70	12.24	0.3083
93	2522	7.53	63.10	13.82	0.6566
94	2528	4.56	58.85	12.39	0.3324
95	2501	4.49	63.35	14.13	0.4019
96	2596	7.79	54.83	11.51	0.4915
97	2569	4.47	56.09	12.69	0.3183
98	2527	7.37	64.63	12.24	0.5830
99	2588	4.84	56.61	11.84	0.3243
100	2529	4.17	57.19	12.97	0.3094

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 38/493

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3786	3.57	50.82	13.11	0.2378
2	3759	2.56	45.58	13.95	0.1628
3	3742	4.34	62.97	11.07	0.3025
4	3708	7.45	69.20	13.58	0.7003
5	3788	7.68	66.79	11.71	0.6006
6	3790	7.77	62.22	10.83	0.5237
7	3797	8.21	56.23	11.68	0.5394
8	3727	4.37	38.34	13.54	0.2268
9	3719	6.72	60.33	12.76	0.5174
10	3755	3.4	51.47	11.44	0.2003
11	3718	4.4	41.01	16.68	0.3010
12	3720	8.32	51.27	16.54	0.7055
13	3715	6.74	44.84	15.41	0.4657
14	3740	4.52	61.73	12.75	0.3557
15	3754	7.11	46.58	14.64	0.4849
16	3702	8.74	55.64	14.50	0.7053
17	3770	4.26	57.67	15.52	0.3813
18	3783	8.87	53.89	14.49	0.6927
19	3731	4.5	50.90	15.23	0.3488
20	3734	4.4	47.77	16.87	0.3546
21	3705	7.41	59.58	13.71	0.6054
22	3780	9.05	54.46	14.95	0.7367
23	3746	7.96	62.16	12.87	0.6368
24	3711	7.3	58.93	13.58	0.5840
25	3761	8.15	53.39	15.92	0.6927
26	3769	6.68	57.00	14.19	0.5404
27	3730	8.86	57.63	15.36	0.7841

28	3729	9	52.59	16.12	0.7632
29	3791	9.19	50.17	16.28	0.7508
30	3714	6.33	53.94	16.67	0.5691
31	3721	8.07	51.19	15.45	0.6383
32	3789	7.22	54.92	14.79	0.5863
33	3724	8.08	61.49	15.37	0.7636
34	3707	4.4	61.58	12.73	0.3450
35	3709	7.25	62.73	13.09	0.5952
36	3756	7.38	40.16	17.11	0.5070
37	3745	9.03	60.59	12.20	0.6673
38	3792	7.42	56.87	14.05	0.5929
39	3793	7.46	58.68	14.40	0.6304
40	3751	7.31	66.54	12.82	0.6235
41	3774	7.26	48.21	13.75	0.4813
42	3749	4.7	61.99	10.84	0.3158
43	3722	4.27	58.37	13.74	0.3425
44	3713	4.13	49.39	13.87	0.2829
45	3796	7.46	61.17	10.66	0.4864
46	3744	7.47	67.48	11.80	0.5946
47	3735	7.61	67.44	11.09	0.5692
48	3757	6.54	52.76	12.17	0.4199
49	3728	8.35	54.24	12.63	0.5720
50	3795	8.96	62.30	11.16	0.6227
51	3706	8.32	58.84	11.61	0.5683
52	3782	8.33	49.33	14.76	0.6064
53	3787	4	51.44	14.23	0.2928
54	3741	8.81	59.26	14.58	0.7612
55	3710	7.59	54.90	13.81	0.5753
56	3736	7.33	59.21	13.70	0.5945
57	3764	6.63	54.67	13.21	0.4787
58	3701	7.46	62.23	14.29	0.6632
59	3794	7.39	59.05	14.82	0.6466
60	3703	6.75	62.36	15.49	0.6520
61	3767	4.23	49.55	14.77	0.3096
62	3784	7.54	46.79	13.74	0.4848
63	3800	7.65	53.40	15.00	0.6128
64	3765	6.77	56.26	16.32	0.6215
65	3771	7.04	59.31	13.99	0.5843
66	3743	4.52	56.96	14.68	0.3779
67	3778	7.36	47.90	14.63	0.5159
68	3781	8.65	52.27	13.26	0.5994
69	3753	7.18	41.71	15.58	0.4667
70	3726	8.6	42.38	14.35	0.5229
71	3733	7.38	52.14	14.40	0.5542
72	3766	7.16	63.37	14.90	0.6759
73	3747	4.52	66.78	11.89	0.3589
74	3739	6.98	67.43	11.85	0.5577
75	3732	7.54	67.57	11.96	0.6092
76	3760	6.91	60.84	13.35	0.5611
77	3775	8.88	55.50	12.72	0.6269

78	3748	4.45	69.48	11.15	0.3449
79	3762	3.11	53.53	15.36	0.2556
80	3768	7.44	64.25	14.07	0.6726
81	3750	4.46	69.06	10.69	0.3291
82	3752	7.28	71.53	11.72	0.6101
83	3758	7.24	53.42	12.43	0.4807
84	3777	9.13	58.31	12.28	0.6537
85	3712	7.23	64.02	13.11	0.6066
86	3779	7.73	53.51	12.17	0.5032
87	3738	7.65	64.05	11.69	0.5730
88	3785	4.41	57.62	14.27	0.3625
89	3704	7.22	60.39	11.74	0.5119
90	3723	8.33	55.72	13.85	0.6431
91	3799	4.03	53.96	11.38	0.2474
92	3798	9.09	59.99	13.10	0.7145
93	3717	8.09	61.25	14.66	0.7265
94	3763	3.33	53.56	13.29	0.2371
95	3725	8.21	69.50	13.08	0.7463
96	3716	8.37	61.50	14.37	0.7399
97	3772	5	50.08	15.16	0.3795
98	3776	4.18	56.81	10.32	0.2449
99	3773	6.62	46.13	10.73	0.3277
100	3737	7.77	69.19	12.85	0.6908

Date: 31.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 04/35**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	334	9.05	48.68	14.79	0.6516
2	312	7.67	54.53	15.77	0.6596
3	308	7.65	57.44	14.68	0.6449
4	350	7.32	51.55	15.60	0.5885
5	313	7.96	53.84	15.53	0.6655
6	374	8.08	46.99	14.75	0.5599
7	384	8.14	57.04	13.78	0.6398
8	355	7.97	48.80	15.94	0.6201
9	333	7.52	62.46	14.68	0.6896
10	339	7.7	52.65	14.17	0.5744
11	301	7.89	59.88	11.61	0.5484
12	344	8.08	62.85	12.92	0.6561
13	381	4.81	53.66	12.17	0.3141
14	395	4.88	55.38	12.31	0.3328
15	396	8.39	58.39	12.01	0.5881
16	307	7.83	59.73	12.84	0.6006
17	326	4.81	60.59	12.18	0.3550
18	330	7.54	66.29	11.69	0.5843
19	386	5.03	57.99	14.81	0.4321
20	327	7.55	58.66	11.15	0.4938
21	332	9.41	60.35	11.42	0.6483
22	311	9.21	57.07	11.14	0.5858
23	329	9.5	69.47	10.80	0.7125
24	325	7.86	68.47	12.20	0.6563
25	391	9.96	59.57	13.97	0.8287
26	343	9.41	56.54	12.91	0.6869
27	361	8.11	64.38	13.53	0.7064
28	341	7.91	59.64	11.90	0.5616
29	357	9.67	63.00	13.51	0.8229
30	398	9.55	66.37	13.44	0.8519
31	340	8.23	58.42	12.44	0.5983
32	399	9.6	60.82	12.18	0.7114
33	328	9.24	61.12	11.45	0.6468
34	345	7.73	51.57	10.06	0.4012
35	306	7.69	62.13	12.28	0.5867
36	367	9.68	59.16	12.54	0.7183
37	379	9.69	53.26	10.25	0.5291
38	359	9.34	58.36	12.32	0.6715
39	394	10.57	66.67	12.78	0.9006
40	338	9.49	56.30	10.91	0.5827
41	373	7.95	57.51	12.52	0.5724
42	365	8.97	63.01	12.55	0.7095

43	318	4.59	58.16	12.98	0.3465
44	358	7.97	50.81	11.32	0.4583
45	314	7.99	60.74	14.03	0.6807
46	317	9.22	58.28	11.72	0.6297
47	370	7.88	59.33	12.86	0.6012
48	387	9.84	61.92	11.60	0.7065
49	382	4.84	64.48	9.85	0.3073
50	346	7.62	56.95	9.68	0.4199
51	304	7.64	59.81	11.30	0.5165
52	390	9.94	61.30	13.56	0.8260
53	320	7.79	57.66	13.09	0.5881
54	397	5.36	63.71	11.08	0.3784
55	360	7.85	55.39	12.48	0.5424
56	400	7.46	60.11	13.04	0.5849
57	371	9.03	57.54	11.64	0.6050
58	354	9.03	59.04	10.13	0.5400
59	337	9.56	54.07	11.04	0.5707
60	392	4.83	60.73	12.33	0.3618
61	385	9.45	52.16	14.46	0.7125
62	378	9.14	54.94	12.58	0.6316
63	356	9.68	55.48	13.37	0.7183
64	349	9.51	53.49	14.54	0.7399
65	316	9.21	55.37	14.43	0.7359
66	351	8.99	58.84	14.90	0.7884
67	315	9.01	53.73	15.11	0.7316
68	319	9.64	53.06	14.85	0.7596
69	302	9.44	50.56	15.19	0.7250
70	393	9.56	61.26	12.29	0.7199
71	348	7.71	53.50	15.08	0.6222
72	389	5.02	58.63	13.30	0.3916
73	331	4.58	62.72	13.74	0.3948
74	369	7.62	55.84	14.63	0.6226
75	347	7.84	53.79	15.17	0.6397
76	377	7.53	59.94	13.21	0.5964
77	362	7.49	57.86	13.38	0.5797
78	323	7.7	58.17	13.94	0.6245
79	305	7.99	59.65	13.29	0.6336
80	309	7.54	58.27	14.54	0.6386
81	368	9.33	64.63	12.94	0.7800
82	375	9.74	55.30	14.43	0.7773
83	366	9.47	54.29	13.35	0.6866
84	363	9.49	62.22	12.42	0.7336
85	342	9.12	59.67	12.72	0.6922
86	376	9.21	49.80	15.34	0.7036
87	303	9.38	57.03	13.33	0.7129
88	353	9.42	55.31	12.31	0.6415
89	321	9.44	57.12	14.11	0.7609

90	310	7.82	60.48	12.63	0.5974
91	336	7.56	61.85	14.57	0.6812
92	322	7.97	66.21	12.78	0.6743
93	380	7.78	49.02	12.14	0.4629
94	335	4.72	59.51	13.02	0.3658
95	372	7.75	59.22	11.35	0.5208
96	324	7.7	63.41	11.23	0.5482
97	388	4.73	59.06	11.99	0.3349
98	364	7.91	59.00	13.93	0.6502
99	352	7.28	47.87	13.58	0.4732
100	383	4.98	57.00	13.47	0.3825

Date: 30.08.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 22/360**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2101	7.75	61.89	13.73	0.6587
2	2105	4.47	57.59	14.33	0.3688
3	2159	4.33	52.78	13.32	0.3044
4	2152	7.24	51.15	13.04	0.4829
5	2149	4.31	47.11	12.95	0.2629
6	2183	4.77	57.79	14.07	0.3878
7	2143	4.27	53.57	10.55	0.2413
8	2120	4.53	46.89	13.93	0.2958
9	2162	4.31	57.12	12.38	0.3047
10	2151	4.16	47.37	13.60	0.2679
11	2176	7.53	49.11	14.23	0.5263
12	2197	4.86	64.12	13.94	0.4345
13	2163	7.58	48.51	13.69	0.5033
14	2165	4.54	52.34	14.20	0.3373
15	2102	4.48	59.83	15.28	0.4095
16	2157	7.37	51.03	13.48	0.5071
17	2154	7.6	51.12	10.90	0.4233
18	2185	7.44	57.81	13.91	0.5982
19	2129	7.52	50.09	14.09	0.5309
20	2112	4.69	42.85	12.77	0.2565
21	2147	4.39	45.14	11.65	0.2309
22	2182	4.48	54.44	11.90	0.2903
23	2134	3.86	61.79	12.22	0.2914
24	2188	4.6	50.86	13.61	0.3183
25	2114	4.56	49.98	10.88	0.2481
26	2135	4.02	39.18	13.32	0.2098
27	2118	4.48	44.20	14.12	0.2796
28	2107	4.51	58.10	12.53	0.3283
29	2156	4.33	56.00	12.61	0.3057
30	2179	4.64	56.78	13.38	0.3526
31	2123	4.41	49.33	14.43	0.3140
32	2174	7.07	51.80	14.52	0.5317
33	2132	8.81	55.13	14.20	0.6898
34	2140	5.21	36.28	16.62	0.3142
35	2125	4.47	50.37	15.39	0.3464
36	2186	4.69	56.65	12.87	0.3419
37	2113	4.57	40.40	15.67	0.2893
38	2109	4.53	61.01	12.80	0.3538
39	2110	4.42	63.68	14.18	0.3991
40	2153	7	46.65	14.66	0.4788
41	2171	4.52	53.93	14.65	0.3571
42	2111	4.47	43.72	15.03	0.2937

43	2145	4.21	47.14	16.14	0.3204
44	2198	7.85	60.44	14.06	0.6672
45	2184	4.63	55.47	14.67	0.3769
46	2142	4.28	41.30	15.50	0.2739
47	2196	7.95	58.34	14.26	0.6614
48	2177	4.41	53.23	13.41	0.3149
49	2144	4.89	42.20	15.26	0.3149
50	2150	4.34	48.31	14.16	0.2969
51	2170	4.5	54.51	14.07	0.3451
52	2104	4.52	61.34	14.46	0.4009
53	2191	4.61	49.97	13.39	0.3084
54	2148	4.7	44.12	13.74	0.2848
55	2138	4.21	44.03	15.31	0.2838
56	2190	4.89	56.99	13.20	0.3677
57	2139	4.45	42.51	14.77	0.2795
58	2187	4.69	46.91	12.51	0.2753
59	2130	7.65	52.06	14.41	0.5738
60	2136	4.1	34.02	17.11	0.2386
61	2119	4.62	47.79	13.85	0.3058
62	2169	7.42	52.06	13.66	0.5276
63	2137	7.18	37.48	12.38	0.3332
64	2200	7.7	57.58	13.34	0.5914
65	2108	7.17	59.77	13.18	0.5650
66	2192	4.64	58.55	13.12	0.3564
67	2199	8.06	60.48	13.76	0.6706
68	2146	4.4	47.89	12.59	0.2653
69	2166	4.31	44.96	13.61	0.2638
70	2158	7.57	47.53	11.02	0.3967
71	2194	4.95	60.03	13.19	0.3920
72	2141	7.01	46.63	13.12	0.4290
73	2124	4.3	55.93	12.02	0.2890
74	2178	4.52	55.96	12.69	0.3209
75	2175	9.1	55.34	13.41	0.6752
76	2126	4.46	49.37	13.57	0.2988
77	2168	4.55	49.27	11.97	0.2685
78	2195	4.7	55.50	12.67	0.3304
79	2172	4.53	53.70	11.79	0.2867
80	2164	4.64	47.37	14.00	0.3076
81	2155	4.38	47.34	12.38	0.2567
82	2160	4.28	55.03	13.39	0.3154
83	2127	4.53	52.90	13.50	0.3234
84	2193	8.03	58.34	12.50	0.5854
85	2128	4.57	58.45	11.38	0.3039
86	2121	4.49	50.05	10.69	0.2402
87	2115	7.36	46.70	12.81	0.4401
88	2116	4.23	44.45	13.34	0.2508
89	2117	7.2	50.63	13.04	0.4752

90	2161	4.48	59.05	12.94	0.3423
91	2103	4.91	56.87	14.65	0.4090
92	2189	4.53	56.94	12.61	0.3253
93	2180	4.26	54.75	15.21	0.3549
94	2131	4.57	51.08	13.10	0.3057
95	2181	4.99	46.29	14.99	0.3463
96	2133	7.37	52.82	14.39	0.5601
97	2173	4.52	51.43	15.85	0.3684
98	2122	7.43	45.62	15.80	0.5357
99	2167	7.41	43.04	13.71	0.4372
100	2106	4.83	56.74	13.78	0.3777

Date: 27.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 16/153**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1564	4.95	60.32	13.36	0.3990
2	1573	4.13	64.42	14.22	0.3783
3	1565	7.75	54.56	14.79	0.6254
4	1528	8.05	55.37	14.05	0.6263
5	1561	4.84	58.68	12.95	0.3678
6	1574	8.26	52.61	13.06	0.5675
7	1593	5.15	58.61	13.97	0.4218
8	1537	8.04	57.89	13.87	0.6456
9	1587	7.73	53.09	14.01	0.5751
10	1590	8.11	62.33	14.28	0.7218
11	1513	4.84	58.90	13.75	0.3920
12	1518	5.14	65.18	13.65	0.4575
13	1509	7.82	63.50	13.53	0.6717
14	1508	7.71	68.43	12.66	0.6677
15	1503	4.98	61.27	13.12	0.4004
16	1547	5.27	58.69	12.98	0.4016
17	1529	7.82	62.21	13.57	0.6600
18	1600	5.17	62.59	12.91	0.4177
19	1548	5	64.11	13.45	0.4310
20	1507	5.4	61.29	12.01	0.3974
21	1597	8.23	61.49	14.07	0.7119
22	1595	4.89	56.75	12.39	0.3438
23	1506	7.78	62.22	14.03	0.6792
24	1514	5.02	59.94	12.86	0.3870
25	1544	8.65	59.78	12.86	0.6652
26	1502	9.44	58.71	15.21	0.8430
27	1563	10.1	65.88	14.47	0.9625
28	1545	7.84	55.34	15.20	0.6593
29	1567	8.2	59.31	14.82	0.7208
30	1541	7.64	55.76	14.38	0.6127
31	1589	4.98	52.51	15.77	0.4123
32	1570	5.02	60.08	13.13	0.3961
33	1559	8.15	56.30	14.64	0.6716
34	1588	5.04	57.79	14.76	0.4299
35	1579	4.94	58.70	14.75	0.4278
36	1523	4.87	48.91	15.58	0.3711
37	1598	5.03	57.23	15.36	0.4421
38	1549	5.05	53.82	14.98	0.4070
39	1577	4.83	56.97	14.81	0.4077
40	1533	5.07	53.68	15.39	0.4188
41	1524	7.93	61.05	14.09	0.6820
42	1534	5	57.04	14.46	0.4125

43	1520	4.89	57.49	15.31	0.4303
44	1582	5.06	59.31	14.35	0.4306
45	1572	3.99	66.18	12.81	0.3384
46	1569	7.77	55.30	12.31	0.5291
47	1540	5.07	58.32	14.49	0.4284
48	1531	5.32	59.98	12.82	0.4091
49	1586	5.29	55.68	14.08	0.4147
50	1581	4.98	63.57	12.95	0.4099
51	1556	8.08	57.82	12.63	0.5898
52	1546	5.08	66.74	13.65	0.4628
53	1550	4.85	59.41	13.08	0.3768
54	1566	5.27	58.93	13.32	0.4137
55	1583	4.96	63.88	13.07	0.4142
56	1526	5.16	56.91	12.76	0.3746
57	1599	4.02	55.61	14.01	0.3132
58	1557	8.11	59.68	13.64	0.6602
59	1591	4.77	63.12	13.07	0.3935
60	1521	4.8	49.41	13.78	0.3269
61	1558	8.14	60.05	13.19	0.6447
62	1535	4.03	60.83	12.63	0.3095
63	1532	4.97	62.52	13.10	0.4070
64	1594	8.25	55.27	13.12	0.5981
65	1530	8.22	59.41	13.79	0.6732
66	1522	4.83	58.14	13.64	0.3830
67	1576	5.01	63.91	14.02	0.4489
68	1542	5.1	59.70	13.89	0.4228
69	1525	4.99	61.83	13.34	0.4117
70	1539	7.85	60.58	13.44	0.6390
71	1596	4.96	63.36	13.27	0.4171
72	1571	7.84	64.04	14.19	0.7127
73	1560	4.84	65.35	13.76	0.4351
74	1519	5.03	64.07	13.53	0.4361
75	1536	4.79	66.30	12.87	0.4086
76	1505	8.1	59.41	14.80	0.7120
77	1568	5.1	55.23	14.68	0.4136
78	1516	5.12	57.33	14.51	0.4260
79	1517	5.25	65.95	14.10	0.4882
80	1527	4.11	50.06	14.62	0.3009
81	1592	8.42	53.42	13.65	0.6138
82	1575	5.07	57.92	14.73	0.4325
83	1543	5.26	59.02	14.10	0.4376
84	1553	7.96	56.17	13.73	0.6137
85	1511	8.3	57.20	14.09	0.6690
86	1580	4.87	57.84	14.18	0.3993
87	1578	4.87	56.79	13.72	0.3794
88	1552	8.07	57.07	14.14	0.6512
89	1584	4.85	58.12	13.42	0.3783

90	1555	4.13	53.21	15.47	0.3399
91	1512	10.5	64.83	13.79	0.9387
92	1554	10.04	65.95	14.19	0.9397
93	1538	9.16	66.10	13.83	0.8372
94	1501	9.55	57.24	13.52	0.7392
95	1515	9.71	68.85	13.62	0.9108
96	1562	10.04	69.53	13.46	0.9397
97	1551	9.25	68.26	13.67	0.8630
98	1504	9.64	66.37	14.57	0.9322
99	1510	9.18	64.97	14.82	0.8840
100	1585	11.18	59.10	12.49	0.8251

Date: 25.08.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 13/150**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1223	7.88	57.68	14.41	0.6548
2	1286	7.98	55.08	14.34	0.6304
3	1218	7.42	58.38	13.87	0.6010
4	1290	4.77	54.58	15.81	0.4117
5	1288	7.5	65.14	13.83	0.6757
6	1202	5.24	59.77	12.06	0.3778
7	1260	4.76	56.46	14.45	0.3884
8	1294	4.53	53.23	15.09	0.3638
9	1265	3.99	60.14	13.34	0.3200
10	1261	4.51	56.48	12.57	0.3202
11	1267	8.11	55.85	13.41	0.6074
12	1255	8.04	55.75	15.89	0.7123
13	1277	7.53	65.29	14.98	0.7364
14	1239	9.48	63.74	13.52	0.8172
15	1273	9.67	60.26	12.25	0.7136
16	1245	7.76	59.33	11.39	0.5246
17	1224	4.61	58.54	14.55	0.3928
18	1222	4.82	57.41	13.62	0.3769
19	1262	4.61	55.11	15.26	0.3877
20	1232	7.51	49.08	13.96	0.5144
21	1251	9.54	46.52	15.09	0.6697
22	1235	4.76	47.83	17.37	0.3956
23	1249	4.6	43.66	17.06	0.3427
24	1215	4.77	54.39	14.47	0.3754
25	1226	7.73	57.38	15.44	0.6849
26	1210	4.61	55.13	13.19	0.3351
27	1269	4.8	46.49	13.55	0.3024
28	1241	7.76	49.04	13.40	0.5098
29	1225	7.24	51.88	11.51	0.4322
30	1229	3.94	50.20	13.75	0.2719
31	1233	4.62	58.33	13.82	0.3724
32	1201	7.58	56.44	12.33	0.5276
33	1240	7.9	62.89	13.21	0.6565
34	1217	7.9	62.19	13.46	0.6612
35	1271	4.86	60.27	12.15	0.3558
36	1259	4.69	52.74	13.77	0.3405
37	1204	7.35	58.76	13.78	0.5953
38	1252	7.93	62.93	13.81	0.6891
39	1299	4.65	59.86	15.17	0.4222
40	1216	4.57	56.01	15.12	0.3871
41	1243	4.63	60.55	14.32	0.4014
42	1291	4.78	56.03	14.22	0.3810

43	1237	7.65	52.92	13.00	0.5263
44	1242	7.88	63.24	14.14	0.7045
45	1282	4.77	58.98	13.60	0.3826
46	1297	4.6	60.41	14.40	0.4002
47	1284	4.77	62.13	12.17	0.3606
48	1213	4.95	54.07	14.65	0.3920
49	1214	7.82	65.01	13.63	0.6929
50	1270	4.66	57.38	15.20	0.4064
51	1283	9.52	55.72	13.12	0.6959
52	1274	9.63	54.05	14.26	0.7425
53	1258	7.71	50.28	15.37	0.5960
54	1212	9.52	48.61	14.63	0.6769
55	1279	7.61	53.34	15.50	0.6293
56	1221	4.5	57.55	13.87	0.3591
57	1295	7.62	48.10	13.99	0.5128
58	1296	4.95	50.14	14.98	0.3717
59	1206	7.75	54.04	14.49	0.6068
60	1248	8.1	51.81	13.67	0.5735
61	1230	3.91	57.23	15.22	0.3406
62	1289	4.48	58.04	12.70	0.3302
63	1220	7.89	49.22	14.18	0.5507
64	1231	4.8	42.33	15.80	0.3211
65	1207	7.58	52.82	16.28	0.6519
66	1272	4.46	54.85	13.42	0.3283
67	1287	3.88	59.80	13.66	0.3170
68	1246	7.88	54.64	12.83	0.5524
69	1227	3.86	46.13	13.64	0.2428
70	1300	4.53	44.53	13.74	0.2772
71	1208	7.81	48.10	13.62	0.5116
72	1263	4.82	51.49	12.95	0.3215
73	1285	4.76	57.08	15.19	0.4127
74	1278	4.72	53.83	15.01	0.3814
75	1238	4.67	48.98	13.60	0.3110
76	1276	7.96	55.59	14.12	0.6249
77	1264	7.49	59.21	13.92	0.6172
78	1281	5.37	58.19	14.64	0.4575
79	1268	9.41	61.95	12.75	0.7434
80	1266	9.59	63.19	14.13	0.8564
81	1250	9.65	58.35	13.11	0.7382
82	1257	9.67	58.98	13.04	0.7436
83	1244	9.28	54.20	12.49	0.6283
84	1203	8.66	51.15	13.35	0.5915
85	1211	8.38	55.31	15.46	0.7165
86	1234	2.47	47.25	15.05	0.1756
87	1298	4.81	47.60	16.62	0.3805
88	1219	4.13	56.33	15.82	0.3680
89	1256	4.8	54.52	14.93	0.3907

90	1205	7.82	53.84	14.00	0.5896
91	1275	4.79	56.87	13.68	0.3727
92	1253	4.67	51.76	15.13	0.3657
93	1280	4.67	54.23	14.33	0.3629
94	1228	4.56	46.82	13.80	0.2946
95	1293	4.62	51.16	14.46	0.3419
96	1247	4.7	47.75	15.08	0.3384
97	1292	7.37	54.43	14.50	0.5815
98	1254	4.78	51.38	13.64	0.3351
99	1236	4.86	42.58	14.37	0.2974
100	1209	4.36	49.05	13.84	0.2960

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 47/325

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4627	4.31	46.27	14.26	0.2845
2	4620	4.57	59.20	15.25	0.4127
3	4639	4.36	46.49	13.31	0.2699
4	4654	7.5	54.86	14.73	0.6060
5	4616	4.18	66.84	13.08	0.3653
6	4630	4.56	46.76	11.29	0.2408
7	4635	7.91	48.51	11.94	0.4580
8	4617	4.55	53.12	11.65	0.2816
9	4642	7.79	47.44	14.42	0.5328
10	4606	4.66	55.75	14.51	0.3770
11	4626	4.55	68.38	13.83	0.4304
12	4619	4.88	54.05	14.12	0.3723
13	4638	4.76	57.82	12.85	0.3537
14	4612	7.38	61.88	14.72	0.6723
15	4637	7.94	65.02	12.78	0.6598
16	4607	7.49	59.51	14.94	0.6659
17	4645	7.65	52.51	14.23	0.5715
18	4628	4.76	48.13	12.03	0.2756
19	4650	7.38	60.59	13.01	0.5815
20	4649	7.18	51.73	12.41	0.4610
21	4648	4.16	49.98	17.01	0.3536
22	4655	4.19	50.33	15.02	0.3168
23	4622	4.48	49.59	16.39	0.3642
24	4603	4.23	50.47	15.40	0.3287
25	4652	6.59	52.12	16.21	0.5569
26	4601	4.03	57.96	12.82	0.2994
27	4611	4.23	52.08	15.61	0.3439
28	4651	4.37	50.39	15.50	0.3413
29	4614	4.18	59.62	14.51	0.3616
30	4647	4.42	50.50	14.65	0.3271
31	4604	7.22	57.93	13.93	0.5827
32	4615	7.29	63.18	15.56	0.7166
33	4629	4.66	59.85	14.24	0.3970
34	4632	4.3	56.22	14.73	0.3560
35	4646	6.85	61.11	15.81	0.6617
36	4641	7.43	44.49	15.76	0.5208

37	4602	4.4	46.84	17.21	0.3546
38	4631	4.46	48.29	16.71	0.3599
39	4609	2.94	47.90	14.84	0.2090
40	4613	6.92	53.81	15.72	0.5854
41	4610	7.29	55.73	15.58	0.6328
42	4643	7.43	45.88	15.34	0.5231
43	4608	4.23	52.34	16.35	0.3621
44	4624	4.64	50.29	15.95	0.3721
45	4644	7.65	48.78	16.61	0.6196
46	4605	7.43	57.52	14.41	0.6159
47	4621	7.81	57.05	13.36	0.5951
48	4623	8.02	58.38	13.70	0.6416
49	4636	8.06	53.36	13.85	0.5956
50	4618	4.66	58.37	14.61	0.3975
51	4633	4.64	56.36	14.11	0.3689
52	4653	8.29	54.99	13.28	0.6052
53	4625	7.74	61.94	13.95	0.6687
54	4634	4.66	53.10	14.39	0.3560
55	4640	7.43	52.04	15.49	0.5989

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 32/370

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3160	4.68	61.49	15.48	0.4455
2	3144	8.08	58.77	15.65	0.7434
3	3102	4.51	57.02	14.61	0.3757
4	3161	4.77	61.35	14.54	0.4255
5	3122	4.43	50.93	12.10	0.2729
6	3133	4.85	55.47	13.36	0.3594
7	3141	4.77	60.39	15.23	0.4388
8	3115	4.5	53.88	12.21	0.2961
9	3151	4.65	52.95	14.45	0.3557
10	3158	7.51	56.78	13.98	0.5963
11	3152	4.56	54.75	13.83	0.3452
12	3134	7.04	37.39	12.94	0.3407
13	3121	4.55	58.57	12.60	0.3358
14	3112	4.6	57.44	14.26	0.3767
15	3129	4.64	57.90	14.28	0.3837
16	3101	4.53	65.86	14.36	0.4285
17	3137	4	55.29	13.33	0.2948
18	3103	4.67	55.39	13.16	0.3404
19	3120	7.66	56.18	14.42	0.6205
20	3156	4.89	59.53	13.02	0.3790
21	3109	4.84	55.75	14.53	0.3920
22	3105	4.81	48.01	14.91	0.3444
23	3114	4.38	46.73	13.89	0.2843
24	3104	7.54	51.91	12.37	0.4841
25	3127	7.84	42.82	15.44	0.5182
26	3125	4.5	54.27	13.17	0.3218
27	3130	7.64	45.72	17.89	0.6250
28	3110	9.33	53.13	13.31	0.6596

29	3123	4.56	51.16	14.39	0.3356
30	3118	4.57	58.62	12.42	0.3327
31	3117	4.71	60.34	13.23	0.3759
32	3155	4.82	61.88	14.40	0.4295
33	3113	4.57	61.47	14.61	0.4104
34	3131	4.43	51.95	14.26	0.3283
35	3119	7.68	59.77	12.58	0.5775
36	3146	4.48	54.17	15.12	0.3669
37	3132	4.76	57.57	14.17	0.3884
38	3143	4.81	57.97	14.96	0.4170
39	3150	4.47	55.34	15.49	0.3831
40	3148	4.64	57.81	11.99	0.3216
41	3135	4.65	37.17	14.93	0.2581
42	3116	4.44	50.25	13.71	0.3059
43	3128	4.57	36.55	13.54	0.2262
44	3106	4.51	41.20	15.22	0.2828
45	3147	4.59	55.19	13.68	0.3465
46	3138	4.79	52.20	14.14	0.3535
47	3159	4.88	51.98	15.60	0.3958
48	3149	7.25	46.00	16.98	0.5662
49	3157	7.44	50.24	15.35	0.5736
50	3107	4.56	48.99	12.92	0.2886
51	3108	4.76	57.03	12.05	0.3270
52	3111	7.24	54.55	13.53	0.5343
53	3154	7.9	59.73	14.16	0.6683
54	3145	4.59	59.11	13.74	0.3727
55	3142	4.36	58.05	15.49	0.3920
56	3153	4.65	64.30	15.02	0.4492
57	3124	3.66	57.16	13.00	0.2719
58	3136	4.73	60.16	14.36	0.4087
59	3139	4.69	60.47	13.58	0.3850
60	3126	4.6	59.55	15.33	0.4200
61	3140	4.89	55.94	10.49	0.2870

Date: 24.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 20/269**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1966	4.53	55.88	12.62	0.3194
2	1960	7.56	58.90	13.04	0.5806
3	1959	4.74	63.30	13.35	0.4005
4	1928	5.06	36.70	14.50	0.2692
5	1978	4.68	52.97	12.12	0.3005
6	1920	7.57	58.19	13.03	0.5738
7	1992	4.23	49.95	14.31	0.3024
8	1970	7.71	58.42	13.63	0.6137
9	1930	4.85	60.94	12.96	0.3831
10	1925	4.63	61.78	14.31	0.4093
11	1907	4.47	59.88	13.93	0.3728
12	1938	4.86	66.69	14.20	0.4602
13	1911	7.6	62.46	14.39	0.6832
14	1913	8.98	61.66	13.12	0.7265
15	1974	7.58	56.35	14.21	0.6072
16	1910	4.67	61.98	12.76	0.3694
17	1927	4.79	63.42	12.46	0.3784
18	1962	4.54	59.83	14.02	0.3809
19	1909	4.47	57.73	12.39	0.3196
20	1973	4.67	60.11	13.16	0.3694
21	1929	4.74	57.36	13.60	0.3697
22	1968	4.55	61.45	13.64	0.3813
23	1946	4.14	57.55	14.74	0.3511
24	1950	4.7	56.79	13.56	0.3619
25	1967	7.66	54.77	12.84	0.5385
26	1954	7.43	48.44	14.82	0.5335
27	1901	4.79	52.73	14.77	0.3731
28	1905	8.01	47.77	14.21	0.5439
29	1963	7.71	54.00	12.83	0.5343
30	1994	4.47	51.30	14.00	0.3209
31	1979	4.57	47.32	13.23	0.2861
32	1989	4.5	47.04	14.65	0.3101
33	1903	4.78	51.02	13.56	0.3308
34	1955	7.46	51.51	16.17	0.6214
35	1971	4.8	48.41	13.78	0.3202
36	1996	3.59	48.11	14.43	0.2491
37	1975	4.58	44.22	13.73	0.2780
38	1999	7.57	53.01	15.19	0.6094
39	1949	7.56	49.38	14.03	0.5239
40	1937	4.92	51.81	12.70	0.3237
41	1915	7.67	50.14	14.64	0.5630
42	1917	4.67	60.64	12.93	0.3661

43	1977	7.87	54.44	14.84	0.6359
44	1991	4.23	52.64	15.03	0.3346
45	1964	3.89	54.82	14.52	0.3096
46	1932	4.78	55.75	12.88	0.3432
47	1936	4.91	58.26	13.42	0.3840
48	1931	4.83	56.31	13.87	0.3772
49	1942	5.02	54.77	13.64	0.3750
50	1919	4.47	60.58	12.89	0.3491
51	1952	4.64	60.53	12.99	0.3647
52	1935	8.09	54.03	14.57	0.6367
53	1916	4.35	56.99	15.44	0.3828
54	1951	4.25	51.16	14.86	0.3230
55	1990	4.57	49.00	12.55	0.2811
56	1956	7.65	62.40	15.43	0.7367
57	1902	4.22	54.09	14.66	0.3346
58	1939	4.66	56.60	13.07	0.3448
59	1986	7.58	49.72	13.80	0.5200
60	1945	4.84	61.65	14.34	0.4279
61	1987	4.43	60.39	14.80	0.3960
62	1921	8.06	61.05	14.25	0.7012
63	1995	7.07	51.24	13.72	0.4970
64	1969	4.71	61.29	13.51	0.3900
65	1922	4.51	54.55	12.32	0.3031
66	1988	4.38	53.43	14.36	0.3359
67	1982	4.93	55.71	11.54	0.3170
68	1981	8.62	54.90	13.75	0.6508
69	1948	9.27	49.51	14.08	0.6461
70	1976	9.18	50.14	15.58	0.7170
71	1947	9.33	54.67	14.38	0.7333
72	1985	8.97	45.81	14.01	0.5759
73	1957	7.48	54.81	15.31	0.6276
74	1943	8.71	53.23	14.15	0.6559
75	1926	7.37	37.87	17.24	0.4813
76	1923	7.53	58.79	13.78	0.6099
77	1934	4.76	55.27	13.26	0.3489
78	1914	7.7	53.85	13.26	0.5498
79	1953	4.58	54.33	12.85	0.3197
80	1918	4.8	55.67	13.78	0.3682
81	1998	7.05	55.24	14.46	0.5633
82	1993	4.42	49.02	13.77	0.2984
83	1940	4.92	55.34	13.19	0.3592
84	1965	4.55	61.37	14.37	0.4013
85	1984	4.72	64.46	12.83	0.3903
86	2000	4.59	60.57	15.19	0.4223
87	1983	7.5	56.23	12.18	0.5137
88	1924	4.67	64.57	14.93	0.4502
89	1958	7.74	58.11	12.55	0.5642

90	1972	4.58	55.87	13.53	0.3462
91	1941	8.06	57.25	13.19	0.6085
92	1908	7.1	60.97	12.96	0.5609
93	1997	4.25	57.79	13.69	0.3362
94	1980	4.63	53.21	13.79	0.3398
95	1944	4.65	64.94	12.18	0.3678
96	1933	7.73	55.29	13.49	0.5767
97	1961	4.56	62.50	14.74	0.4200
98	1912	4.62	59.79	13.56	0.3747
99	1904	4.61	62.42	14.83	0.4269
100	1906	7.6	60.34	13.67	0.6270

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 34/483

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3332	7.11	60.54	14.19	0.6107
2	3387	7.59	60.94	11.31	0.5230
3	3386	7.62	57.45	11.89	0.5204
4	3320	4.36	67.60	11.69	0.3444
5	3369	4.52	59.01	11.42	0.3046
6	3392	7.2	46.41	11.38	0.3802
7	3301	7.54	60.08	11.72	0.5308
8	3303	7.51	60.60	13.12	0.5970
9	3397	3.84	48.67	13.11	0.2450
10	3379	8.15	61.35	13.90	0.6952
11	3307	7.42	67.06	13.42	0.6678
12	3381	8.3	62.76	12.83	0.6681
13	3353	10.26	54.51	9.10	0.5089
14	3336	4.14	62.27	12.90	0.3324
15	3330	7.25	50.69	12.11	0.4451
16	3380	6.33	60.53	12.08	0.4627
17	3368	7.24	58.23	12.76	0.5379
18	3355	9.08	53.50	11.40	0.5539
19	3352	7.37	58.98	12.22	0.5314
20	3308	9.09	63.31	12.72	0.7317
21	3358	7.44	69.30	11.56	0.5959
22	3375	9.11	49.64	10.68	0.4828
23	3314	8.24	46.51	12.34	0.4730
24	3331	8.05	46.58	12.07	0.4524
25	3347	7.63	49.78	9.00	0.3418
26	3311	4.34	52.48	12.73	0.2899
27	3385	7.7	42.65	15.59	0.5120
28	3362	6.8	41.02	13.19	0.3679
29	3393	4.23	42.63	14.71	0.2652
30	3317	7.45	44.44	15.32	0.5073
31	3366	6.7	50.58	13.03	0.4415
32	3337	4.35	55.57	14.32	0.3463
33	3363	6.65	47.26	14.71	0.4622
34	3391	6.85	43.23	11.38	0.3370
35	3388	7.36	52.05	12.91	0.4946
36	3374	7.09	52.48	12.23	0.4552

37	3342	8.42	44.41	14.07	0.5263
38	3390	7.57	57.23	13.12	0.5685
39	3340	6.76	60.54	15.39	0.6300
40	3394	4.17	44.69	13.00	0.2423
41	3310	7.27	61.25	13.88	0.6180
42	3367	4.3	55.20	11.65	0.2765
43	3312	6.76	48.22	13.89	0.4529
44	3364	6.24	43.62	14.08	0.3831
45	3339	4.25	61.95	13.83	0.3642
46	3356	4.53	67.10	11.52	0.3502
47	3351	7.37	62.89	12.23	0.5668
48	3309	7.46	63.55	13.49	0.6393
49	3346	3.52	57.24	12.25	0.2468
50	3325	4.25	56.09	12.37	0.2949
51	3338	6.42	54.56	13.54	0.4744
52	3373	4.15	56.20	13.97	0.3258
53	3335	3.69	64.42	11.67	0.2775
54	3315	7.27	62.48	12.96	0.5889
55	3329	4.26	58.50	13.18	0.3284
56	3384	6.96	57.52	12.05	0.4823
57	3395	4.1	37.03	10.69	0.1624
58	3333	8.6	55.07	12.37	0.5857
59	3319	8.87	60.69	13.25	0.7131
60	3377	8.96	56.55	10.73	0.5439
61	3321	4.25	45.36	15.10	0.2911
62	3372	6.95	42.40	16.37	0.4823
63	3324	7.3	49.65	13.76	0.4986
64	3370	8.53	50.26	13.81	0.5920
65	3349	9.51	54.47	12.76	0.6609
66	3376	4.54	48.85	13.31	0.2951
67	3361	7.2	44.52	13.68	0.4385
68	3378	8.6	59.22	13.73	0.6992
69	3326	8.25	55.72	13.96	0.6419
70	3323	7.2	47.23	14.67	0.4990
71	3398	4.47	54.70	13.93	0.3406
72	3328	4.33	58.25	12.41	0.3131
73	3341	7.56	65.00	13.23	0.6502
74	3322	4.5	53.26	13.24	0.3172
75	3400	8.95	54.37	12.73	0.6193
76	3316	7.14	60.62	13.91	0.6019
77	3350	7.55	62.25	12.03	0.5655
78	3354	8.6	60.77	11.58	0.6054
79	3399	7.51	52.20	12.47	0.4889
80	3365	7.8	54.95	12.36	0.5296
81	3345	7.43	57.52	11.54	0.4934
82	3357	7.41	68.48	12.94	0.6565
83	3371	7.56	60.82	14.27	0.6562
84	3305	8.76	58.77	13.22	0.6807
85	3389	8.74	59.58	11.78	0.6135
86	3360	7.42	65.45	11.23	0.5454

87	3348	8.93	53.79	12.66	0.6081
88	3304	7.41	60.12	12.41	0.5528
89	3359	9.28	61.92	9.72	0.5587
90	3302	7.41	59.80	13.80	0.6113
91	3313	9.19	61.11	12.70	0.7131
92	3334	8.44	59.83	13.94	0.7039
93	3327	6.99	56.07	13.13	0.5145
94	3344	9.03	64.43	10.72	0.6240
95	3343	7.55	56.34	12.02	0.5111
96	3318	7.42	58.90	13.02	0.5691
97	3306	8.68	54.92	9.67	0.4609
98	3396	4.57	56.23	11.22	0.2884
99	3383	7.26	54.13	10.84	0.4262
100	3382	7.4	51.95	12.57	0.4832

Date: 22.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 17/266**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1643	9.14	51.49	13.25	0.6233
2	1650	9.25	52.51	12.91	0.6271
3	1656	8.94	60.01	11.70	0.6276
4	1689	9.43	56.20	13.02	0.6903
5	1621	9.2	45.36	13.38	0.5584
6	1649	7.95	54.40	12.32	0.5326
7	1601	4.81	59.99	13.47	0.3886
8	1605	8.05	62.01	13.97	0.6971
9	1684	4.79	56.07	11.75	0.3157
10	1622	8.13	46.94	11.44	0.4366
11	1647	8.78	54.47	13.03	0.6234
12	1673	9.04	54.57	12.30	0.6066
13	1620	8.77	48.51	12.66	0.5385
14	1627	9.2	54.68	11.74	0.5906
15	1625	7.5	54.71	11.00	0.4515
16	1617	9.28	61.36	12.32	0.7016
17	1661	9.76	60.32	11.02	0.6490
18	1694	9.87	61.60	10.86	0.6603
19	1658	9.57	59.83	11.85	0.6785
20	1640	8.99	52.13	12.85	0.6023
21	1630	9.43	56.67	10.83	0.5790
22	1648	9.32	59.80	11.24	0.6263
23	1660	8.78	63.40	14.01	0.7797
24	1644	9.13	59.07	12.56	0.6774
25	1691	9.06	48.23	12.05	0.5264
26	1619	8.56	47.11	15.90	0.6411
27	1693	4.63	43.49	15.38	0.3097
28	1657	7.77	50.68	15.19	0.5983
29	1670	4.84	54.28	15.38	0.4041
30	1664	7.61	55.87	14.21	0.6042
31	1609	5.14	57.65	14.08	0.4174
32	1665	7.68	52.02	14.42	0.5760
33	1641	7.85	57.74	13.63	0.6178
34	1611	4.9	59.94	14.05	0.4126
35	1615	5.1	51.16	15.36	0.4009
36	1672	7.53	43.23	14.34	0.4669
37	1674	7.87	42.34	16.25	0.5415
38	1678	4.69	49.14	14.96	0.3447
39	1696	4.57	52.40	14.48	0.3469
40	1654	4.69	59.75	14.59	0.4090
41	1671	7.58	49.78	14.48	0.5465
42	1685	4.45	53.07	13.77	0.3253

43	1666	7.51	58.51	13.98	0.6143
44	1675	4.82	49.33	16.14	0.3837
45	1699	8.06	55.95	14.83	0.6690
46	1635	8.98	46.52	15.54	0.6493
47	1680	7.73	53.20	13.48	0.5542
48	1695	7.68	48.11	15.34	0.5668
49	1669	4.94	58.48	14.14	0.4085
50	1624	7.2	48.64	16.14	0.5652
51	1676	8.84	58.46	12.30	0.6356
52	1638	9.32	54.70	12.30	0.6272
53	1636	9.04	54.21	12.80	0.6274
54	1659	9.27	55.61	11.02	0.5683
55	1653	9.18	58.70	12.50	0.6738
56	1628	7.77	58.53	14.32	0.6511
57	1633	7.44	53.64	12.75	0.5089
58	1608	5.52	60.33	12.12	0.4035
59	1607	5.26	64.48	13.48	0.4571
60	1618	4.99	67.90	12.27	0.4157
61	1681	4.66	51.94	13.88	0.3360
62	1631	7.5	45.76	15.38	0.5280
63	1686	4.64	51.58	14.15	0.3387
64	1614	5.07	54.63	13.66	0.3782
65	1663	4.58	53.38	13.02	0.3183
66	1651	4.65	54.42	13.89	0.3515
67	1697	3.85	53.70	12.94	0.2676
68	1604	5.28	65.28	13.62	0.4694
69	1662	7.7	52.96	12.78	0.5213
70	1637	7.84	54.09	12.66	0.5370
71	1634	9.25	57.28	13.83	0.7326
72	1646	9.07	53.49	12.68	0.6149
73	1626	9.33	55.63	12.01	0.6232
74	1632	9.12	53.62	12.79	0.6256
75	1639	9.05	56.51	13.79	0.7050
76	1606	8.13	63.45	14.94	0.7707
77	1700	4.72	54.06	11.93	0.3044
78	1679	4.58	54.93	12.23	0.3078
79	1616	4.97	63.53	13.16	0.4155
80	1612	4.86	60.77	14.65	0.4325
81	1655	9.09	55.52	12.34	0.6227
82	1652	9.19	52.94	13.18	0.6415
83	1683	8.9	52.03	13.42	0.6212
84	1690	9.2	54.69	12.65	0.6366
85	1623	9.9	59.51	13.21	0.7781
86	1610	8.05	61.04	13.02	0.6400
87	1629	9.19	42.63	16.35	0.6405
88	1682	7.99	45.51	14.28	0.5193
89	1642	7.66	55.65	15.09	0.6434

90	1698	4.61	53.71	13.98	0.3462
91	1667	7.6	58.74	14.86	0.6635
92	1613	5	51.92	14.98	0.3890
93	1692	4.69	54.05	13.86	0.3513
94	1603	8.08	46.31	15.74	0.5890
95	1677	7.88	48.79	14.45	0.5555
96	1687	4.62	43.68	17.08	0.3447
97	1602	7.95	51.30	15.38	0.6273
98	1668	7.58	62.46	13.78	0.6526
99	1688	7.68	51.16	14.68	0.5768
100	1645	10.04	50.76	12.71	0.6476

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 19/268

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1811	4.59	60.39	13.11	0.3635
2	1869	4.53	60.20	11.53	0.3144
3	1892	7.6	62.01	12.90	0.6080
4	1801	7.77	62.00	10.24	0.4934
5	1868	4.68	57.90	13.45	0.3646
6	1807	4.82	65.82	12.06	0.3827
7	1844	7.85	59.91	11.28	0.5307
8	1822	4.6	57.14	13.60	0.3574
9	1851	7.73	62.03	14.99	0.7189
10	1829	7.75	60.24	14.39	0.6719
11	1889	8.84	62.13	14.10	0.7744
12	1865	9.18	53.65	11.59	0.5710
13	1810	9.59	58.69	13.31	0.7490
14	1887	8.83	62.40	14.42	0.7947
15	1808	8.07	59.93	12.65	0.6117
16	1861	7.66	54.69	13.38	0.5607
17	1853	7.8	62.29	11.56	0.5616
18	1863	4.63	62.03	12.98	0.3727
19	1876	4.7	58.76	12.29	0.3393
20	1834	4.86	54.40	9.63	0.2547
21	1890	7.5	57.96	13.11	0.5700
22	1864	7.47	58.67	12.08	0.5296
23	1812	8.13	61.70	13.03	0.6537
24	1874	9.38	54.26	13.69	0.6969
25	1875	7.72	61.49	12.68	0.6022
26	1849	4.54	59.62	14.83	0.4013
27	1852	7.42	58.13	15.69	0.6767
28	1856	4.71	53.25	15.02	0.3768
29	1879	4.88	56.19	14.82	0.4065
30	1867	4.47	53.94	14.55	0.3509
31	1884	4.57	54.46	15.37	0.3825
32	1881	4.57	55.06	14.55	0.3661
33	1855	4.6	60.28	14.91	0.4135
34	1802	7.76	56.83	11.61	0.5122
35	1872	8.03	58.18	14.37	0.6713
36	1804	4.72	56.84	14.67	0.3936

37	1900	7.77	57.86	15.19	0.6830
38	1818	7.25	43.77	16.04	0.5089
39	1878	4.62	52.59	14.49	0.3520
40	1838	7.59	54.90	13.11	0.5465
41	1862	7.87	59.15	15.06	0.7012
42	1871	4.73	60.98	15.48	0.4465
43	1840	4.62	56.90	15.52	0.4079
44	1896	4.6	51.98	13.26	0.3169
45	1848	7.72	57.89	14.03	0.6269
46	1859	4.97	56.15	13.77	0.3842
47	1899	4.79	55.39	14.33	0.3803
48	1854	8.1	62.03	13.53	0.6796
49	1898	4.72	50.85	14.61	0.3507
50	1882	7.68	57.58	15.06	0.6659
51	1836	7.88	58.88	13.09	0.6075
52	1885	7.96	61.74	14.93	0.7339
53	1820	4.75	56.98	14.55	0.3938
54	1816	4.32	56.89	13.69	0.3365
55	1806	4.62	61.94	13.84	0.3959
56	1831	7.08	60.03	13.06	0.5551
57	1839	4.55	58.80	12.93	0.3458
58	1894	7.57	58.87	14.35	0.6397
59	1821	4.41	55.11	12.67	0.3078
60	1803	4.74	56.51	12.12	0.3247
61	1883	7.68	59.99	14.25	0.6566
62	1893	7.59	58.04	12.63	0.5563
63	1841	4.59	60.95	13.08	0.3658
64	1819	4.68	56.37	14.10	0.3721
65	1835	4.59	61.52	13.04	0.3681
66	1888	4.86	55.45	13.80	0.3718
67	1880	4.59	55.84	13.47	0.3452
68	1824	4.52	59.16	13.10	0.3503
69	1833	4.72	51.72	11.00	0.2686
70	1860	4.69	55.74	13.28	0.3471
71	1886	7.78	55.06	10.99	0.4707
72	1873	4.8	60.59	11.90	0.3461
73	1858	4.44	54.49	12.37	0.2993
74	1815	4.55	55.57	13.57	0.3431
75	1845	7.75	60.10	14.51	0.6758
76	1843	4.8	58.51	14.34	0.4027
77	1832	4.7	58.60	11.35	0.3125
78	1847	3.77	65.12	12.30	0.3020
79	1897	4.67	51.89	14.49	0.3512
80	1857	4.82	58.82	14.18	0.4020
81	1813	4.76	62.61	12.94	0.3856
82	1850	4.8	62.04	14.04	0.4181
83	1895	4.86	58.30	14.85	0.4209
84	1826	4.56	58.15	14.12	0.3744
85	1830	4.61	64.33	15.45	0.4582
86	1837	7.69	50.30	16.12	0.6237

87	1866	7.69	51.13	15.16	0.5960
88	1814	4.4	43.70	14.58	0.2803
89	1842	7.9	55.54	13.94	0.6115
90	1805	5	52.57	14.17	0.3725
91	1870	8.05	57.36	14.09	0.6504
92	1827	4.62	54.73	14.27	0.3608
93	1828	4.87	49.07	14.57	0.3482
94	1877	7.47	52.87	14.19	0.5602
95	1891	4.7	55.70	15.78	0.4131
96	1823	7.95	52.87	15.28	0.6424
97	1809	8.03	53.82	15.01	0.6488
98	1846	4.7	60.15	14.41	0.4075
99	1817	8.09	57.59	14.45	0.6731
100	1825	4.53	54.43	14.39	0.3547

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 37/486

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3696	7.22	66.38	11.83	0.5668
2	3640	4.28	57.06	10.11	0.2470
3	3663	4.42	52.86	13.92	0.3253
4	3654	7.08	51.22	11.44	0.4149
5	3682	3.87	57.71	9.98	0.2229
6	3614	6.76	47.60	12.10	0.3894
7	3650	6.52	67.03	12.86	0.5620
8	3665	6.3	57.78	10.76	0.3919
9	3615	4.33	53.28	12.33	0.2845
10	3687	4.5	64.75	12.96	0.3776
11	3697	8.66	64.12	13.26	0.7361
12	3667	7.24	65.16	12.14	0.5727
13	3623	3.95	60.24	13.81	0.3286
14	3690	7.16	50.43	10.49	0.3788
15	3618	8.32	57.69	12.43	0.5965
16	3619	8.23	58.74	11.17	0.5399
17	3669	7.63	61.45	13.08	0.6135
18	3672	7.33	58.00	10.86	0.4618
19	3621	6.84	67.64	13.45	0.6224
20	3608	6.77	52.40	12.63	0.4482
21	3611	4.25	55.28	12.03	0.2826
22	3651	7.96	68.86	12.14	0.6655
23	3633	8.02	63.51	11.92	0.6071
24	3644	6.84	57.95	11.18	0.4432
25	3635	6.86	65.83	11.62	0.5248
26	3680	7.59	55.57	14.34	0.6049
27	3645	6.27	58.80	14.54	0.5361
28	3691	6.81	53.00	14.77	0.5332
29	3646	4.14	52.65	15.48	0.3374
30	3661	4.32	53.85	14.93	0.3473
31	3674	7.3	53.01	15.09	0.5840
32	3673	8.67	50.73	14.96	0.6581
33	3639	6.96	50.92	15.48	0.5484

34	3689	7.18	53.78	15.12	0.5837
35	3652	6.9	58.06	15.02	0.6017
36	3662	9.16	55.06	15.78	0.7960
37	3634	7.16	58.40	14.11	0.5900
38	3675	7.04	60.83	13.32	0.5702
39	3668	7.18	49.53	13.67	0.4861
40	3670	8.57	57.82	15.10	0.7482
41	3664	8.35	53.15	13.66	0.6062
42	3671	6.26	53.50	14.75	0.4939
43	3666	8.15	47.31	16.66	0.6422
44	3676	8.99	51.24	15.50	0.7138
45	3616	8.1	50.45	15.52	0.6342
46	3626	6.95	53.71	14.22	0.5310
47	3604	8.82	51.28	14.63	0.6615
48	3607	7.05	46.24	15.44	0.5034
49	3606	7.25	55.01	15.36	0.6126
50	3648	6.68	57.25	15.13	0.5785
51	3656	8.97	53.14	12.38	0.5902
52	3677	8.44	55.99	14.45	0.6828
53	3612	7.12	48.98	11.66	0.4066
54	3617	7.18	56.52	12.30	0.4990
55	3627	6.99	51.21	10.33	0.3698
56	3601	4.2	50.23	12.02	0.2537
57	3638	3.9	60.85	13.20	0.3132
58	3649	4.33	66.36	13.14	0.3776
59	3610	4.27	54.21	13.61	0.3151
60	3681	8.39	57.82	10.60	0.5143
61	3643	8.93	64.55	11.76	0.6778
62	3660	7.23	54.63	11.15	0.4403
63	3695	4.33	63.40	12.97	0.3559
64	3622	7.3	61.03	12.50	0.5570
65	3603	7.11	53.56	12.06	0.4593
66	3636	7.39	61.27	13.40	0.6067
67	3647	7.23	50.78	14.36	0.5271
68	3629	4.07	53.75	14.34	0.3138
69	3632	7.06	63.32	12.73	0.5690
70	3694	7.45	62.92	13.25	0.6213
71	3613	6.97	55.52	13.54	0.5241
72	3620	8.57	60.06	12.95	0.6667
73	3642	4.27	58.52	12.95	0.3237
74	3653	3.87	44.18	12.31	0.2105
75	3655	7.19	39.40	15.94	0.4515
76	3659	8.47	52.52	13.27	0.5904
77	3637	4.25	66.36	11.21	0.3162
78	3602	8.3	48.55	14.23	0.5735
79	3630	8.44	46.92	14.15	0.5604
80	3641	8.43	51.78	13.06	0.5699
81	3683	3.95	53.65	13.55	0.2872
82	3700	4.33	59.23	13.76	0.3529
83	3657	8.09	46.28	12.42	0.4652

84	3686	8.44	68.54	14.49	0.8381
85	3605	4.34	58.00	11.50	0.2895
86	3624	7.32	59.78	11.41	0.4992
87	3698	7.34	62.53	13.10	0.6011
88	3679	7.72	58.93	13.47	0.6130
89	3678	9.13	56.93	12.84	0.6674
90	3693	8.24	58.20	13.63	0.6534
91	3631	3.59	42.82	14.64	0.2251
92	3628	4.29	50.64	13.31	0.2891
93	3685	6.65	53.18	15.66	0.5539
94	3688	4.46	56.93	13.35	0.3390
95	3692	4.28	53.67	13.90	0.3193
96	3699	7.73	52.49	13.96	0.5666
97	3609	6.68	50.80	14.90	0.5057
98	3625	6.81	52.65	15.19	0.5448
99	3684	6.65	56.82	13.92	0.5260
100	3658	7.21	43.17	14.94	0.4650

Date: 20.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 14/151**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1357	7.56	48.06	14.19	0.5156
2	1306	4.69	57.11	14.55	0.3897
3	1338	7.21	48.95	13.85	0.4888
4	1383	4.35	48.16	15.47	0.3241
5	1396	4.97	45.44	14.00	0.3161
6	1333	7.54	45.57	15.16	0.5210
7	1399	5.03	54.28	13.67	0.3732
8	1389	4.82	43.41	15.94	0.3335
9	1351	7.57	49.13	13.88	0.5163
10	1345	4.57	54.69	12.03	0.3007
11	1344	7.73	60.61	14.26	0.6679
12	1332	4.49	53.04	12.54	0.2986
13	1312	7.58	52.31	11.93	0.4730
14	1325	7.47	63.94	13.86	0.6618
15	1372	4.69	54.87	12.79	0.3292
16	1384	4.14	49.11	12.30	0.2501
17	1329	4.83	48.16	12.75	0.2966
18	1382	4.52	52.35	11.71	0.2771
19	1386	4.49	48.83	12.41	0.2721
20	1355	7.57	56.66	12.53	0.5375
21	1316	4.85	55.50	12.09	0.3254
22	1392	4.72	57.42	12.02	0.3257
23	1400	4.72	50.59	11.82	0.2823
24	1366	4.51	65.29	14.49	0.4266
25	1394	4.68	56.69	13.46	0.3571
26	1378	7.73	56.15	12.68	0.5504
27	1311	7.75	58.27	13.56	0.6123
28	1319	7.53	54.62	12.30	0.5060
29	1368	7.64	60.79	13.31	0.6181
30	1336	4.6	41.27	13.33	0.2530
31	1343	4.47	54.25	12.00	0.2910
32	1387	4.43	50.92	11.15	0.2516
33	1350	4.58	55.40	13.68	0.3472
34	1391	4.85	52.77	11.33	0.2900
35	1363	7.63	56.93	10.75	0.4670
36	1317	4.76	51.64	14.50	0.3565
37	1364	7.56	50.70	13.91	0.5330
38	1381	4.55	43.64	13.82	0.2744
39	1321	4.44	50.33	14.17	0.3166
40	1334	4.63	51.43	16.18	0.3852
41	1318	7.45	56.16	13.82	0.5781
42	1314	7.77	58.91	13.68	0.6263

43	1315	4.78	45.90	15.23	0.3341
44	1323	4.69	57.47	14.30	0.3855
45	1361	7.6	52.38	12.08	0.4811
46	1331	4.53	49.49	12.77	0.2863
47	1330	4.58	41.66	13.78	0.2629
48	1369	4.5	57.93	12.05	0.3141
49	1397	4.98	54.16	11.76	0.3172
50	1322	4.29	56.61	14.06	0.3415
51	1339	7.67	49.76	14.97	0.5714
52	1362	7.67	42.31	15.03	0.4878
53	1358	7.71	47.07	13.94	0.5058
54	1356	7.58	52.90	15.12	0.6064
55	1375	4.77	51.90	15.41	0.3816
56	1395	4.8	54.82	14.89	0.3917
57	1359	7.75	43.55	15.71	0.5301
58	1365	4.55	52.06	14.37	0.3403
59	1346	4.8	50.27	13.29	0.3206
60	1380	4.63	55.26	14.84	0.3797
61	1308	3.13	59.98	13.27	0.2491
62	1335	7.61	52.18	13.40	0.5319
63	1379	4.92	62.24	12.42	0.3803
64	1342	4.65	63.44	11.49	0.3390
65	1304	4.62	58.10	13.56	0.3641
66	1353	4.54	48.23	12.27	0.2688
67	1305	4.63	59.36	14.00	0.3848
68	1385	4.5	52.87	10.91	0.2597
69	1340	4.65	55.80	13.33	0.3460
70	1303	4.49	47.24	13.70	0.2905
71	1328	6.97	61.74	14.37	0.6182
72	1376	9.43	56.68	11.24	0.6007
73	1370	4.56	62.04	10.90	0.3083
74	1320	4.45	55.29	12.37	0.3044
75	1377	7.97	54.58	11.98	0.5212
76	1398	9.47	55.50	12.68	0.6667
77	1367	9.04	60.42	13.75	0.7512
78	1360	8.97	54.08	12.81	0.6216
79	1347	9.15	53.93	12.40	0.6121
80	1393	4.48	51.18	12.09	0.2773
81	1307	7.74	51.19	12.78	0.5062
82	1324	7.48	57.81	13.89	0.6006
83	1301	4.9	64.45	13.56	0.4283
84	1349	9.17	52.79	13.24	0.6410
85	1352	9.14	53.43	12.11	0.5914
86	1371	4.59	45.56	15.47	0.3236
87	1310	4.81	50.79	15.02	0.3670
88	1309	4.73	54.84	14.48	0.3756
89	1348	4.58	55.67	13.72	0.3499

90	1341	4.77	50.41	14.46	0.3477
91	1326	7.1	64.15	14.29	0.6511
92	1373	4.89	46.10	16.29	0.3672
93	1390	4.92	53.70	13.99	0.3695
94	1313	4.75	61.73	12.49	0.3662
95	1302	4.4	62.03	14.91	0.4070
96	1374	4.89	53.69	14.66	0.3848
97	1327	4.39	65.15	13.49	0.3859
98	1354	4.56	52.15	14.48	0.3443
99	1337	4.93	58.59	13.74	0.3969
100	1388	7.53	55.85	13.86	0.5828

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 25/363

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2420	4.6	48.59	16.42	0.3671
2	2413	4.46	38.86	16.88	0.2926
3	2490	9.41	43.05	14.80	0.5994
4	2454	4.61	56.49	15.29	0.3983
5	2425	4.55	52.39	14.05	0.3349
6	2472	7.46	56.05	14.58	0.6095
7	2408	7.54	51.30	14.72	0.5693
8	2478	4.56	54.20	13.93	0.3443
9	2456	4.67	58.12	13.73	0.3727
10	2432	4.33	57.93	13.90	0.3486
11	2453	4.54	54.64	14.28	0.3541
12	2450	4.99	54.56	12.85	0.3498
13	2448	4.56	55.61	12.57	0.3187
14	2487	7.54	56.75	14.36	0.6145
15	2422	4.49	48.54	14.05	0.3062
16	2484	4.64	58.96	12.50	0.3420
17	2496	4.7	59.49	13.85	0.3873
18	2467	4.35	53.15	12.08	0.2793
19	2418	4.54	56.93	13.03	0.3369
20	2483	4.75	60.04	12.29	0.3505
21	2451	7.55	62.69	14.56	0.6893
22	2442	9.56	62.61	12.25	0.7333
23	2441	9.44	62.05	12.23	0.7165
24	2475	4.59	59.92	13.65	0.3755
25	2476	4.58	59.59	14.25	0.3888
26	2446	4.81	57.69	13.36	0.3709
27	2465	4.86	56.70	13.17	0.3630
28	2419	4.58	50.82	11.26	0.2620
29	2421	4.6	55.45	12.75	0.3252
30	2445	7.51	60.39	12.19	0.5527
31	2438	4.56	56.19	11.09	0.2841
32	2474	7.25	60.78	13.38	0.5894
33	2479	4.53	62.17	12.56	0.3538

34	2477	4.46	64.73	13.38	0.3862
35	2423	4.47	55.04	13.01	0.3201
36	2436	4.37	52.05	10.89	0.2478
37	2491	7.97	43.79	13.27	0.4631
38	2499	7.13	55.83	12.50	0.4977
39	2463	4.69	60.14	12.49	0.3522
40	2464	7.92	62.54	13.32	0.6597
41	2406	7.33	48.86	14.00	0.5014
42	2486	4.78	58.52	15.05	0.4211
43	2468	4.48	58.59	15.28	0.4010
44	2493	4.78	56.23	13.62	0.3661
45	2462	9.45	57.87	14.14	0.7730
46	2435	7.4	52.76	14.03	0.5476
47	2470	7.91	47.14	13.32	0.4967
48	2433	7.54	51.69	12.21	0.4758
49	2444	4.47	59.69	12.73	0.3397
50	2492	4.64	55.93	12.86	0.3336
51	2403	7.61	46.21	12.66	0.4452
52	2471	4.82	50.45	13.99	0.3403
53	2414	7.22	52.27	14.54	0.5487
54	2466	4.36	55.14	14.51	0.3488
55	2401	7.58	57.37	12.64	0.5495
56	2428	4.54	47.55	15.18	0.3278
57	2404	4.54	50.65	14.25	0.3278
58	2498	7.92	51.30	15.20	0.6178
59	2426	4.19	46.16	15.64	0.3025
60	2411	4.65	48.33	15.91	0.3576
61	2427	7.48	47.95	13.74	0.4929
62	2416	4.74	48.62	16.15	0.3721
63	2461	4.68	47.42	14.30	0.3173
64	2410	4.58	51.85	14.12	0.3353
65	2431	4.65	57.78	14.78	0.3971
66	2443	4.44	58.18	11.98	0.3095
67	2485	8.71	62.59	11.44	0.6236
68	2480	4.6	60.67	11.37	0.3174
69	2437	4.64	56.82	11.76	0.3100
70	2452	4.09	57.77	14.06	0.3321
71	2429	7.45	57.27	12.40	0.5290
72	2409	4.59	56.06	11.58	0.2979
73	2415	7.45	51.29	11.74	0.4485
74	2469	4.61	59.63	11.74	0.3227
75	2500	4.72	58.26	12.05	0.3313
76	2434	4.59	61.43	12.78	0.3603
77	2447	7.27	63.18	11.59	0.5322
78	2481	4.37	58.51	13.07	0.3343
79	2440	4.74	54.10	11.09	0.2844
80	2459	4.67	65.70	13.09	0.4016

81	2430	9.11	54.66	10.08	0.5020
82	2449	4.73	62.47	12.77	0.3775
83	2495	7.5	55.11	12.50	0.5167
84	2405	4.52	48.21	12.80	0.2789
85	2412	7.5	56.66	12.14	0.5160
86	2407	9	55.68	11.57	0.5796
87	2424	8.8	58.11	12.60	0.6442
88	2402	7.2	57.96	12.61	0.5263
89	2439	7.56	57.02	11.65	0.5020
90	2455	4.45	62.53	13.51	0.3760
91	2489	4.62	67.64	13.97	0.4366
92	2473	4.71	59.51	13.09	0.3669
93	2417	4.66	54.74	14.29	0.3644
94	2497	4.53	58.04	14.75	0.3878
95	2482	4.71	49.69	14.53	0.3401
96	2488	7.23	49.70	16.54	0.5943
97	2457	4.49	58.45	13.19	0.3462
98	2458	4.3	53.05	13.78	0.3143
99	2494	7.53	47.31	15.18	0.5407
100	2460	7.51	55.09	15.83	0.6549

Date: 18.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 01/11**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	38	9.4	51.67	14.63	0.7106
2	80	7.97	47.81	13.18	0.5021
3	13	8.92	50.84	14.14	0.6413
4	66	9.36	55.12	13.50	0.6964
5	21	9.58	51.25	15.10	0.7415
6	46	9.44	55.44	12.82	0.6712
7	19	8.61	50.39	16.75	0.7267
8	20	8.95	44.75	15.44	0.6184
9	11	9.59	47.49	13.81	0.6291
10	42	9.38	42.80	15.05	0.6041
11	31	8.98	54.22	14.44	0.7031
12	35	9.44	46.47	15.80	0.6929
13	12	9.26	45.79	13.13	0.5565
14	65	9.4	53.85	12.46	0.6307
15	91	8.05	51.06	13.47	0.5538
16	2	9.68	49.74	12.46	0.6002
17	4	9.79	47.15	13.70	0.6324
18	72	7.32	49.97	14.93	0.5461
19	24	8.66	54.24	14.34	0.6737
20	22	8.62	50.55	14.92	0.6499
21	34	7.76	49.34	15.12	0.5789
22	67	9.33	56.79	12.54	0.6643
23	49	9.69	52.14	13.06	0.6599
24	55	9.59	52.47	11.93	0.6003
25	79	9.68	49.51	13.61	0.6524
26	43	9.36	56.55	13.00	0.6880
27	75	9.6	56.78	13.03	0.7104
28	73	9.42	47.87	12.72	0.5737
29	59	9.8	51.16	13.33	0.6684
30	83	8.1	49.58	12.79	0.5135
31	70	9.4	53.24	12.68	0.6345
32	6	8.84	48.33	13.61	0.5817
33	40	7.47	56.44	14.39	0.6066
34	47	9.4	51.66	13.28	0.6448
35	63	4.88	49.54	11.83	0.2860
36	33	9.49	45.51	15.21	0.6567
37	53	9.53	41.07	14.41	0.5642
38	44	9.12	47.73	13.16	0.5727
39	25	7.51	50.77	14.02	0.5347
40	78	4.26	55.74	13.49	0.3204
41	64	9.51	42.77	12.56	0.5107
42	16	9.62	53.37	13.57	0.6965

43	62	9.41	50.19	13.21	0.6239
44	100	4.08	49.75	14.35	0.2913
45	92	9.78	46.49	13.70	0.6230
46	71	9.57	53.25	13.15	0.6699
47	14	9.62	48.49	12.15	0.5666
48	45	9.6	58.78	12.79	0.7219
49	77	8.81	50.30	14.06	0.6229
50	27	7.14	44.60	15.27	0.4862
51	89	7.64	47.75	14.32	0.5226
52	95	3.99	49.71	15.07	0.2989
53	98	4.11	51.15	13.92	0.2926
54	1	8.98	41.23	15.04	0.5568
55	23	4.7	54.59	15.31	0.3929
56	37	4.47	49.78	16.89	0.3759
57	7	9.6	42.91	15.10	0.6221
58	68	7.95	53.41	12.96	0.5501
59	5	9.52	48.89	13.62	0.6340
60	26	9	50.93	14.47	0.6633
61	90	3.99	55.38	12.82	0.2833
62	32	7.55	55.68	13.88	0.5836
63	50	9.92	58.88	13.16	0.7688
64	54	9.98	55.97	10.68	0.5968
65	15	9.51	54.95	12.61	0.6590
66	88	9.68	53.95	12.42	0.6486
67	51	9.1	52.40	12.40	0.5915
68	58	7.7	54.24	12.79	0.5344
69	17	9.56	56.83	12.72	0.6912
70	41	8.65	54.66	14.27	0.6747
71	18	8.85	55.28	13.73	0.6717
72	39	8.73	53.88	12.25	0.5762
73	87	3.98	50.83	11.47	0.2320
74	10	9.67	54.54	11.86	0.6256
75	85	7.77	58.20	12.32	0.5571
76	3	9.05	53.31	11.37	0.5484
77	74	9.32	64.97	12.33	0.7465
78	99	4.03	58.31	11.78	0.2769
79	81	4	52.53	12.62	0.2652
80	84	4.05	54.87	13.41	0.2981
81	56	7.76	58.37	12.63	0.5719
82	82	7.92	54.53	12.23	0.5283
83	48	4.58	47.93	12.52	0.2748
84	57	8.41	59.75	13.17	0.6619
85	28	8.68	53.40	13.93	0.6458
86	76	7.87	61.67	12.91	0.6265
87	69	9.2	62.99	13.70	0.7940
88	8	9.88	58.86	12.54	0.7291
89	93	8.03	57.40	12.77	0.5886

90	97	7.75	54.51	12.03	0.5084
91	61	9.42	45.03	14.70	0.6236
92	52	8.12	49.55	13.68	0.5505
93	94	7.71	45.78	13.06	0.4611
94	96	8	46.41	14.50	0.5384
95	9	9.64	44.32	13.11	0.5601
96	29	7.69	59.54	13.50	0.6183
97	36	7.52	60.06	13.67	0.6174
98	60	7.63	49.40	13.14	0.4952
99	30	7.44	51.57	13.92	0.5342
100	86	7.94	52.62	12.94	0.5407

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 02/12

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	192	7.77	55.31	13.85	0.5952
2	169	9.2	59.47	14.31	0.7829
3	136	8.99	46.77	13.38	0.5628
4	130	4.83	49.95	14.05	0.3391
5	165	4.58	56.88	13.96	0.3637
6	114	4.11	48.65	15.19	0.3037
7	185	4.79	60.88	13.50	0.3937
8	149	4.54	55.47	13.81	0.3478
9	111	3.86	54.12	13.86	0.2895
10	113	3.93	51.70	12.67	0.2574
11	148	9.1	51.64	13.52	0.6352
12	121	9.3	51.75	14.36	0.6910
13	180	9.2	62.87	13.06	0.7553
14	157	7.47	51.28	13.30	0.5095
15	106	4.1	53.41	14.12	0.3091
16	190	7.85	58.16	13.93	0.6358
17	174	9.41	60.14	12.74	0.7208
18	194	9.36	59.77	14.94	0.8358
19	178	7.6	59.67	14.88	0.6749
20	141	7.76	57.55	12.91	0.5766
21	158	9.35	56.00	13.36	0.6994
22	163	8.98	50.10	13.27	0.5972
23	132	9.36	52.97	12.25	0.6075
24	129	4.77	48.65	13.59	0.3153
25	161	9.07	51.69	13.62	0.6385
26	183	9.7	58.90	14.52	0.8294
27	176	4.84	60.41	13.42	0.3925
28	112	8.05	58.22	13.04	0.6110
29	191	4.72	58.40	13.97	0.3852
30	101	3.93	61.28	12.40	0.2987
31	126	9.33	47.66	12.88	0.5729
32	135	4.87	53.45	12.89	0.3355
33	124	8.95	49.33	13.22	0.5835
34	150	9.15	52.40	12.86	0.6167
35	172	4.69	57.80	14.45	0.3916
36	118	7.66	43.57	14.69	0.4902

37	152	9.43	50.43	14.65	0.6969
38	199	8.87	55.56	14.61	0.7202
39	145	9.44	54.84	13.07	0.6768
40	147	8.84	53.72	12.90	0.6126
41	134	7.81	53.04	13.10	0.5428
42	103	3.98	53.01	13.98	0.2949
43	160	7.73	49.13	14.41	0.5473
44	155	7.35	53.30	13.08	0.5123
45	173	4.64	52.37	15.28	0.3712
46	105	4.02	50.28	14.08	0.2846
47	154	7.87	47.61	14.16	0.5304
48	107	4.11	51.91	13.60	0.2902
49	153	7.81	52.80	12.92	0.5326
50	187	4.51	55.39	14.97	0.3739
51	109	4.19	63.70	13.14	0.3507
52	128	7.58	48.99	13.84	0.5139
53	197	7.71	60.24	13.81	0.6415
54	186	7.98	54.41	15.49	0.6727
55	170	7.84	60.84	15.24	0.7268
56	188	4.77	56.69	13.83	0.3740
57	189	4.47	56.77	13.28	0.3370
58	166	4.58	50.37	16.46	0.3797
59	198	4.91	55.10	12.20	0.3300
60	143	7.52	56.17	13.71	0.5790
61	162	8.85	51.98	10.83	0.4983
62	117	8.98	52.13	12.10	0.5666
63	108	9.79	57.27	13.15	0.7372
64	104	3.96	55.08	11.56	0.2523
65	184	4.73	61.79	13.72	0.4011
66	151	9.46	56.95	10.27	0.5534
67	156	9.31	51.60	11.72	0.5633
68	125	4.7	54.11	14.32	0.3642
69	144	4.59	61.72	11.57	0.3277
70	182	8.65	58.64	13.81	0.7006
71	142	8.91	51.96	10.78	0.4990
72	138	9.21	55.51	12.00	0.6134
73	139	9.2	50.40	11.63	0.5391
74	123	9.3	54.50	10.48	0.5310
75	116	7.55	50.88	12.26	0.4711
76	115	4.92	53.16	11.44	0.2991
77	177	9.43	64.95	14.44	0.8845
78	146	9.32	56.14	12.31	0.6440
79	167	8.99	61.11	14.47	0.7947
80	200	7.99	65.88	13.21	0.6951
81	175	9.06	62.48	12.40	0.7022
82	119	8.63	51.30	10.99	0.4867
83	127	9.52	48.95	11.89	0.5541
84	171	7.57	60.23	13.03	0.5942
85	179	7.67	59.69	12.51	0.5729
86	196	7.71	60.55	14.52	0.6777

87	159	9.53	59.13	11.52	0.6490
88	120	8.68	57.72	10.69	0.5356
89	140	7.64	56.22	10.87	0.4668
90	193	4.69	64.40	14.95	0.4516
91	164	7.87	54.10	15.30	0.6516
92	110	3.97	47.02	15.04	0.2807
93	122	4.84	44.25	15.01	0.3214
94	131	4.55	45.80	16.05	0.3344
95	133	7.69	46.03	14.34	0.5075
96	137	4.87	44.95	12.01	0.2630
97	102	4	56.87	13.73	0.3124
98	181	9.32	59.19	14.77	0.8146
99	195	4.81	56.61	14.94	0.4069
100	168	4.49	51.49	15.19	0.3511

Date: 16.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 07/38**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	694	7.3	41.82	17.86	0.5453
2	667	4.67	54.70	14.48	0.3699
3	698	7.66	47.95	14.22	0.5224
4	669	4.63	50.58	14.47	0.3389
5	635	9.25	48.63	13.98	0.6290
6	693	3.88	50.54	11.87	0.2328
7	670	9.42	51.49	13.67	0.6632
8	686	8.16	53.29	12.65	0.5500
9	612	9.59	57.01	13.52	0.7394
10	603	9.29	56.08	13.62	0.7098
11	689	7.76	49.77	14.73	0.5688
12	678	4.57	46.99	15.85	0.3405
13	623	9.2	55.01	12.82	0.6486
14	613	9.44	54.32	13.73	0.7042
15	625	9.42	60.79	14.38	0.8233
16	619	4.77	52.38	13.67	0.3415
17	617	7.72	57.61	13.75	0.6114
18	638	7.19	53.58	12.97	0.4997
19	684	9.18	49.39	13.48	0.6114
20	615	7.91	56.57	13.52	0.6051
21	676	9.27	50.40	14.15	0.6610
22	616	4.63	52.78	14.87	0.3635
23	608	9.19	57.27	13.34	0.7021
24	632	4.6	53.43	13.21	0.3248
25	624	8.01	61.27	13.92	0.6833
26	687	7.69	61.20	13.07	0.6152
27	606	9.59	58.70	14.00	0.7883
28	643	7.71	56.36	13.50	0.5867
29	685	7.96	57.43	13.51	0.6177
30	621	7.7	56.23	13.60	0.5890
31	607	9.19	55.74	12.74	0.6525
32	659	9.44	57.48	13.26	0.7193
33	682	4.66	59.99	12.80	0.3579
34	641	4.84	49.16	13.93	0.3315
35	631	9.54	62.95	13.63	0.8185
36	633	7.72	58.85	13.29	0.6037
37	695	7.53	54.47	15.04	0.6167
38	699	4.88	50.79	14.00	0.3470
39	691	4.79	53.09	12.90	0.3281
40	610	7.57	55.67	13.02	0.5488
41	697	7.75	51.59	13.22	0.5285
42	647	7.16	56.03	13.23	0.5306

43	644	9.22	52.76	14.03	0.6823
44	640	9.29	50.88	13.40	0.6336
45	672	9.19	54.74	14.10	0.7095
46	658	4.67	54.89	14.32	0.3671
47	673	4.68	51.47	12.75	0.3070
48	611	9.31	54.41	13.80	0.6992
49	602	4.78	52.41	14.06	0.3523
50	636	9.18	53.61	13.86	0.6821
51	657	9.34	54.70	13.60	0.6949
52	683	7.79	54.66	13.30	0.5663
53	654	8.92	55.12	14.95	0.7350
54	653	9.43	58.06	12.92	0.7073
55	626	4.65	55.51	13.15	0.3394
56	609	4.53	52.90	14.33	0.3434
57	664	9.45	56.51	14.78	0.7891
58	656	9.02	57.20	12.71	0.6558
59	674	4.81	59.46	14.50	0.4146
60	696	7.69	54.08	14.26	0.5929
61	630	9.52	61.78	13.34	0.7844
62	688	8.01	57.24	14.05	0.6440
63	628	7.58	57.31	13.38	0.5814
64	660	7.64	53.97	13.34	0.5501
65	655	9.34	58.05	13.18	0.7145
66	627	4.69	53.80	14.00	0.3532
67	642	4.7	53.63	13.67	0.3445
68	622	7.75	59.43	13.19	0.6076
69	692	4.71	47.40	13.61	0.3038
70	650	4.69	58.03	12.86	0.3499
71	690	4.69	49.48	14.03	0.3255
72	662	4.67	54.63	15.67	0.3998
73	605	9.34	48.20	14.09	0.6342
74	646	7.67	50.93	14.43	0.5637
75	700	7.7	52.97	13.10	0.5344
76	649	9.02	55.09	13.00	0.6458
77	634	9.27	46.97	12.92	0.5627
78	645	8.75	54.04	12.90	0.6099
79	629	7.82	59.34	12.64	0.5865
80	681	4.63	54.20	12.82	0.3218
81	651	4.55	56.01	14.69	0.3745
82	652	4.76	52.77	15.60	0.3917
83	637	9.13	50.90	15.27	0.7094
84	663	7.75	55.18	14.50	0.6200
85	614	9.09	59.64	14.02	0.7599
86	675	9.04	59.55	12.58	0.6771
87	601	9.32	47.61	16.38	0.7270
88	680	9.25	57.68	13.99	0.7465
89	671	7.71	57.87	12.63	0.5636

90	620	7.88	53.48	14.19	0.5981
91	604	8.01	61.03	11.78	0.5759
92	665	4.61	59.23	14.30	0.3905
93	666	7.61	54.74	13.35	0.5563
94	677	7.76	63.48	12.52	0.6169
95	618	7.79	60.20	13.59	0.6372
96	668	9	56.63	12.73	0.6489
97	661	9.12	58.29	12.64	0.6721
98	679	7.6	59.55	13.37	0.6050
99	648	8.97	52.65	13.14	0.6207
100	639	9.66	56.04	12.58	0.6810

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 08/94

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	757	4.76	52.35	13.43	0.3346
2	762	7.68	62.46	13.74	0.6589
3	715	4.63	50.65	14.22	0.3334
4	780	7.56	53.33	13.54	0.5458
5	709	4.87	53.96	13.86	0.3643
6	708	4.72	49.90	14.07	0.3313
7	783	9.41	48.95	14.93	0.6879
8	776	9.43	43.07	17.32	0.7035
9	710	7.73	52.38	14.39	0.5828
10	774	4.66	55.43	14.11	0.3644
11	766	5.04	54.38	14.91	0.4087
12	733	4.7	54.32	12.96	0.3309
13	769	7.53	53.45	15.55	0.6257
14	753	4.66	50.86	13.94	0.3304
15	739	4.91	52.47	14.39	0.3707
16	724	4.67	45.53	13.27	0.2821
17	731	4.58	47.09	13.08	0.2821
18	727	7.7	49.97	12.53	0.4820
19	717	8.48	58.35	12.37	0.6123
20	736	4.77	56.32	14.08	0.3783
21	760	8.15	63.63	13.66	0.7082
22	775	7.92	49.36	16.31	0.6376
23	713	7.74	53.66	14.44	0.5998
24	788	9.21	54.81	13.72	0.6926
25	771	9.34	49.01	13.22	0.6052
26	791	4.78	56.81	14.75	0.4006
27	714	4.61	59.43	12.96	0.3550
28	749	4.92	56.96	14.04	0.3936
29	758	6.67	61.65	13.12	0.5396
30	728	4.59	54.04	12.90	0.3199
31	785	7.75	55.35	15.10	0.6479
32	729	3.89	57.36	12.62	0.2816
33	787	4.55	55.23	14.50	0.3645
34	746	7.56	60.88	13.68	0.6297
35	770	3.68	58.33	13.10	0.2812
36	722	4.93	55.09	12.47	0.3387

37	702	7.56	54.23	14.51	0.5950
38	718	3.88	49.93	13.64	0.2642
39	756	7.92	55.26	13.03	0.5702
40	705	4.73	59.03	13.69	0.3822
41	793	8.05	58.25	14.33	0.6722
42	725	4.71	53.42	13.93	0.3504
43	740	4	50.07	13.88	0.2780
44	720	4.86	56.74	12.07	0.3329
45	765	7.5	59.74	14.21	0.6368
46	761	7.96	61.63	13.03	0.6392
47	755	7.68	60.46	15.33	0.7119
48	704	4.58	51.04	13.48	0.3151
49	711	4.64	58.26	12.99	0.3512
50	798	4.62	62.49	13.01	0.3756
51	726	7.98	53.55	13.35	0.5706
52	763	7.44	63.36	13.56	0.6391
53	743	7.53	61.15	14.06	0.6476
54	800	4.81	49.84	15.27	0.3660
55	797	4.55	54.70	15.36	0.3822
56	790	7.5	54.70	15.78	0.6473
57	751	4.67	55.30	15.71	0.4058
58	744	4.82	63.43	14.00	0.4280
59	784	7.6	57.14	13.95	0.6057
60	786	4.76	53.22	15.56	0.3941
61	721	4.68	52.70	12.58	0.3103
62	777	7.84	49.02	14.50	0.5574
63	748	4.6	58.98	14.78	0.4011
64	730	7.79	56.34	13.17	0.5780
65	754	4.74	58.47	13.67	0.3787
66	764	5.06	61.83	12.78	0.3997
67	716	4.68	49.66	13.43	0.3122
68	799	7.79	55.63	15.42	0.6684
69	795	7.42	55.36	15.91	0.6537
70	738	4.46	48.31	16.00	0.3448
71	741	7.77	54.30	14.81	0.6247
72	734	8.19	54.23	12.94	0.5749
73	735	4.74	55.55	14.19	0.3735
74	768	3.4	46.92	16.30	0.2601
75	779	7.46	50.03	14.09	0.5259
76	782	9.63	46.48	14.50	0.6491
77	773	9.5	48.69	15.32	0.7087
78	789	8.65	55.18	14.35	0.6851
79	794	9.26	55.94	12.92	0.6695
80	796	9.15	51.78	13.81	0.6542
81	745	4.74	58.75	13.63	0.3797
82	792	4.66	51.99	16.02	0.3882
83	772	7.58	45.44	14.79	0.5094
84	701	4.67	45.54	15.96	0.3395
85	712	7.36	51.23	15.38	0.5800
86	747	4.77	58.01	14.43	0.3992

87	703	4.74	55.35	12.99	0.3408
88	781	7.64	58.78	14.83	0.6662
89	759	7.42	57.70	13.78	0.5899
90	742	7.99	55.73	13.13	0.5849
91	719	4.51	59.81	13.01	0.3509
92	732	4.73	61.52	13.15	0.3827
93	707	7.92	57.69	13.19	0.6027
94	706	4.87	59.25	12.61	0.3638
95	752	4.74	61.70	15.22	0.4451
96	778	9.09	57.12	14.39	0.7472
97	750	7.28	57.99	13.67	0.5773
98	723	4.79	57.81	12.94	0.3583
99	767	4.67	51.30	12.01	0.2877
100	737	6.64	50.52	11.84	0.3971

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 45/323

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4463	4.29	58.62	13.82	0.3475
2	4484	7.32	55.42	14.31	0.5805
3	4485	7.66	58.42	13.56	0.6067
4	4447	4.6	51.20	13.03	0.3068
5	4494	3.43	59.84	14.22	0.2919
6	4454	7.24	44.60	16.32	0.5271
7	4461	4.26	58.15	13.19	0.3267
8	4442	4.55	58.07	15.67	0.4141
9	4466	4.45	46.60	16.80	0.3484
10	4482	7.53	41.55	17.67	0.5527
11	4417	7.49	59.04	14.19	0.6277
12	4460	7.4	55.81	12.61	0.5210
13	4446	3.81	48.43	16.58	0.3059
14	4427	4.14	39.29	17.64	0.2869
15	4405	4.49	50.51	15.24	0.3457
16	4402	4.39	47.12	15.13	0.3130
17	4448	4.09	48.92	16.19	0.3239
18	4450	4.27	49.26	13.89	0.2921
19	4401	4.32	48.13	15.77	0.3279
20	4439	5.14	34.35	15.43	0.2724
21	4409	4.31	56.77	14.11	0.3452
22	4449	4.14	50.06	14.34	0.2973
23	4403	7.43	51.63	14.70	0.5639
24	4500	4.52	55.13	14.02	0.3494
25	4438	4.65	47.63	15.66	0.3469
26	4497	7.54	43.23	15.17	0.4946
27	4420	4.38	62.42	12.88	0.3522
28	4477	4.23	51.37	14.13	0.3071
29	4423	4.29	59.65	15.02	0.3844
30	4490	4.22	62.49	13.39	0.3532
31	4416	7.56	63.03	12.66	0.6033
32	4444	7.92	51.77	14.87	0.6098
33	4425	7.3	49.40	15.47	0.5577

34	4429	7.09	50.53	14.53	0.5204
35	4440	4.67	52.97	15.46	0.3825
36	4472	7.48	43.08	15.41	0.4967
37	4487	8.38	58.02	14.84	0.7215
38	4432	7.6	49.65	15.75	0.5943
39	4411	4.42	55.07	14.98	0.3647
40	4480	7.52	60.00	14.35	0.6475
41	4493	4.5	56.75	14.63	0.3735
42	4453	7.37	52.95	13.11	0.5115
43	4456	7.31	55.43	16.07	0.6513
44	4455	7.41	56.73	15.07	0.6336
45	4412	7.34	58.37	14.27	0.6114
46	4465	8.93	47.33	15.02	0.6349
47	4495	8.59	60.32	13.20	0.6838
48	4489	7.27	61.49	13.40	0.5990
49	4410	4.4	55.05	15.80	0.3828
50	4404	7.29	58.46	12.98	0.5533
51	4437	7.46	46.72	17.77	0.6192
52	4426	7.41	48.38	16.64	0.5965
53	4475	7.46	46.40	15.84	0.5483
54	4486	7.19	58.61	15.10	0.6363
55	4413	4.4	48.70	15.79	0.3384
56	4473	3.93	47.63	13.46	0.2519
57	4459	7.34	54.15	14.48	0.5755
58	4445	7.53	42.70	15.22	0.4895
59	4433	7.48	52.55	14.54	0.5715
60	4408	4.32	52.19	13.60	0.3067
61	4470	3.99	54.85	14.91	0.3264
62	4407	4.46	54.93	15.13	0.3706
63	4435	4.52	52.18	16.90	0.3987
64	4428	4.91	44.38	16.34	0.3560
65	4418	4.5	59.81	13.23	0.3560
66	4464	3.52	60.10	12.83	0.2714
67	4421	7.39	59.80	13.61	0.6015
68	4496	7.23	60.19	14.04	0.6109
69	4424	7.64	46.28	15.06	0.5325
70	4498	4.5	40.11	15.31	0.2763
71	4457	4.17	56.46	15.07	0.3549
72	4441	3.56	54.71	16.58	0.3229
73	4406	4.34	46.50	14.97	0.3021
74	4415	7.31	48.94	15.65	0.5599
75	4419	4.59	61.57	12.28	0.3470
76	4430	4.71	49.35	14.57	0.3386
77	4458	4.42	61.56	11.60	0.3156
78	4443	7.53	55.76	14.53	0.6099
79	4492	8.54	54.92	14.58	0.6841
80	4474	8.47	52.17	14.84	0.6556
81	4434	7.68	58.93	15.14	0.6851
82	4462	4.64	58.65	12.45	0.3387
83	4468	7.72	50.00	15.42	0.5952

84	4467	7.12	45.94	15.17	0.4963
85	4414	7.39	56.64	15.45	0.6466
86	4436	4.31	50.07	14.74	0.3181
87	4499	4.26	48.33	10.22	0.2104
88	4481	7.2	58.93	15.12	0.6415
89	4483	8.65	61.75	14.64	0.7820
90	4431	7.29	50.38	14.49	0.5322
91	4469	7.42	57.20	12.45	0.5283
92	4451	4.54	53.06	14.40	0.3469
93	4488	8.09	60.32	13.00	0.6343
94	4471	4.04	54.30	13.22	0.2901
95	4479	8.39	51.11	12.68	0.5437
96	4478	6.94	48.15	14.89	0.4976
97	4476	7.55	52.11	14.93	0.5874
98	4452	7.49	47.20	14.39	0.5086
99	4491	7.43	57.62	13.55	0.5803
100	4422	7.34	69.57	13.73	0.7010

Date: 12.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 43/498**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4254	4.02	54.57	13.76	0.3019
2	4232	8.2	61.42	15.34	0.7724
3	4226	8.03	48.57	14.93	0.5822
4	4228	4.01	51.08	13.12	0.2687
5	4261	7.44	50.93	14.78	0.5602
6	4292	7.2	58.07	13.26	0.5544
7	4211	7.02	39.24	16.77	0.4619
8	4243	7.94	59.38	14.85	0.7003
9	4224	6.98	54.73	15.20	0.5807
10	4231	8.28	62.83	14.17	0.7369
11	4268	4.26	56.92	13.48	0.3267
12	4223	4.15	64.74	13.75	0.3694
13	4218	4.14	59.17	13.25	0.3246
14	4245	4.16	65.53	14.77	0.4027
15	4221	8.33	53.28	15.18	0.6739
16	4229	7.06	59.33	14.98	0.6276
17	4251	7.34	59.87	14.05	0.6173
18	4219	6.65	48.59	15.60	0.5041
19	4265	7.66	60.91	13.77	0.6427
20	4291	6.98	56.62	13.55	0.5354
21	4249	4.19	48.75	16.45	0.3360
22	4290	4.24	59.49	12.67	0.3197
23	4294	4.43	61.08	12.84	0.3473
24	4282	4.29	61.31	12.79	0.3363
25	4216	7.8	55.80	14.16	0.6162
26	4269	3.42	51.74	14.36	0.2541
27	4293	4.21	53.07	13.02	0.2909
28	4283	4.19	60.58	14.74	0.3742
29	4281	6.81	62.86	14.24	0.6095
30	4255	7.01	54.48	14.43	0.5510
31	4227	4.21	58.98	14.95	0.3713
32	4276	7.24	52.33	14.73	0.5582
33	4295	7.04	54.34	13.21	0.5055
34	4206	6.81	54.21	13.32	0.4917
35	4201	3.68	53.25	13.22	0.2591
36	4260	6.56	55.62	12.68	0.4625
37	4237	4.22	58.17	15.02	0.3688
38	4258	6.72	51.75	14.96	0.5201
39	4284	7.23	60.95	15.75	0.6941
40	4270	4.01	58.55	10.85	0.2546
41	4233	3.79	52.12	14.41	0.2846
42	4253	3.97	51.89	12.39	0.2553

43	4299	4.39	61.70	13.16	0.3565
44	4247	4.44	62.39	12.98	0.3596
45	4204	3.96	51.91	14.12	0.2903
46	4267	6.81	49.46	14.38	0.4842
47	4279	7.33	61.22	12.37	0.5549
48	4300	4.27	60.07	13.17	0.3378
49	4297	4.36	58.92	13.24	0.3401
50	4210	4.33	33.65	16.82	0.2451
51	4271	3.51	54.28	13.54	0.2580
52	4259	6.9	51.08	14.02	0.4940
53	4248	4.19	50.60	14.11	0.2992
54	4273	4.45	59.27	12.87	0.3395
55	4257	3.06	53.46	14.31	0.2341
56	4242	7.15	57.99	12.78	0.5298
57	4212	4.06	49.43	14.20	0.2850
58	4202	3.6	54.94	13.60	0.2689
59	4222	3.91	51.32	15.92	0.3194
60	4272	4.27	53.32	14.74	0.3356
61	4217	6.92	54.89	16.07	0.6103
62	4234	3.58	51.13	13.96	0.2556
63	4220	4.31	55.01	12.27	0.2909
64	4286	4.28	43.23	14.50	0.2684
65	4215	4.17	55.05	14.53	0.3336
66	4288	7.23	46.85	13.02	0.4410
67	4277	8.25	62.68	13.31	0.6880
68	4235	6.69	62.57	12.88	0.5392
69	4252	6.82	50.42	14.00	0.4815
70	4207	7.08	52.73	14.66	0.5473
71	4241	8.16	56.25	16.76	0.7695
72	4205	7.36	52.65	14.13	0.5476
73	4289	7.05	50.89	14.17	0.5083
74	4285	7.13	68.72	13.64	0.6681
75	4214	8.72	52.38	15.43	0.7046
76	4225	3.08	48.85	14.82	0.2230
77	4298	7.17	56.15	12.68	0.5105
78	4236	8.29	62.21	15.34	0.7909
79	4238	6.87	57.40	14.84	0.5853
80	4263	4.01	50.35	13.55	0.2735
81	4213	6.18	53.12	14.08	0.4623
82	4240	4.11	55.18	14.28	0.3239
83	4278	4.1	49.48	14.51	0.2944
84	4266	6.38	48.31	14.63	0.4511
85	4262	4	54.78	14.57	0.3192
86	4230	3.94	54.14	14.89	0.3176
87	4246	4.02	56.82	14.40	0.3288
88	4250	4.42	46.59	16.03	0.3302
89	4203	4.47	54.91	13.02	0.3196

90	4275	4.25	59.45	14.08	0.3557
91	4264	4.18	50.36	16.24	0.3419
92	4208	6.67	54.80	14.49	0.5296
93	4287	7.08	49.63	14.04	0.4935
94	4280	6.86	57.19	15.61	0.6126
95	4209	7.68	50.48	14.62	0.5668
96	4239	8.45	59.54	14.01	0.7047
97	4244	7.16	62.65	13.90	0.6236
98	4256	4.11	54.61	10.88	0.2441
99	4296	4.24	62.17	12.53	0.3303
100	4274	6.93	61.64	12.74	0.5440

Date: 06.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 39/494**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3801	9.51	55.98	13.2	0.7028
2	3802	8.85	54.19	15.74	0.7549
3	3803	7.39	58.79	14.36	0.6237
4	3804	9.02	58.03	12.34	0.6458
5	3805	7.64	62.83	12.3	0.5906
6	3806	9.23	55.71	12.91	0.6636
7	3807	4.46	51.62	15.01	0.3456
8	3808	7.65	51.95	13.88	0.5516
9	3809	9.32	56.62	12.52	0.6608
10	3810	7.61	58.35	12.66	0.5624
11	3811	9.11	60.81	12.02	0.6659
12	3812	7.06	60.65	14.82	0.6347
13	3813	7.74	62.18	11.69	0.5627
14	3814	7.8	53.22	13.42	0.5569
15	3815	9.28	63.3	12.23	0.7183
16	3816	9.29	64.29	14.92	0.8909
17	3817	4.12	46.66	13.16	0.253
18	3818	6.85	50.02	13.25	0.4542
19	3819	7.07	57.16	14.87	0.601
20	3820	7.59	50.2	12.25	0.4668
21	3821	4.15	55	13.82	0.3154
22	3822	6.9	52.71	14.15	0.5147
23	3823	7.15	49.52	13.29	0.4705
24	3824	8.55	52.01	13.82	0.6147
25	3825	4.24	60	12.97	0.3299
26	3826	7.14	53.87	14	0.5384
27	3827	5.91	46.42	14.28	0.3918
28	3828	3.21	49.42	14.65	0.2324
29	3829	7.39	48.63	13.88	0.4988
30	3830	6.96	53.1	14.73	0.5443
31	3831	7.23	51.7	14.93	0.5582
32	3832	7.19	56.5	13.63	0.5536
33	3833	7.02	52.48	14.16	0.5216
34	3834	8.98	57.55	12.32	0.6367
35	3835	7.4	55.84	13.79	0.5698
36	3836	4.38	63.36	13.38	0.3714
37	3837	7.38	56.77	13.86	0.5808
38	3838	9.06	55.34	13.68	0.6858
39	3839	7.23	51.64	15.86	0.5921
40	3840	4.45	58.65	12.41	0.324
41	3841	9.35	58.17	13.63	0.7415
42	3842	7.63	59.71	13.3	0.6058

43	3843	7.03	49.79	12.49	0.4373
44	3844	8.81	53.52	14.72	0.6942
45	3845	7.3	59.97	13.12	0.5745
46	3846	4.06	60.56	13.89	0.3414
47	3847	6.97	57.02	13.64	0.5423
48	3848	4.72	57.33	14.02	0.3795
49	3849	8.73	54.74	14.6	0.6975
50	3850	4.35	63.91	12.35	0.3432
51	3851	4.31	61.79	12.88	0.3431
52	3852	7.2	57.72	12.7	0.5278
53	3853	4.3	60.01	14.61	0.3771
54	3854	6.41	60.3	12.54	0.4846
55	3855	4.64	63.36	10.35	0.3044
56	3856	2.52	59.82	15.33	0.2311
57	3857	7.11	54.25	12.92	0.4984
58	3858	7.11	42.34	15.47	0.4657
59	3859	7.06	55.92	14	0.5528
60	3860	7.01	57.89	13.23	0.537
61	3861	7.25	56.64	13.97	0.5735
62	3862	4.59	50.88	14.54	0.3397
63	3863	6.26	51.39	15.74	0.5064
64	3864	8.44	58.11	12.24	0.6001
65	3865	6.88	46.56	13.62	0.4362
66	3866	7.55	51.14	16.23	0.6267
67	3867	7.15	61.4	13.86	0.6085
68	3868	4.24	63.44	13.48	0.3625
69	3869	7.19	54.34	12.5	0.4882
70	3870	7.34	61.89	12.73	0.5784
71	3871	7.3	61.69	13.18	0.5935
72	3872	7.17	61.67	12.97	0.5736
73	3873	8.47	61.4	12.74	0.6624
74	3874	4.52	61.53	13.2	0.367
75	3875	3.96	63.58	12.68	0.3192
76	3876	8.3	64.74	12.88	0.6922
77	3877	7.48	50.1	13.23	0.4959
78	3878	4.46	60.76	11.78	0.3193
79	3879	4.21	56.21	13.11	0.3103
80	3880	7.53	65.36	13.54	0.6664
81	3881	7.27	60.17	14.19	0.6209
82	3882	4.15	58.94	12.69	0.3104
83	3883	7.05	57.25	13.24	0.5344
84	3884	4.3	53.95	12.79	0.2967
85	3885	7.01	63.26	13.33	0.5909
86	3886	8.47	62.65	13.41	0.7115
87	3887	7.09	63.26	12.84	0.5757
88	3888	4.03	65.93	13.39	0.3558
89	3889	7.94	60.03	14.86	0.7082

90	3890	7.15	61.81	12.36	0.5463
91	3891	8.39	54.01	13.52	0.6125
92	3892	8.33	70.64	13.32	0.7839
93	3893	7.38	67.22	12.26	0.6081
94	3894	8.45	70.2	12.92	0.7664
95	3895	7	68.62	11.73	0.5635
96	3896	7	66.45	15.26	0.7098
97	3897	6.86	70.17	13.6	0.6544
98	3898	7.37	68.17	14.51	0.7289
99	3899	7.29	66.97	13.44	0.6561
100	3900	7.1	72.09	13.36	0.6837

Date: 05.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 33/482**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3211	7.53	37.09	14.07	0.3931
2	3293	7.52	55.71	14.47	0.6061
3	3228	8.81	56.63	14.37	0.7171
4	3287	6.47	47.27	16.52	0.5053
5	3241	4.19	64.86	13.69	0.3721
6	3251	3.76	43.92	15.94	0.2632
7	3283	7.62	60.75	12.15	0.5624
8	3205	7.26	61.54	15.29	0.6832
9	3223	9.4	59.25	13.42	0.7473
10	3215	3.79	61.32	12.64	0.2937
11	3291	8.89	53.96	15.01	0.7201
12	3280	7.48	53.20	14.34	0.5707
13	3266	7.36	38.06	14.77	0.4136
14	3246	3.11	36.89	14.69	0.1686
15	3202	7.35	46.29	14.65	0.4983
16	3288	7.45	55.94	12.53	0.5222
17	3295	7.26	52.72	14.64	0.5605
18	3235	8.8	58.29	13.47	0.6908
19	3249	6.69	47.99	13.34	0.4282
20	3272	7.69	44.08	13.79	0.4676
21	3231	8.33	47.22	13.60	0.5348
22	3279	7.42	49.55	14.95	0.5498
23	3213	7.5	44.52	12.06	0.4028
24	3230	8.42	48.97	14.62	0.6029
25	3227	4.44	54.18	13.86	0.3334
26	3262	6.83	49.92	13.90	0.4740
27	3209	4.38	59.84	10.01	0.2624
28	3289	7.76	54.32	14.53	0.6123
29	3294	7.55	62.70	13.16	0.6229
30	3292	7.52	52.43	14.72	0.5805
31	3221	4.56	57.43	12.54	0.3283
32	3261	6.74	44.17	13.97	0.4159
33	3244	4.22	41.73	14.40	0.2536
34	3201	7.12	49.63	15.92	0.5625
35	3281	8.63	56.63	13.90	0.6792
36	3253	6.94	39.38	16.12	0.4407
37	3218	9.85	38.88	14.04	0.5378
38	3239	6.95	50.91	14.57	0.5157
39	3225	6.81	47.76	12.88	0.4188
40	3258	6.67	35.90	16.18	0.3875
41	3233	8.29	55.40	14.77	0.6781
42	3270	6.81	45.40	14.05	0.4345

43	3290	8.76	45.60	15.00	0.5992
44	3242	6.46	37.25	13.42	0.3230
45	3207	8.63	62.03	13.88	0.7430
46	3274	7.99	53.95	13.83	0.5961
47	3252	4.3	50.60	12.35	0.2688
48	3229	6.04	55.22	13.04	0.4349
49	3214	3.94	42.86	14.54	0.2455
50	3256	4.43	59.45	13.49	0.3553
51	3300	7.51	53.53	13.81	0.5550
52	3265	6.88	46.67	15.19	0.4878
53	3255	8.77	52.10	13.70	0.6262
54	3220	7.71	48.05	13.59	0.5035
55	3296	7.78	58.92	12.90	0.5913
56	3224	8.76	49.97	13.45	0.5887
57	3276	8.52	54.12	14.67	0.6765
58	3273	5.87	52.16	12.19	0.3733
59	3282	9.39	52.01	13.56	0.6620
60	3217	7.72	44.90	14.97	0.5188
61	3208	7.31	49.89	13.61	0.4963
62	3257	8.05	45.57	14.53	0.5329
63	3254	6.17	47.37	15.64	0.4572
64	3245	6.96	44.56	14.41	0.4468
65	3212	7.05	41.02	14.38	0.4160
66	3297	9.15	55.29	13.26	0.6707
67	3237	7.19	56.30	12.91	0.5227
68	3222	7.76	45.50	13.36	0.4718
69	3226	4.3	55.58	11.28	0.2696
70	3206	8.48	51.75	13.93	0.6114
71	3268	6.85	45.55	13.79	0.4302
72	3264	7.06	51.62	13.23	0.4822
73	3278	9.04	52.22	14.06	0.6635
74	3285	8.68	52.57	13.89	0.6336
75	3284	7.38	50.71	14.77	0.5528
76	3248	6.7	40.07	15.07	0.4047
77	3277	7.44	55.89	13.63	0.5669
78	3298	7.72	59.67	13.12	0.6045
79	3263	7.01	39.66	16.09	0.4472
80	3238	6.61	53.35	14.92	0.5262
81	3250	8.05	46.17	13.43	0.4991
82	3271	6.25	45.94	15.43	0.4431
83	3216	4.62	42.19	14.43	0.2814
84	3232	8.51	54.64	14.90	0.6927
85	3275	7.29	49.73	14.26	0.5169
86	3267	8.61	43.22	11.78	0.4382
87	3234	8.78	57.48	13.60	0.6866
88	3204	7.83	53.83	13.84	0.5833
89	3259	6.3	45.22	15.41	0.4391

90	3210	6.41	52.09	14.19	0.4737
91	3219	9.69	43.89	14.58	0.6202
92	3299	4.61	53.47	12.29	0.3029
93	3243	6.7	36.19	13.82	0.3350
94	3203	7.13	43.57	13.54	0.4207
95	3240	6.62	46.84	14.35	0.4449
96	3260	4.32	42.72	14.68	0.2709
97	3247	7.17	31.26	15.00	0.3363
98	3269	3.96	52.97	13.12	0.2752
99	3286	7.64	50.01	14.38	0.5493
100	3236	8.72	49.30	15.35	0.6601

Date: 04.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 46/324**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4570	6.88	53.71	16.27	0.6013
2	4546	4.44	53.39	13.13	0.3112
3	4523	3.56	53.13	12.97	0.2453
4	4542	4.34	53.61	14.12	0.3285
5	4562	4.81	52.07	12.68	0.3175
6	4521	4.1	49.25	15.43	0.3116
7	4520	7.3	43.56	15.38	0.4891
8	4518	4.31	54.74	14.52	0.3426
9	4525	3.99	44.28	13.96	0.2466
10	4545	7.62	52.05	13.64	0.5410
11	4506	4.48	58.81	14.98	0.3947
12	4509	4.61	51.45	12.21	0.2895
13	4583	4.36	56.72	12.99	0.3213
14	4536	4.68	50.92	13.71	0.3267
15	4597	4.53	51.23	14.07	0.3266
16	4514	4.44	57.47	14.51	0.3703
17	4510	4.44	62.51	13.41	0.3721
18	4584	7.43	61.06	14.13	0.6412
19	4531	3.63	53.21	16.95	0.3274
20	4526	3.96	69.21	12.43	0.3406
21	4552	4.17	48.59	17.14	0.3474
22	4572	4.35	53.96	14.16	0.3323
23	4596	4.38	50.58	14.67	0.3250
24	4541	4.19	57.93	13.83	0.3356
25	4524	3.91	48.56	17.65	0.3351
26	4529	8.88	49.91	15.83	0.7015
27	4561	4.17	47.43	16.85	0.3332
28	4574	7.41	59.91	14.47	0.6424
29	4557	4.2	54.32	16.40	0.3742
30	4567	4.48	60.46	14.21	0.3848
31	4581	4.42	52.34	13.57	0.3138
32	4579	4.27	58.23	15.89	0.3950
33	4560	7.58	57.94	15.88	0.6974
34	4527	7.6	49.06	15.25	0.5685
35	4592	4.27	44.59	14.42	0.2746
36	4558	4.74	47.88	14.26	0.3237
37	4576	4.55	55.46	14.57	0.3676
38	4569	4.19	49.08	15.04	0.3092
39	4538	4.44	56.35	13.31	0.3330
40	4517	4.8	67.57	12.61	0.4090
41	4511	4.19	64.20	15.65	0.4211
42	4575	4.23	58.56	15.32	0.3794

43	4537	7.54	43.41	19.17	0.6273
44	4573	6.9	54.49	16.35	0.6148
45	4580	4.48	49.03	15.95	0.3503
46	4505	4.54	53.72	13.87	0.3382
47	4547	4.45	46.62	13.75	0.2852
48	4504	7.55	54.19	14.63	0.5987
49	4564	7.63	58.70	15.49	0.6936
50	4598	4.52	59.07	14.63	0.3905
51	4553	7.36	37.58	16.10	0.4453
52	4501	4.29	51.00	14.35	0.3140
53	4539	8.44	42.37	14.54	0.5199
54	4530	4.52	49.99	16.92	0.3824
55	4578	4.6	52.99	13.66	0.3330
56	4586	4.45	63.51	12.66	0.3578
57	4519	4.04	47.48	15.75	0.3022
58	4551	4.44	40.28	17.43	0.3117
59	4594	4.57	50.05	14.07	0.3217
60	4516	7.38	61.53	14.46	0.6568
61	4585	4.56	57.92	13.98	0.3694
62	4577	4.5	62.92	12.36	0.3501
63	4535	4.83	52.27	13.28	0.3352
64	4522	4.34	55.86	15.70	0.3806
65	4512	7.24	60.52	13.48	0.5908
66	4515	4.23	64.62	13.99	0.3824
67	4540	4.21	45.79	15.90	0.3065
68	4590	4.27	60.10	15.27	0.3920
69	4587	4.41	58.08	13.95	0.3572
70	4532	4.16	50.16	14.97	0.3124
71	4513	4.87	65.36	12.41	0.3950
72	4556	4.36	56.31	14.65	0.3597
73	4559	7.07	50.36	15.13	0.5387
74	4554	4.65	51.39	13.37	0.3195
75	4565	4.59	62.93	13.05	0.3768
76	4502	3.49	55.20	16.29	0.3138
77	4582	4.35	41.93	15.84	0.2888
78	4508	4.41	51.49	13.85	0.3144
79	4549	4.65	55.77	15.28	0.3962
80	4589	4.48	58.40	14.11	0.3692
81	4593	4.22	57.74	14.13	0.3444
82	4548	6.91	49.81	15.84	0.5452
83	4566	4.62	53.67	16.15	0.4006
84	4563	7.2	55.98	15.22	0.6134
85	4528	7.61	47.01	15.44	0.5525
86	4544	4.29	64.59	13.97	0.3870
87	4600	7.53	57.20	14.30	0.6160
88	4533	4.39	55.71	12.69	0.3104
89	4595	4.58	55.04	14.43	0.3637

90	4503	8.14	54.04	12.27	0.5397
91	4571	6.86	52.74	15.40	0.5570
92	4550	4.38	50.01	11.28	0.2470
93	4599	7.14	62.57	14.66	0.6547
94	4588	4.38	60.73	14.31	0.3806
95	4543	7.36	64.37	13.78	0.6528
96	4568	6.92	40.54	15.22	0.4270
97	4591	4.26	49.10	14.85	0.3106
98	4534	4.56	60.10	13.01	0.3566
99	4555	4.23	57.45	14.13	0.3435
100	4507	4.56	58.57	13.37	0.3570

Date: 02.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 24/362**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2372	4.54	51.32	13.17	0.3069
2	2369	4.24	54.65	14.84	0.3439
3	2394	4.84	47.96	15.66	0.3635
4	2398	4.52	49.47	14.53	0.3250
5	2340	4.66	60.57	12.04	0.3397
6	2370	7.34	57.16	14.40	0.6041
7	2322	7.84	57.21	13.49	0.6052
8	2344	8.93	57.04	14.31	0.7287
9	2326	4.71	57.73	13.98	0.3801
10	2302	4.5	55.73	13.51	0.3389
11	2377	4.35	44.83	13.83	0.2697
12	2321	7.7	54.51	13.45	0.5644
13	2393	4.49	54.83	14.41	0.3547
14	2304	4.7	56.67	13.34	0.3553
15	2314	4.75	59.30	12.68	0.3572
16	2319	9.1	52.29	13.18	0.6270
17	2366	8.69	61.23	12.84	0.6830
18	2387	7.88	52.83	13.70	0.5705
19	2330	8.96	57.76	13.37	0.6917
20	2315	9.32	56.89	12.85	0.6813
21	2351	4.7	55.13	12.35	0.3201
22	2374	4.36	41.94	13.16	0.2407
23	2316	4.77	58.44	13.07	0.3644
24	2303	4.61	61.67	12.28	0.3490
25	2357	4.53	59.37	13.51	0.3633
26	2306	9.21	54.34	14.11	0.7064
27	2339	8.8	47.25	12.76	0.5306
28	2373	7.65	44.11	15.10	0.5095
29	2327	9.61	52.13	13.72	0.6871
30	2400	7.85	59.46	13.54	0.6319
31	2324	4.78	57.38	12.60	0.3456
32	2381	7.76	50.46	13.95	0.5463
33	2385	4.86	53.83	13.25	0.3465
34	2367	4.16	61.80	14.82	0.3811
35	2382	7.55	44.83	14.23	0.4817
36	2380	7.36	46.45	14.19	0.4850
37	2320	4.69	56.98	12.90	0.3447
38	2378	7.07	43.40	15.28	0.4687
39	2356	4.54	58.26	13.01	0.3441
40	2364	4.69	58.32	12.07	0.3302
41	2313	7.82	52.92	14.63	0.6053
42	2371	4.25	59.77	13.99	0.3553

43	2353	4.58	61.25	12.91	0.3623
44	2362	4.48	55.02	13.01	0.3208
45	2307	4.74	56.72	11.87	0.3190
46	2392	8.91	49.48	14.13	0.6228
47	2376	4.63	53.35	13.55	0.3347
48	2375	4.54	50.62	13.77	0.3164
49	2343	4.83	55.40	13.38	0.3579
50	2333	4.75	49.19	14.01	0.3273
51	2361	9	58.30	13.57	0.7119
52	2334	7.63	55.11	14.12	0.5936
53	2332	9.21	55.71	15.31	0.7856
54	2386	7.72	52.72	13.49	0.5489
55	2368	8.96	58.27	14.72	0.7688
56	2397	7.54	51.89	14.18	0.5549
57	2399	4.72	55.53	14.32	0.3752
58	2355	7.49	53.71	13.50	0.5430
59	2396	4.58	53.60	12.00	0.2945
60	2311	4.77	58.74	13.99	0.3921
61	2309	4.69	58.33	11.98	0.3278
62	2331	4.82	59.35	12.94	0.3702
63	2363	7.69	63.75	13.79	0.6760
64	2389	4.47	50.40	13.53	0.3049
65	2388	4.51	49.83	15.97	0.3590
66	2365	4.53	60.07	13.00	0.3538
67	2352	4.6	57.04	12.64	0.3317
68	2336	4.83	53.70	13.24	0.3434
69	2390	4.52	48.13	13.59	0.2956
70	2323	7.74	52.27	12.32	0.4985
71	2335	4.71	50.37	13.60	0.3226
72	2349	7.52	50.53	13.97	0.5309
73	2383	4.55	53.43	13.66	0.3322
74	2359	4.77	63.79	13.62	0.4145
75	2391	4.49	50.53	14.82	0.3363
76	2360	4.52	58.05	13.75	0.3607
77	2350	4.63	58.15	13.79	0.3713
78	2358	7.65	54.21	13.82	0.5730
79	2354	7.53	55.28	13.78	0.5738
80	2347	4.54	51.58	14.40	0.3373
81	2328	7.69	50.69	14.24	0.5552
82	2301	4.66	59.39	13.15	0.3639
83	2312	7.62	53.15	14.13	0.5723
84	2305	4.84	56.19	12.01	0.3267
85	2318	4.74	55.25	13.25	0.3470
86	2384	4.67	48.67	13.15	0.2989
87	2345	7.58	54.19	14.49	0.5950
88	2329	7.8	54.20	13.36	0.5647
89	2338	4.43	51.60	13.86	0.3167

90	2341	4.63	57.25	13.29	0.3523
91	2325	7.78	53.61	13.77	0.5742
92	2346	4.86	58.37	13.41	0.3805
93	2308	4.48	61.59	13.67	0.3772
94	2342	7.62	53.59	14.24	0.5814
95	2337	4.65	56.48	13.44	0.3529
96	2395	9.13	57.35	13.44	0.7039
97	2348	9.23	54.85	13.33	0.6747
98	2310	9.4	57.12	12.50	0.6712
99	2317	8.68	56.55	12.75	0.6258
100	2379	8.42	40.01	14.92	0.5027

Date: 25.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 30/368**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2984	4.57	52.20	12.66	0.3021
2	2954	4.74	57.37	12.74	0.3465
3	2958	4.86	52.57	14.32	0.3660
4	2934	8.06	58.97	12.89	0.6126
5	2916	2	59.06	13.90	0.1642
6	2947	7.93	58.41	13.82	0.6400
7	2964	4.85	58.93	14.51	0.4147
8	2960	7.41	59.57	12.47	0.5506
9	2910	7.84	55.81	13.81	0.6045
10	2997	7.68	58.87	13.20	0.5967
11	2922	4.65	57.55	12.70	0.3399
12	2919	4.71	60.89	11.76	0.3372
13	2933	7.81	56.63	14.36	0.6350
14	2923	4.8	57.31	12.89	0.3547
15	2953	3.69	58.62	13.70	0.2963
16	2920	7.5	55.97	14.03	0.5888
17	2968	4.68	61.84	12.99	0.3758
18	2932	7.74	63.88	13.34	0.6594
19	2926	4.69	57.11	12.78	0.3424
20	2983	7.75	55.07	13.69	0.5843
21	2970	4.65	61.20	13.59	0.3869
22	2975	7.9	62.65	12.90	0.6383
23	2989	4.66	57.23	13.80	0.3681
24	2981	4.61	59.47	12.91	0.3540
25	2948	4.75	55.91	14.20	0.3771
26	2974	4.61	62.16	12.60	0.3610
27	2998	4.19	56.42	12.73	0.3008
28	2929	7.78	61.71	13.16	0.6317
29	2980	7.57	50.47	14.78	0.5647
30	2902	7.59	55.89	15.05	0.6383
31	2915	7.64	57.27	13.34	0.5837
32	2959	7.74	63.10	13.85	0.6765
33	2992	7.35	57.24	14.52	0.6108
34	2949	4.76	61.76	12.55	0.3689
35	2901	4.84	60.06	13.60	0.3954
36	2908	7.86	59.67	12.92	0.6060
37	2950	4.69	53.30	13.36	0.3339
38	2936	4.77	61.51	14.26	0.4183
39	2925	7.84	54.98	14.53	0.6264
40	2951	4.73	68.06	12.74	0.4101
41	2914	7.65	59.23	12.43	0.5630
42	2930	7.64	57.48	13.20	0.5799

43	2931	7.05	61.84	12.60	0.5492
44	2906	4.77	52.88	14.52	0.3663
45	2979	4.69	50.54	14.21	0.3367
46	2963	4.5	59.87	12.84	0.3461
47	2924	4.77	57.77	13.47	0.3711
48	2966	4.58	61.90	14.59	0.4136
49	2913	4.62	55.37	14.97	0.3830
50	2973	7.47	62.80	12.26	0.5752
51	2927	4.65	58.84	14.70	0.4022
52	2982	4.73	53.54	13.54	0.3429
53	2995	7.65	55.41	14.35	0.6082
54	2937	8.04	54.33	12.83	0.5604
55	2978	4.59	56.23	14.42	0.3722
56	2935	4.66	61.43	12.44	0.3560
57	2957	7.17	54.07	14.44	0.5600
58	2994	4.69	48.86	13.16	0.3016
59	2955	4.98	54.70	14.92	0.4064
60	2965	4.68	57.21	12.86	0.3444
61	2993	9.15	52.82	11.76	0.5682
62	2991	4.55	63.98	12.63	0.3676
63	2921	7.8	59.90	13.67	0.6388
64	2911	7.87	58.69	13.97	0.6453
65	2990	4.41	53.40	13.88	0.3268
66	2942	4.68	61.18	13.60	0.3894
67	2903	4.93	54.25	13.42	0.3589
68	2986	4.77	50.76	13.93	0.3372
69	2944	4.7	55.68	14.76	0.3863
70	2985	7.49	54.93	14.44	0.5940
71	2946	4.75	60.64	13.98	0.4028
72	2977	4.49	53.90	13.53	0.3273
73	2952	4.54	59.69	13.42	0.3637
74	2969	7.76	58.61	14.33	0.6518
75	2945	4.67	54.80	13.61	0.3484
76	2939	9.61	60.81	12.27	0.7169
77	2917	9.25	60.05	13.16	0.7307
78	2943	9.09	67.18	12.56	0.7672
79	2956	9.22	58.96	13.14	0.7145
80	2941	9.66	64.20	11.18	0.6936
81	2904	9.17	57.80	13.94	0.7391
82	2972	9.61	59.19	12.57	0.7150
83	2976	4.61	68.99	12.58	0.4001
84	2905	4.75	60.32	13.88	0.3976
85	2967	9.17	54.43	13.69	0.6832
86	2912	7.59	57.93	13.57	0.5966
87	2938	4.56	61.99	13.62	0.3849
88	3000	9.03	64.66	12.30	0.7179
89	2999	9.24	53.37	12.54	0.6182

90	2909	4.83	53.72	14.28	0.3705
91	2961	8.04	56.40	13.83	0.6271
92	2940	4.48	50.72	14.75	0.3351
93	2988	7.53	48.18	14.76	0.5354
94	2918	4.75	57.21	13.55	0.3681
95	2928	7.6	56.72	14.28	0.6156
96	2987	7.59	57.32	13.28	0.5776
97	2971	4.69	63.40	13.56	0.4033
98	2996	7.42	59.13	14.27	0.6262
99	2962	4.57	54.95	12.81	0.3217
100	2907	4.75	61.21	15.50	0.4508

Date: 22.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 31/369**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3020	7.16	57.61	15.57	0.6423
2	3065	4.87	48.78	15.62	0.3711
3	3075	4.6	50.83	16.64	0.3892
4	3064	4.79	41.60	14.90	0.2970
5	3058	1.93	41.16	15.43	0.1226
6	3018	9.1	62.33	13.38	0.7589
7	3044	3.73	66.71	15.86	0.3946
8	3052	4.42	65.17	13.17	0.3792
9	3046	4.47	58.17	14.18	0.3688
10	3010	4.43	59.60	14.45	0.3814
11	3030	7.32	61.30	14.55	0.6529
12	3096	7.61	54.23	14.88	0.6141
13	3091	4.85	50.12	12.61	0.3065
14	3003	7.51	62.68	12.57	0.5918
15	3099	4.61	57.46	14.11	0.3739
16	3005	4.49	66.33	13.45	0.4005
17	3022	7.5	63.26	16.01	0.7598
18	3017	4.55	58.42	13.75	0.3654
19	3041	8.16	59.03	15.99	0.7703
20	3036	4.54	65.35	15.30	0.4540
21	3098	4.44	53.08	13.24	0.3121
22	3088	4.7	57.75	11.83	0.3210
23	3034	7.31	59.38	12.13	0.5263
24	3012	4.63	59.44	13.71	0.3773
25	3084	4.75	52.70	14.10	0.3529
26	3097	4.58	58.09	12.88	0.3426
27	3004	7.21	60.41	14.53	0.6330
28	3095	7.49	56.31	13.14	0.5543
29	3100	7.69	58.41	13.41	0.6021
30	3085	4.45	38.89	16.95	0.2933
31	3024	4.65	60.63	14.27	0.4022
32	3009	4.84	59.51	13.66	0.3935
33	3029	4.42	61.17	13.08	0.3536
34	3051	4.64	59.37	13.76	0.3791
35	3066	4.85	55.52	12.88	0.3468
36	3078	4.62	54.01	14.13	0.3525
37	3082	4.56	50.11	16.26	0.3716
38	3025	7.12	57.81	13.67	0.5625
39	3080	4.87	49.59	13.35	0.3224
40	3055	8.78	53.79	16.19	0.7647
41	3068	4.29	46.49	15.51	0.3093
42	3039	4.34	56.65	14.33	0.3524

43	3073	4.78	52.10	14.41	0.3590
44	3053	4.53	58.36	15.49	0.4095
45	3035	4.71	60.15	13.48	0.3820
46	3032	4.58	59.15	13.63	0.3691
47	3026	4.48	59.38	13.96	0.3714
48	3019	4.36	59.52	13.78	0.3575
49	3047	8.93	54.40	13.88	0.6742
50	3063	7.51	49.69	14.11	0.5265
51	3056	4.49	61.68	14.88	0.4122
52	3037	4.06	56.12	13.42	0.3057
53	3013	4.47	59.51	14.60	0.3884
54	3067	4.79	53.41	12.68	0.3243
55	3086	4.55	52.38	14.34	0.3417
56	3006	7.47	60.37	11.88	0.5356
57	3038	4.49	62.08	13.71	0.3821
58	3081	4.68	55.21	14.78	0.3819
59	3087	4.65	53.01	14.64	0.3608
60	3023	4.43	62.85	12.68	0.3531
61	3059	4.75	55.55	14.10	0.3719
62	3060	7.46	51.40	14.05	0.5386
63	3079	7.59	54.14	12.15	0.4994
64	3045	9.29	67.26	13.32	0.8324
65	3014	4.62	57.94	12.98	0.3474
66	3002	4.79	58.27	12.75	0.3559
67	3062	4.74	54.38	12.82	0.3304
68	3027	4.44	58.70	13.75	0.3583
69	3061	5.12	53.43	14.56	0.3983
70	3093	4.54	53.49	13.50	0.3278
71	3049	4.7	52.11	13.05	0.3196
72	3028	4.51	56.54	13.78	0.3513
73	3016	4.3	59.57	13.63	0.3492
74	3089	4.66	46.44	13.54	0.2931
75	3072	7.64	51.93	15.27	0.6059
76	3074	4.56	55.49	15.12	0.3826
77	3011	7.62	55.36	13.58	0.5730
78	3069	4.64	58.97	15.64	0.4278
79	3033	7.22	60.13	14.50	0.6296
80	3076	4.59	56.68	15.19	0.3952
81	3054	4.68	61.98	15.38	0.4460
82	3071	4.56	43.13	17.23	0.3388
83	3043	8.71	61.48	15.24	0.8161
84	3083	4.65	57.17	14.06	0.3739
85	3048	4.52	55.42	16.33	0.4091
86	3031	7.5	60.80	13.65	0.6225
87	3057	7.73	62.49	14.63	0.7065
88	3015	4.34	56.80	15.62	0.3850
89	3094	7.92	58.90	12.56	0.5861

90	3077	8.82	48.10	14.43	0.6121
91	3092	4.91	59.28	13.02	0.3791
92	3070	4.85	61.57	14.59	0.4355
93	3090	4.7	59.47	12.80	0.3577
94	3008	4.65	54.46	13.88	0.3515
95	3007	7.54	58.86	13.03	0.5783
96	3042	7.58	57.20	14.60	0.6329
97	3021	4.57	59.85	13.92	0.3807
98	3050	4.63	58.75	15.91	0.4329
99	3040	4.46	56.64	13.22	0.3341
100	3001	4.58	52.95	13.75	0.3334

Date: 20.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 23/361**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2281	5.15	54.86	12.61	0.3564
2	2226	7.84	52.70	14.10	0.5825
3	2222	7.72	53.07	12.42	0.5087
4	2271	7.88	57.09	14.52	0.6533
5	2215	9.56	58.85	12.56	0.7065
6	2299	4.75	63.72	14.45	0.4375
7	2232	8.65	51.22	13.04	0.5778
8	2273	7.4	56.63	13.69	0.5735
9	2238	7.96	54.17	13.81	0.5954
10	2255	4.29	56.31	14.53	0.3509
11	2258	4.52	51.92	15.70	0.3684
12	2288	4.76	57.24	13.63	0.3713
13	2240	7.55	56.88	12.99	0.5579
14	2235	7.8	50.26	13.95	0.5468
15	2237	7.73	51.13	13.87	0.5481
16	2234	7.28	53.65	14.30	0.5584
17	2217	4.79	62.40	12.36	0.3693
18	2294	8.01	51.67	14.11	0.5839
19	2285	7.67	56.53	14.72	0.6381
20	2239	7.69	58.24	13.39	0.5998
21	2256	7.5	52.45	14.66	0.5767
22	2289	4.49	49.67	15.42	0.3439
23	2218	8.03	66.02	13.16	0.6978
24	2298	4.65	48.79	14.45	0.3278
25	2284	4.62	50.19	14.11	0.3271
26	2216	7.86	57.02	13.57	0.6084
27	2241	9.43	56.55	14.59	0.7780
28	2252	4.71	50.12	16.08	0.3796
29	2287	4.21	50.41	14.02	0.2976
30	2279	7.94	55.24	13.47	0.5907
31	2212	4.53	58.60	13.04	0.3461
32	2204	4.88	60.43	12.08	0.3562
33	2261	4.43	58.14	12.73	0.3278
34	2275	4.43	52.67	13.29	0.3101
35	2257	4.64	58.74	13.23	0.3605
36	2263	7.89	60.47	13.87	0.6620
37	2227	8.05	60.65	12.86	0.6279
38	2253	4.53	56.60	14.77	0.3787
39	2250	4.73	49.78	14.56	0.3429
40	2295	7.77	56.81	13.80	0.6092
41	2247	7.61	55.92	12.82	0.5456
42	2280	4.58	54.17	13.49	0.3348

43	2283	4.65	58.86	13.49	0.3692
44	2264	4.51	55.50	13.39	0.3351
45	2224	7.72	55.20	13.75	0.5859
46	2225	7.46	47.79	14.29	0.5095
47	2286	4.69	53.23	12.74	0.3180
48	2223	9.63	49.24	13.83	0.6558
49	2248	7.22	61.84	13.20	0.5892
50	2254	4.87	57.27	13.29	0.3706
51	2221	7.73	50.82	14.78	0.5805
52	2208	4.84	54.88	14.05	0.3732
53	2242	7.63	50.63	16.24	0.6272
54	2220	7.52	48.86	12.69	0.4662
55	2244	7.87	53.43	13.48	0.5666
56	2260	4.56	52.76	15.83	0.3808
57	2233	7.77	47.58	15.59	0.5765
58	2207	4.87	58.25	13.53	0.3838
59	2296	7.11	57.86	14.15	0.5823
60	2205	4.64	52.00	13.37	0.3225
61	2259	7.62	51.41	16.14	0.6325
62	2249	4.79	50.83	13.83	0.3367
63	2276	7.26	50.38	14.11	0.5162
64	2300	7.7	52.37	13.21	0.5328
65	2268	4.43	47.68	16.76	0.3540
66	2267	7.47	57.75	14.82	0.6394
67	2277	9.32	56.69	12.79	0.6757
68	2206	4.76	59.29	11.74	0.3313
69	2201	4.69	55.76	13.40	0.3503
70	2230	7.94	53.21	13.96	0.5899
71	2282	7.75	51.49	12.08	0.4821
72	2214	4.72	57.31	13.80	0.3734
73	2246	7.69	52.14	14.69	0.5891
74	2202	4.88	53.76	13.54	0.3553
75	2262	4.65	57.40	14.34	0.3827
76	2290	7.89	56.09	13.25	0.5862
77	2203	7.68	56.33	12.36	0.5345
78	2209	7.81	52.34	13.18	0.5389
79	2231	7.67	55.61	12.70	0.5415
80	2274	4.77	54.13	12.51	0.3229
81	2293	4.59	56.90	13.74	0.3589
82	2251	4.54	52.35	14.96	0.3555
83	2278	4.82	53.80	13.90	0.3605
84	2236	7.83	55.01	13.76	0.5927
85	2292	4.51	59.78	13.60	0.3667
86	2291	4.57	58.81	13.48	0.3624
87	2245	7.4	54.19	14.50	0.5816
88	2213	7.65	60.13	12.57	0.5783
89	2219	7.89	53.74	13.77	0.5839

90	2243	7.86	60.87	13.13	0.6280
91	2211	9.44	62.63	12.85	0.7599
92	2272	7.44	64.24	13.61	0.6503
93	2266	7.47	58.40	13.96	0.6088
94	2229	10.31	53.50	13.89	0.7660
95	2270	4.41	61.22	14.78	0.3991
96	2269	4.62	61.45	13.72	0.3895
97	2297	4.58	56.33	12.94	0.3339
98	2228	4.3	53.56	13.22	0.3044
99	2265	4.64	59.89	12.47	0.3466
100	2210	4.62	61.70	11.80	0.3363

Date: 19.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 18/267**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1745	4.73	52.39	14.11	0.3495
2	1739	4.72	52.63	14.02	0.3483
3	1796	4.88	57.43	13.90	0.3894
4	1790	4.92	55.84	13.41	0.3685
5	1779	4.34	60.14	12.59	0.3285
6	1772	8.02	44.85	14.87	0.5349
7	1741	7.65	57.45	14.01	0.6158
8	1734	4.61	54.71	13.64	0.3439
9	1713	4.81	65.78	13.29	0.4204
10	1728	9.16	46.80	15.09	0.6467
11	1715	7.47	57.02	13.75	0.5856
12	1717	8.99	51.09	14.91	0.6850
13	1767	4.31	55.93	14.20	0.3422
14	1771	4.34	47.30	15.92	0.3268
15	1785	7.01	35.53	17.93	0.4465
16	1795	4.62	57.22	14.17	0.3747
17	1774	4.21	53.19	13.56	0.3035
18	1742	7.95	51.84	13.54	0.5581
19	1708	7.38	55.31	15.08	0.6155
20	1762	7.8	60.85	12.88	0.6115
21	1781	4.55	47.76	15.18	0.3299
22	1719	7.93	52.25	13.97	0.5789
23	1757	4.71	57.54	13.03	0.3532
24	1782	4.6	42.02	15.61	0.3018
25	1712	9.3	56.15	13.11	0.6845
26	1787	4.78	47.14	13.30	0.2997
27	1710	7.54	51.45	13.61	0.5278
28	1780	4.14	47.15	13.34	0.2604
29	1797	7.86	55.57	14.13	0.6170
30	1735	4.62	56.46	13.04	0.3400
31	1729	4.75	50.68	13.79	0.3320
32	1766	7.73	58.29	13.88	0.6254
33	1714	7.65	57.36	15.69	0.6885
34	1748	4.76	50.20	13.45	0.3213
35	1738	4.82	50.39	13.47	0.3273
36	1737	4.75	49.11	13.74	0.3206
37	1733	4.83	51.07	13.90	0.3429
38	1731	7.49	49.66	13.95	0.5191
39	1788	4.76	47.89	14.16	0.3227
40	1727	9.25	52.48	14.08	0.6836
41	1704	4.63	62.74	13.04	0.3787
42	1707	7.8	60.36	13.15	0.6193

43	1799	9.52	58.84	12.90	0.7226
44	1718	4.62	49.56	13.90	0.3183
45	1724	7.41	58.83	14.50	0.6321
46	1759	4.78	59.49	12.69	0.3609
47	1740	4.61	59.41	13.95	0.3822
48	1794	4.81	53.51	14.76	0.3800
49	1705	4.33	64.91	12.94	0.3637
50	1725	5	50.44	13.92	0.3510
51	1721	6.06	48.99	14.59	0.4333
52	1775	4.21	51.39	13.76	0.2976
53	1761	4.78	58.73	13.50	0.3791
54	1751	4.46	64.38	13.58	0.3898
55	1722	4.57	51.15	14.78	0.3455
56	1744	4.84	51.96	13.26	0.3335
57	1711	7.76	53.62	13.39	0.5572
58	1791	4.76	58.49	13.92	0.3875
59	1706	7.74	50.95	13.78	0.5433
60	1798	4.63	53.69	12.48	0.3102
61	1709	4.67	61.08	12.95	0.3694
62	1723	7.84	50.84	14.46	0.5762
63	1778	4.13	49.93	13.36	0.2755
64	1800	7.57	52.85	13.21	0.5284
65	1792	4.68	56.13	13.95	0.3664
66	1746	4.22	55.99	12.84	0.3034
67	1752	4.6	46.59	16.25	0.3482
68	1753	4.56	55.97	13.76	0.3511
69	1747	7.79	54.85	14.60	0.6240
70	1786	7.63	53.25	15.27	0.6203
71	1716	4.54	63.70	12.48	0.3609
72	1702	4.43	65.97	12.04	0.3517
73	1765	4.43	54.47	12.47	0.3008
74	1760	4.83	56.47	13.21	0.3603
75	1701	7.61	54.88	12.99	0.5426
76	1784	7.86	49.21	14.29	0.5526
77	1750	4.72	53.69	13.82	0.3502
78	1732	4.65	57.73	11.33	0.3041
79	1789	9.44	51.74	14.15	0.6910
80	1770	3.2	47.53	15.67	0.2384
81	1736	4.54	51.39	12.73	0.2969
82	1783	8.16	44.11	16.25	0.5851
83	1777	4.45	51.95	14.67	0.3391
84	1776	4.31	43.21	16.01	0.2983
85	1755	4.67	58.60	11.74	0.3213
86	1764	7.52	55.79	13.21	0.5542
87	1793	7.94	55.67	14.21	0.6281
88	1758	7.82	54.15	13.91	0.5888
89	1703	4.48	55.28	15.67	0.3880

90	1754	4.85	58.51	13.23	0.3754
91	1763	4.54	58.71	13.22	0.3523
92	1743	4.54	54.54	15.40	0.3814
93	1730	4.54	56.31	14.92	0.3814
94	1768	4.05	44.60	15.04	0.2718
95	1769	4.03	32.85	16.77	0.2221
96	1773	4.31	53.00	14.36	0.3280
97	1720	4.58	46.99	15.66	0.3371
98	1726	7.7	53.85	15.32	0.6352
99	1749	7.71	57.93	13.67	0.6106
100	1756	4.62	55.85	14.16	0.3654

Date: 14.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 05/36**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	442	9.59	59.18	14.23	0.8075
2	458	4.88	60.11	12.08	0.3543
3	409	8.38	62.10	14.51	0.7550
4	493	5.14	63.06	12.59	0.4081
5	440	4.49	55.35	12.81	0.3183
6	402	9.5	56.98	12.46	0.6745
7	405	4.7	60.90	13.32	0.3812
8	427	9.06	59.03	13.37	0.7148
9	418	4.89	59.57	12.51	0.3643
10	481	9.69	63.59	14.92	0.9196
11	451	8.74	47.70	14.00	0.5838
12	449	9.14	49.09	14.28	0.6407
13	447	4.55	43.61	15.00	0.2976
14	474	5.07	63.41	12.93	0.4157
15	420	8.02	60.23	12.49	0.6031
16	466	4.85	52.45	14.99	0.3812
17	404	5.03	63.09	13.87	0.4401
18	422	4.73	58.11	12.99	0.3571
19	419	4.96	58.31	12.98	0.3755
20	499	8.16	59.00	13.53	0.6512
21	496	4.7	69.00	14.51	0.4705
22	491	4.84	58.55	14.12	0.4003
23	495	4.95	67.81	13.52	0.4539
24	497	4.86	48.97	15.81	0.3762
25	410	4.7	55.41	14.31	0.3727
26	407	4.31	38.82	15.02	0.2513
27	434	4.57	64.02	13.87	0.4058
28	490	7.89	61.64	14.18	0.6896
29	488	8.02	64.25	13.57	0.6993
30	450	9.08	55.11	14.03	0.7019
31	465	9.36	62.14	12.95	0.7535
32	467	10.35	62.12	13.52	0.8694
33	411	5.16	57.71	14.57	0.4340
34	415	9.46	50.01	14.54	0.6877
35	446	9.22	42.56	16.52	0.6482
36	452	7.3	44.03	17.62	0.5665
37	429	9.06	50.89	17.19	0.7927
38	426	7.78	65.77	14.46	0.7399
39	475	4.71	60.70	14.05	0.4018
40	454	8.53	59.62	13.07	0.6645
41	457	8.26	59.62	13.54	0.6666
42	500	4.9	59.66	12.55	0.3670

43	498	8.27	58.67	13.12	0.6368
44	448	4.92	50.89	14.88	0.3724
45	455	4.84	51.63	15.22	0.3804
46	494	5.01	63.49	14.27	0.4539
47	483	5.07	53.94	14.37	0.3929
48	428	8.03	68.88	13.91	0.7693
49	471	7.97	57.39	15.65	0.7157
50	437	4.69	49.00	14.71	0.3381
51	464	9.47	58.07	14.31	0.7870
52	416	4.82	60.43	13.22	0.3851
53	486	4.84	58.95	14.78	0.4216
54	423	4.87	55.92	15.00	0.4086
55	436	4.6	46.87	15.90	0.3427
56	463	4.91	56.73	14.21	0.3957
57	469	7.85	50.51	16.51	0.6547
58	425	8.15	62.67	15.78	0.8060
59	445	7.84	42.07	15.78	0.5206
60	403	4.73	54.87	15.95	0.4139
61	435	7.43	49.08	12.82	0.4673
62	485	8.09	61.11	10.70	0.5291
63	408	9.34	57.61	13.35	0.7182
64	472	8.15	62.86	9.16	0.4694
65	487	7.92	65.93	11.10	0.5797
66	439	7.51	57.85	12.72	0.5527
67	470	9.76	54.89	13.63	0.7300
68	489	9.64	67.74	11.10	0.7249
69	492	7.62	67.49	11.38	0.5852
70	461	4.84	56.83	12.48	0.3432
71	406	9.52	55.58	14.63	0.7740
72	482	4.87	59.04	13.91	0.3998
73	462	4.79	52.65	14.85	0.3746
74	444	7.58	59.60	13.96	0.6307
75	473	5.06	57.50	14.33	0.4169
76	431	8.64	48.45	15.79	0.6610
77	468	4.72	55.43	13.75	0.3597
78	484	4.86	61.22	15.13	0.4500
79	443	7.32	55.61	15.55	0.6332
80	433	4.5	55.28	15.50	0.3856
81	438	7.77	51.20	14.77	0.5874
82	453	8.22	45.69	15.89	0.5968
83	430	4.55	54.41	13.29	0.3290
84	432	9.16	61.30	13.39	0.7520
85	459	4.78	48.31	14.72	0.3399
86	478	8.37	57.33	13.68	0.6562
87	479	9.44	59.89	13.94	0.7882
88	460	8.11	58.98	14.65	0.7007
89	480	4.89	57.23	13.91	0.3892

90	412	11.18	57.72	14.15	0.9134
91	413	4.59	54.72	13.78	0.3461
92	401	7.74	57.12	16.86	0.7454
93	456	9.38	45.36	16.56	0.7044
94	476	8.05	57.84	13.62	0.6343
95	424	8.14	53.92	14.61	0.6414
96	414	7.98	60.71	12.37	0.5993
97	477	9.65	64.95	13.03	0.8164
98	421	5.2	45.58	17.57	0.4165
99	417	11.18	65.12	12.59	0.9168
100	441	7.55	53.63	14.73	0.5965

Name of Division : Neemuch-II

Challan No. : 06/37

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	554	8.1	64.66	13.81	0.7233
2	553	7.99	59.00	13.93	0.6568
3	565	7.68	49.13	14.41	0.5437
4	533	4.82	55.80	13.91	0.3740
5	503	4.75	54.49	14.15	0.3662
6	572	7.9	53.11	15.63	0.6557
7	557	9.14	61.93	14.21	0.8043
8	570	9.38	52.42	15.15	0.7448
9	561	7.56	52.88	13.94	0.5572
10	507	9.45	63.05	12.82	0.7636
11	520	9.78	56.19	13.29	0.7306
12	506	4.71	57.62	13.40	0.3636
13	567	9.36	54.36	14.99	0.7628
14	569	7.71	51.50	14.19	0.5636
15	594	8.97	51.31	14.62	0.6728
16	599	9.06	52.15	15.69	0.7411
17	564	4	54.65	15.24	0.3332
18	509	9.96	56.93	13.53	0.7669
19	568	7.56	58.98	15.94	0.7106
20	587	9.49	51.57	15.69	0.7677
21	591	8.7	50.49	13.88	0.6099
22	588	7.58	50.91	15.73	0.6072
23	593	4	52.33	14.68	0.3072
24	571	8.91	57.51	15.67	0.8028
25	600	9.27	58.35	13.61	0.7360
26	513	9.41	60.99	13.43	0.7707
27	546	9.33	57.20	14.91	0.7958
28	547	8.07	53.22	15.26	0.6553
29	581	7.71	56.97	13.55	0.5952
30	575	4.73	56.21	14.02	0.3727
31	515	9.58	54.98	13.97	0.7357
32	552	7.67	54.35	14.92	0.6220
33	589	7.67	58.63	14.17	0.6374

34	586	7.75	53.85	15.71	0.6556
35	529	5.15	61.85	13.57	0.4321
36	597	4.68	59.81	13.74	0.3847
37	508	9.83	60.81	13.63	0.8149
38	540	5.1	58.18	14.46	0.4289
39	502	7.83	58.22	14.67	0.6687
40	542	8.19	62.03	13.25	0.6732
41	582	7.49	58.82	14.91	0.6569
42	556	9.36	56.33	14.11	0.7441
43	512	4.64	59.20	13.28	0.3647
44	530	9.26	62.72	14.00	0.8130
45	576	9.32	57.14	14.86	0.7913
46	579	7.64	58.35	15.37	0.6853
47	590	7.78	61.16	14.63	0.6963
48	562	8.92	57.43	16.40	0.8403
49	527	9.49	61.02	12.68	0.7345
50	518	8.48	64.60	13.27	0.7267
51	538	7.73	61.69	14.95	0.7127
52	543	4.75	51.83	15.32	0.3772
53	501	5.03	58.86	14.05	0.4160
54	574	9.37	57.55	13.40	0.7224
55	560	7.69	46.10	16.81	0.5960
56	517	4.85	57.90	15.42	0.4331
57	580	9.56	56.45	15.02	0.8107
58	595	4.66	59.07	13.98	0.3849
59	544	9.4	55.70	13.57	0.7106
60	578	4.81	57.98	15.38	0.4291
61	524	8.05	57.81	11.61	0.5402
62	505	4.58	56.66	12.11	0.3142
63	598	9.08	61.00	11.30	0.6256
64	559	4.38	66.77	10.66	0.3119
65	555	4.59	67.44	12.31	0.3810
66	528	4.95	68.96	10.24	0.3495
67	504	8.15	56.42	13.45	0.6186
68	566	9.52	56.66	12.62	0.6807
69	525	4.72	54.44	12.64	0.3247
70	511	7.91	60.40	11.32	0.5410
71	523	4.87	56.26	14.75	0.4042
72	532	4.87	48.63	15.16	0.3589
73	536	7.61	54.90	15.12	0.6316
74	541	9.85	60.83	13.15	0.7880
75	521	9.65	61.84	12.37	0.7382
76	534	8.04	57.84	15.68	0.7292
77	592	9.39	56.81	12.97	0.6920
78	584	7.64	53.67	15.32	0.6280
79	516	4.86	57.96	13.23	0.3728
80	522	4.87	51.00	13.27	0.3297

81	549	4.62	58.61	14.88	0.4029
82	510	9.82	60.56	13.66	0.8121
83	539	4.89	61.40	13.60	0.4083
84	583	9.71	55.86	12.93	0.7011
85	537	4.62	55.68	15.09	0.3881
86	596	7.95	52.95	14.62	0.6153
87	551	4.76	62.41	13.43	0.3989
88	585	4.58	47.16	15.78	0.3408
89	514	8.24	58.79	13.86	0.6716
90	550	4.96	56.65	14.32	0.4023
91	573	7.79	52.11	15.95	0.6473
92	563	7.49	48.77	15.91	0.5812
93	577	4.91	54.92	14.58	0.3933
94	535	9.65	50.81	14.68	0.7199
95	545	8.24	56.74	14.84	0.6938
96	519	7.66	48.86	16.74	0.6266
97	548	7.72	47.95	17.23	0.6377
98	526	8.13	51.03	16.30	0.6764
99	531	9.63	54.82	14.72	0.7771
100	558	8.32	46.95	17.81	0.6956

Date: 12.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 29/357**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2856	4.71	53.80	13.51	0.3424
2	2846	4.69	58.85	12.97	0.3578
3	2880	7.61	59.87	13.88	0.6324
4	2817	4.56	60.09	14.53	0.3981
5	2879	8.14	59.29	12.90	0.6227
6	2805	9.04	55.70	13.34	0.6717
7	2889	9.18	67.46	13.18	0.8161
8	2825	6.96	45.80	16.16	0.5150
9	2877	4.66	58.11	13.77	0.3728
10	2808	4.62	60.18	13.49	0.3751
11	2811	7.58	57.93	14.72	0.6466
12	2855	7.53	54.75	13.63	0.5617
13	2897	4.58	68.13	13.42	0.4186
14	2843	4.74	62.70	12.50	0.3716
15	2853	4.93	62.59	12.43	0.3836
16	2865	4.51	62.56	13.16	0.3712
17	2893	7.88	68.10	13.73	0.7368
18	2863	7.95	62.21	12.28	0.6074
19	2824	6.51	49.82	15.70	0.5091
20	2810	7.58	59.15	13.80	0.6185
21	2819	7.46	54.78	15.22	0.6222
22	2847	4.68	64.20	12.76	0.3833
23	2898	4.75	63.24	13.01	0.3909
24	2876	4.76	60.50	13.14	0.3784
25	2844	4.83	66.53	13.33	0.4284
26	2812	4.56	57.31	14.97	0.3912
27	2857	7.55	55.22	12.62	0.5262
28	2813	7.43	56.09	13.39	0.5580
29	2860	7.59	58.14	13.02	0.5746
30	2870	4.79	58.38	13.41	0.3751
31	2806	4.54	62.85	12.44	0.3550
32	2859	9.28	62.51	12.96	0.7517
33	2882	4.7	62.28	13.01	0.3807
34	2827	4.5	55.38	12.51	0.3119
35	2891	4.8	57.68	12.99	0.3595
36	2815	4.57	52.57	15.75	0.3784
37	2849	4.75	57.98	13.80	0.3800
38	2873	4.73	57.40	14.58	0.3959
39	2848	4.97	53.94	14.26	0.3822
40	2886	4.73	60.59	13.76	0.3945
41	2804	4.61	51.78	14.66	0.3499
42	2899	4.76	63.09	12.97	0.3894

43	2809	4.46	55.04	16.52	0.4054
44	2868	4.71	56.32	14.67	0.3890
45	2845	4.75	61.46	13.03	0.3805
46	2854	4.88	61.19	13.83	0.4128
47	2866	4.7	49.41	15.46	0.3591
48	2872	7.67	52.18	14.35	0.5745
49	2814	4.63	49.98	17.37	0.4019
50	2834	7.75	55.89	15.41	0.6673
51	2864	7.45	61.40	14.19	0.6489
52	2896	9.7	61.14	14.69	0.8711
53	2851	7.58	62.96	13.44	0.6413
54	2842	4.77	54.41	13.93	0.3616
55	2858	4.76	53.57	14.88	0.3794
56	2850	4.71	62.77	13.83	0.4088
57	2869	9.54	59.80	13.85	0.7899
58	2801	9.08	61.87	12.45	0.6992
59	2883	9.18	58.27	14.28	0.7638
60	2885	9.33	58.56	14.04	0.7669
61	2881	4.73	55.45	15.91	0.4172
62	2831	4.67	57.22	14.02	0.3745
63	2823	4.41	42.80	17.01	0.3210
64	2830	3.17	46.15	16.14	0.2362
65	2895	8.04	59.25	14.35	0.6834
66	2826	4.25	42.04	18.91	0.3379
67	2839	4.71	48.98	17.31	0.3994
68	2822	4.33	49.86	14.46	0.3122
69	2836	4.75	44.56	17.86	0.3781
70	2892	4.66	51.04	15.65	0.3723
71	2861	7.64	50.66	17.41	0.6738
72	2852	4.72	51.67	15.56	0.3795
73	2821	7	43.64	16.70	0.5103
74	2862	4.61	55.63	14.45	0.3706
75	2887	4.69	44.00	18.30	0.3775
76	2832	4.71	60.82	14.49	0.4150
77	2802	4.67	54.42	15.47	0.3932
78	2838	7.37	54.27	16.84	0.6736
79	2871	4.71	52.03	15.01	0.3679
80	2867	8.1	58.80	14.68	0.6990
81	2884	4.67	51.37	15.61	0.3745
82	2841	4.8	55.11	15.57	0.4118
83	2818	4.49	55.07	14.78	0.3655
84	2803	4.57	50.76	14.18	0.3290
85	2835	4.75	50.40	15.99	0.3829
86	2829	4.2	54.59	12.18	0.2793
87	2894	7.77	61.95	10.80	0.5198
88	2837	4.72	62.87	10.66	0.3162
89	2816	4.55	60.73	11.69	0.3231

90	2833	4.71	54.31	11.32	0.2897
91	2875	4.95	49.74	12.40	0.3054
92	2888	7.8	49.48	11.24	0.4337
93	2900	4.83	61.85	10.74	0.3207
94	2820	7.5	59.42	10.50	0.4680
95	2874	7.77	52.50	11.07	0.4514
96	2890	7.73	64.27	11.11	0.5519
97	2828	4.5	50.11	11.83	0.2669
98	2878	4.5	56.74	11.40	0.2912
99	2840	4.83	60.05	11.44	0.3318
100	2807	7.77	58.62	12.37	0.5633

Date: 09.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 27/365**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2633	8.04	55.68	13.83	0.6191
2	2605	4.65	56.29	14.80	0.3873
3	2651	4.24	51.22	15.60	0.3388
4	2654	9.67	53.35	13.23	0.6827
5	2621	5.16	55.53	13.79	0.3953
6	2615	8.29	54.13	13.54	0.6077
7	2696	4.83	51.19	14.77	0.3651
8	2650	4.33	45.70	16.87	0.3338
9	2687	4.95	58.40	12.50	0.3613
10	2690	4.28	61.14	14.13	0.3698
11	2625	5.04	55.85	13.70	0.3856
12	2658	5.03	60.21	13.14	0.3979
13	2661	4.8	61.88	12.82	0.3806
14	2691	8.12	68.63	11.69	0.6512
15	2663	4.07	56.24	15.04	0.3443
16	2697	4.86	54.36	13.58	0.3587
17	2648	7.76	60.43	13.02	0.6107
18	2646	4.93	56.55	13.60	0.3791
19	2685	7.89	60.16	12.43	0.5902
20	2699	4.89	57.47	13.94	0.3917
21	2670	4.19	57.20	14.20	0.3402
22	2610	4.62	57.21	13.07	0.3456
23	2653	5	56.01	13.35	0.3740
24	2665	4.61	51.72	13.05	0.3112
25	2659	9.75	52.79	13.11	0.6747
26	2642	4.7	56.83	13.46	0.3595
27	2638	4.91	55.36	12.48	0.3393
28	2640	4.78	53.32	13.84	0.3528
29	2700	2.37	50.52	12.45	0.1491
30	2674	4.21	56.90	13.76	0.3296
31	2644	7.99	54.45	14.07	0.6120
32	2649	4.42	54.20	11.64	0.2789
33	2626	4.78	47.98	15.01	0.3442
34	2601	4.82	57.91	12.16	0.3393
35	2630	7.96	56.33	13.69	0.6137
36	2620	8.52	58.90	13.28	0.6663
37	2693	4.74	39.80	16.08	0.3034
38	2671	4.83	56.76	13.14	0.3603
39	2652	8.22	51.42	12.95	0.5475
40	2643	4.61	54.61	13.40	0.3375
41	2688	4.87	58.34	13.51	0.3838
42	2624	4.8	50.91	13.87	0.3389

43	2675	9.33	53.78	12.61	0.6326
44	2635	7.98	50.34	14.40	0.5786
45	2695	4.4	57.96	13.58	0.3463
46	2602	4.82	57.83	13.76	0.3837
47	2657	5.15	58.89	12.18	0.3693
48	2694	4.46	50.56	14.62	0.3296
49	2639	4.84	51.02	13.05	0.3223
50	2645	8.01	58.95	13.84	0.6536
51	2677	4.88	62.86	13.82	0.4241
52	2616	4.6	54.87	13.50	0.3409
53	2629	5.02	57.51	12.82	0.3700
54	2641	9.62	58.07	13.54	0.7561
55	2681	4.29	56.95	13.78	0.3368
56	2679	4.15	52.97	14.37	0.3158
57	2631	5.01	56.33	13.39	0.3778
58	2656	4.3	59.60	12.90	0.3307
59	2603	8.03	56.56	12.66	0.5749
60	2676	4.61	52.24	13.38	0.3222
61	2662	7.92	60.00	12.77	0.6067
62	2623	4.89	52.01	14.57	0.3707
63	2608	4.91	55.30	14.48	0.3933
64	2628	9.81	59.59	13.49	0.7887
65	2666	4.33	55.96	13.90	0.3369
66	2689	5.14	61.55	14.31	0.4528
67	2618	4.86	60.11	14.21	0.4150
68	2611	5.1	54.57	14.46	0.4024
69	2617	8.06	53.57	14.65	0.6327
70	2636	4.96	57.50	13.81	0.3938
71	2672	4.06	58.08	14.24	0.3358
72	2606	4.85	60.55	13.72	0.4030
73	2607	8.28	54.94	13.25	0.6028
74	2614	4.73	60.45	12.66	0.3618
75	2622	4.79	55.91	12.23	0.3276
76	2637	4.69	59.71	13.70	0.3836
77	2686	5.03	58.26	13.01	0.3813
78	2692	7.11	42.26	17.51	0.5261
79	2613	4.69	62.12	12.89	0.3757
80	2684	3.84	56.98	13.46	0.2945
81	2669	3.99	54.09	14.81	0.3196
82	2678	4.83	56.65	13.86	0.3792
83	2647	4.9	55.80	14.78	0.4043
84	2634	4.79	58.66	13.35	0.3751
85	2698	4.91	53.10	13.82	0.3604
86	2632	5.01	55.43	13.03	0.3617
87	2680	4.13	56.14	13.80	0.3201
88	2682	8.55	58.90	13.12	0.6609
89	2619	9.65	52.91	13.95	0.7122

90	2668	4.11	52.04	15.14	0.3239
91	2604	7.75	57.65	14.21	0.6347
92	2667	4.24	59.87	12.98	0.3294
93	2655	4.24	56.80	14.38	0.3464
94	2660	4.86	52.53	15.17	0.3873
95	2612	7.71	59.97	13.11	0.6060
96	2664	4.19	55.82	14.64	0.3423
97	2683	9.72	59.44	12.60	0.7280
98	2627	7.87	59.26	13.47	0.6280
99	2673	4.15	50.89	13.26	0.2801
100	2609	8.09	58.10	13.63	0.6407

Date: 07.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 42/497**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4110	7.21	60.63	14.51	0.6345
2	4159	3.7	48.55	16.46	0.2956
3	4174	6.97	52.82	14.98	0.5513
4	4196	6.55	47.53	14.54	0.4526
5	4195	6.98	55.72	13.60	0.5291
6	4165	7.75	51.54	15.23	0.6084
7	4161	8.71	60.97	15.58	0.8275
8	4184	6.62	44.34	14.93	0.4382
9	4170	3.69	62.80	12.85	0.2978
10	4162	4.41	53.83	14.01	0.3325
11	4153	7.22	61.26	12.18	0.5386
12	4163	4.21	62.45	12.57	0.3305
13	4142	4.68	47.44	12.71	0.2822
14	4181	3.43	44.14	15.18	0.2298
15	4154	7.13	61.54	13.18	0.5782
16	4139	7.01	52.99	12.34	0.4585
17	4192	8.18	48.73	11.66	0.4646
18	4137	4.19	49.66	14.64	0.3046
19	4102	7.6	49.30	11.93	0.4469
20	4198	6.73	49.04	14.07	0.4644
21	4106	4.17	61.57	10.23	0.2627
22	4128	4.06	46.29	12.90	0.2424
23	4119	7.11	50.36	12.59	0.4508
24	4131	6.9	47.93	14.96	0.4947
25	4115	7.16	50.56	12.58	0.4554
26	4191	6.78	48.35	13.17	0.4319
27	4123	7.31	45.79	11.60	0.3882
28	4183	3.78	40.10	13.34	0.2022
29	4136	3.25	60.56	11.43	0.2249
30	4117	4.22	62.41	10.50	0.2764
31	4145	3.47	61.80	10.44	0.2238
32	4107	7.6	51.64	12.28	0.4818
33	4158	4.33	54.05	16.06	0.3758
34	4126	8.05	48.13	13.69	0.5305
35	4167	7.04	57.71	12.48	0.5069
36	4150	4.09	56.21	13.41	0.3084
37	4182	6.61	46.15	19.57	0.5969
38	4188	6.67	43.77	12.41	0.3622
39	4108	7.34	40.14	16.42	0.4837
40	4171	4.37	61.53	13.44	0.3614
41	4120	7.06	43.38	12.68	0.3883
42	4134	7.39	54.89	12.57	0.5099

43	4186	3.89	53.45	13.66	0.2840
44	4121	8.24	49.69	12.94	0.5298
45	4116	4.3	66.71	14.08	0.4038
46	4189	6.19	53.64	13.68	0.4543
47	4166	7.21	64.17	11.78	0.5451
48	4114	3.95	62.32	13.40	0.3298
49	4193	3.97	57.40	11.32	0.2580
50	4200	3.86	63.72	11.42	0.2810
51	4156	4.01	47.23	15.01	0.2843
52	4160	8.34	51.30	13.55	0.5796
53	4124	4.03	50.47	13.31	0.2708
54	4140	4.24	53.67	12.22	0.2781
55	4109	9.22	52.57	13.92	0.6749
56	4199	4.03	47.75	14.05	0.2704
57	4172	4.35	62.90	12.21	0.3341
58	4152	4.15	65.44	13.58	0.3689
59	4173	4.42	59.57	12.84	0.3381
60	4176	4.02	57.36	12.31	0.2838
61	4132	3.29	52.74	13.73	0.2382
62	4178	7	46.07	13.09	0.4221
63	4157	3.62	50.57	12.62	0.2310
64	4194	3.12	50.74	12.99	0.2056
65	4168	4.3	58.59	14.35	0.3616
66	4179	4.16	41.88	15.09	0.2629
67	4138	7.22	51.74	13.63	0.5090
68	4180	3.86	43.87	14.27	0.2416
69	4122	4.26	45.26	15.44	0.2978
70	4103	4.36	58.44	14.13	0.3601
71	4147	3.85	64.72	12.44	0.3099
72	4113	7.07	60.14	12.80	0.5444
73	4111	7.14	50.93	15.18	0.5519
74	4146	3.75	59.90	13.32	0.2993
75	4151	4.11	53.24	14.14	0.3095
76	4141	4.18	64.68	11.77	0.3181
77	4125	7.5	52.83	15.31	0.6068
78	4155	6.51	64.15	14.17	0.5918
79	4149	6.53	58.46	12.32	0.4702
80	4118	6.88	69.31	12.77	0.6089
81	4164	6.99	56.88	13.85	0.5508
82	4175	4.1	54.94	14.00	0.3153
83	4130	6.83	54.72	13.80	0.5157
84	4135	7.19	55.12	13.99	0.5543
85	4101	4.49	67.92	11.97	0.3650
86	4190	6.58	43.39	16.99	0.4849
87	4148	3.53	56.78	14.16	0.2838
88	4197	3.24	48.75	15.28	0.2414
89	4187	7.03	48.09	13.70	0.4633

90	4104	8.87	53.99	15.11	0.7238
91	4129	7.04	50.05	13.99	0.4928
92	4144	3.42	51.41	13.17	0.2315
93	4105	7.29	48.51	15.25	0.5395
94	4185	6.91	37.67	15.45	0.4022
95	4177	4.12	50.19	8.69	0.1796
96	4143	7.68	54.82	13.64	0.5745
97	4127	3.95	32.13	17.24	0.2188
98	4169	4.12	48.80	14.22	0.2859
99	4112	7.21	55.47	15.72	0.6287
100	4133	4.27	57.43	13.83	0.3390

Date: 01.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-II****Challan No. : 09/95**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	811	6.48	51.56	15.32	0.5119
2	887	7.78	48.20	14.25	0.5345
3	812	4.49	53.82	14.75	0.3565
4	900	4.65	58.78	14.48	0.3957
5	855	4.66	57.77	12.95	0.3486
6	824	4.46	56.40	12.68	0.3189
7	896	4.57	59.95	12.88	0.3528
8	868	4.79	53.22	15.48	0.3947
9	802	7.53	58.54	14.91	0.6574
10	858	4.89	56.39	13.57	0.3741
11	843	7.77	53.83	14.92	0.6239
12	803	4.6	55.31	14.57	0.3708
13	886	7.34	48.04	14.22	0.5013
14	808	4.65	64.63	13.52	0.4064
15	865	4.66	52.16	14.67	0.3565
16	820	6.63	57.43	14.77	0.5622
17	851	4.58	53.17	13.69	0.3334
18	897	4.6	53.05	13.18	0.3215
19	832	4.63	57.37	13.30	0.3533
20	864	8.94	53.75	15.46	0.7429
21	805	4.78	61.79	14.10	0.4163
22	898	4.66	58.24	13.43	0.3644
23	863	4.48	60.46	14.27	0.3866
24	830	6.27	55.48	14.40	0.5010
25	882	9.08	53.91	14.95	0.7318
26	827	4.47	55.73	13.66	0.3402
27	807	7.56	58.71	11.87	0.5269
28	846	8.64	53.99	14.10	0.6575
29	836	4.54	52.61	15.45	0.3691
30	892	9.47	47.96	14.39	0.6534
31	810	7.01	50.13	14.44	0.5075
32	821	6.94	51.52	13.51	0.4830
33	857	4.72	52.80	15.83	0.3946
34	849	4.63	55.03	13.30	0.3389
35	871	7.56	55.73	14.01	0.5904
36	888	9.48	48.63	16.66	0.7679
37	837	7.56	48.85	15.86	0.5859
38	885	4.61	44.04	14.69	0.2983
39	813	4.17	47.30	17.48	0.3449
40	818	4.14	54.44	16.88	0.3805
41	816	6.67	52.42	16.62	0.5810
42	874	7.84	56.63	14.64	0.6499

43	850	4.77	54.34	14.61	0.3787
44	829	4.72	51.66	15.04	0.3667
45	879	8.95	54.44	15.83	0.7715
46	853	9.51	54.59	14.64	0.7598
47	866	7.39	50.69	15.74	0.5897
48	893	7.82	54.09	14.96	0.6326
49	841	9.44	55.63	14.72	0.7731
50	884	9.62	47.60	15.40	0.7051
51	806	7.67	66.10	13.77	0.6980
52	870	4.84	55.90	14.87	0.4022
53	895	8.99	44.51	15.25	0.6104
54	834	4.57	52.04	15.80	0.3757
55	844	8.03	53.10	14.97	0.6384
56	848	7.47	51.66	16.47	0.6357
57	842	7.65	53.20	15.39	0.6265
58	839	7.91	46.23	14.90	0.5450
59	840	7.74	56.16	13.19	0.5735
60	817	7.53	53.65	15.02	0.6069
61	822	4.3	49.79	13.94	0.2984
62	872	4.54	52.03	13.76	0.3251
63	801	4.85	61.36	13.85	0.4122
64	815	7.2	47.56	15.05	0.5155
65	835	4.48	53.29	15.54	0.3709
66	867	4.55	57.47	12.37	0.3235
67	891	9.57	53.73	15.34	0.7886
68	878	8.74	58.26	13.11	0.6677
69	847	4.57	55.63	14.22	0.3615
70	881	3.53	43.27	15.07	0.2302
71	828	7.75	49.13	14.86	0.5658
72	833	4.56	56.54	13.88	0.3580
73	894	9.2	52.84	12.72	0.6182
74	859	4.51	54.74	14.58	0.3599
75	838	7.26	46.62	15.34	0.5191
76	861	4.66	50.66	14.90	0.3518
77	883	4.33	44.67	15.07	0.2914
78	880	4.63	63.85	13.00	0.3843
79	823	4.56	51.09	12.53	0.2918
80	889	9.25	49.77	13.82	0.6364
81	899	7.75	63.81	12.66	0.6262
82	845	4.48	51.65	15.99	0.3700
83	826	3.7	56.36	14.89	0.3104
84	852	9.68	55.81	14.50	0.7831
85	869	9.08	57.53	13.68	0.7146
86	814	8.71	42.61	15.28	0.5670
87	877	7.79	52.61	14.64	0.5998
88	873	7.74	44.85	15.88	0.5511
89	860	8.99	52.10	15.91	0.7453

90	804	4.4	59.68	15.21	0.3995
91	890	4.69	47.48	14.79	0.3292
92	809	7.64	56.38	14.81	0.6379
93	854	9.25	53.43	14.45	0.7141
94	875	7.53	58.59	13.04	0.5753
95	862	7.63	48.66	14.20	0.5272
96	831	7.49	52.01	14.94	0.5820
97	819	4.63	57.56	14.47	0.3857
98	825	6.04	57.02	15.47	0.5327
99	856	8.52	51.15	15.44	0.6731
100	876	4.77	59.74	13.24	0.3773

Date: 29.06.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Division Name: Neemuch-II		Division Chailan: 10		Factory Chailan: 96	
S.No.	Container Number	Factory Wt.(Kgs)	Consistency%	Morphine (ODB)%	MS Content(In Absolute term)
1	931	7.43	38.61	17.12	0.4911
2	909	7.51	56.44	14.78	0.6263
3	982	7.7	62.30	14.49	0.6953
4	924	4.79	58.37	14.27	0.3990
5	905	9.64	54.57	13.84	0.7278
6	986	7.55	51.17	14.52	0.5610
7	998	7.63	62.86	13.52	0.6486
8	961	7.39	51.43	14.78	0.5616
9	975	4.47	59.50	13.43	0.3572
10	911	9.11	57.35	14.04	0.7334
11	912	4.54	56.98	14.83	0.3836
12	903	4.72	58.21	13.16	0.3616
13	923	9.45	60.52	14.08	0.8051
14	994	7.6	56.46	13.39	0.5746
15	999	8.31	64.79	12.13	0.6532
16	972	7.56	57.27	14.16	0.6131
17	990	7.56	59.21	13.80	0.6177
18	958	7.59	49.69	14.97	0.5647
19	910	4.74	58.75	16.02	0.4460
20	992	9.47	54.47	13.86	0.7150
21	993	7.55	58.89	13.89	0.6176
22	951	8.94	59.72	13.16	0.7027
23	949	7.38	56.70	12.54	0.5247
24	913	4.72	58.84	14.09	0.3913
25	996	7.76	58.86	14.80	0.6759
26	971	7.42	52.56	13.95	0.5439
27	918	7.55	61.75	12.26	0.5715
28	987	7.48	57.28	14.11	0.6044
29	959	7.38	47.64	13.50	0.4745
30	978	7.83	60.47	14.16	0.6702
31	962	7.55	56.53	13.23	0.5647
32	974	7.5	49.13	13.21	0.4868
33	965	7.8	60.51	12.97	0.6123

DFP
22-06-22

34	968	7.28	51.18	12.76	0.4754
35	927	4.83	65.98	12.23	0.3898
36	966	7.48	51.43	13.75	0.5288
37	920	4.76	57.77	13.45	0.3699
38	943	4.72	66.12	13.63	0.4253
39	977	7.53	55.48	12.29	0.5135
40	973	7.67	52.99	13.36	0.5430
41	950	8.53	54.01	12.00	0.5527
42	997	7.58	61.71	12.38	0.5791
43	938	4.11	54.64	12.43	0.2791
44	1000	7.92	62.09	11.77	0.5790
45	917	7.57	57.66	11.79	0.5148
46	981	7.64	58.06	14.43	0.6402
47	969	7.6	59.28	13.04	0.5875
48	957	8.98	61.14	12.22	0.6708
49	980	7.65	65.53	12.21	0.6120
50	933	7.07	39.47	13.43	0.3747
51	946	7.36	55.12	13.70	0.5557
52	991	7.51	50.65	13.84	0.5265
53	928	4.79	60.82	14.49	0.4220
54	960	7.42	53.95	12.59	0.5038
55	988	7.39	52.03	14.95	0.5749
56	955	4.52	57.26	13.59	0.3517
57	925	7.71	59.44	14.18	0.6500
58	954	7.92	56.62	12.17	0.5457
59	916	7.57	59.94	12.85	0.5829
60	906	4.71	61.55	12.53	0.3631
61	929	5.08	66.54	11.56	0.3907
62	902	4.66	64.20	13.50	0.4040
63	979	7.6	60.99	12.49	0.5791
64	942	4.67	59.42	13.61	0.3778
65	983	7.28	55.48	13.54	0.5467
66	922	4.68	62.99	13.16	0.3880
67	940	7.33	59.18	13.26	0.5754
68	915	4.85	60.67	12.00	0.3531
69	963	7.57	54.56	14.81	0.6117

DFJ
22-06-24

70	934	7.05	47.13	13.79	0.4583
71	984	7.55	60.58	14.11	0.6455
72	937	4.06	52.24	15.16	0.3216
73	953	4.54	55.70	14.20	0.3591
74	904	7.75	59.84	13.72	0.6363
75	948	4.67	62.92	12.06	0.3545
76	956	8.58	59.32	12.81	0.6521
77	985	7.22	49.53	14.01	0.5011
78	970	7.47	54.89	12.93	0.5304
79	941	4.5	62.23	12.94	0.3622
80	995	7.52	55.78	12.87	0.5399
81	939	4.45	58.70	12.62	0.3297
82	901	7.86	62.92	10.92	0.5400
83	930	5.09	67.19	12.55	0.4291
84	989	7.36	54.89	13.92	0.5623
85	976	7.54	56.44	14.21	0.6047
86	944	9.06	63.25	12.77	0.7320
87	947	7.33	58.32	12.64	0.5402
88	921	4.65	59.51	13.80	0.3818
89	907	9.08	57.90	15.01	0.7891
90	964	7.24	48.53	12.32	0.4330
91	932	7.27	43.05	15.17	0.4747
92	936	8.74	44.02	15.29	0.5882
93	926	7.9	52.18	14.18	0.5846
94	908	9.28	59.06	13.65	0.7480
95	967	7.67	49.02	14.75	0.5545
96	945	9.21	63.87	12.93	0.7607
97	919	7.85	56.34	13.31	0.5887
98	952	7.84	58.82	12.19	0.5621
99	935	6.84	41.74	15.09	0.4309
100	914	4.72	56.65	11.62	0.3106

Lab A/c Supervisor
Anurag Srivastav

Lab Admin
M. B. J.

PARIMAL BANERJEE
Chemical Examiner (G)
Govt. Opium and Alkaloids
Nemuch (M.P.) 453 441